



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 29—नवम्बर 4, 2005 (कार्तिक 7, 1927)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 29—NOVEMBER 4, 2005 (KARTIKA 7, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

सेना शाखा

सं. 508, दिनांक 3 अक्टूबर 2005—राष्ट्रपति यथा संशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 7 विशेष 66 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों को उसके/उनके 04 मार्च 2005 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 7 विशेष 66 के अंतर्गत पदोन्नति के लिए और वेतन वृद्धि के लिए दिनांक 08 मई 1998 से वरिष्ठता के साथ लेफ्टिनेंट के पद में तारीख 04 मार्च 2005 से स्थाई कमीशन प्रदान किया जाता है। तथापि स्थाई कमीशन प्रदान किए गए अल्पकालीन सेवा कमीशन अफसरों की तुलना में उनकी वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्पकालीन सेवा कमीशन की मंजूरी के राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित की गई है।

एसएस सं., आईसी सं., नाम, आर्म/सर्विस

एसएस-38280 (आईसी-64811एम) महादिक जयेंद्र सुरेश, इंजीनियर्स

एसएस-38287 (आईसी-64812पी) ब्रजेश निरंजन, सिग्नल्स

एसएस-38278 (आईसी-64813एक्स) संदीप तोल्लानी, इंजीनियर्स

एसएस-38290 (आईसी-64814ए) आनन्द प्रकाश गुप्ता, ईएमई

एसएस-38277 (आईसी-64815एच) देवेन्द्र सिंह रोहिला, ईएमई

एसएस-38288 (आईसी-64816एल) हजीत सिंह सेठी, सिग्नल्स

एसएस-38279 (आईसी-64817एन) रोशन बी अप्पन्ना, सिग्नल्स

एसएस-38284 (आईसी-64818डब्ल्यू) ओम हजेला, सिग्नल्स

राष्ट्रपति यथा संशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों को उसके/उनके 04 सितम्बर 2004 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत पदोन्नति के लिए तारीख 04 मई 2000 से लेकिन वेतन वृद्धि के लिए तारीख 04 सितम्बर 99 से वरिष्ठता के साथ लेफ्टिनेंट के पद में तारीख 04 सितम्बर 2004 से स्थाई कमीशन प्रदान किया जाता है। अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों की तुलना में जिन्हें स्थाई कमीशन दिया जाएगा

उसकी/उनकी परस्पर परिष्कृता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई थी।

एसएस सं.,	आईसी सं.,	नाम,	आर्म/सर्विस
एसएस-37974	(आईसी-56320एफ)	विशाल मुंथर,	एसी
एसएस-37975	(आईसी-56321के)	क्रिष्णदास टी आर, इफैं	
एसएस-37976	(आईसी-56322एम)	मंजीत कटोच, इफैं	
एसएस-37977	(आईसी-56323पी)	संजय भाटिया, इंजीनियर्स	
एसएस-37978	(आईसी-56324एक्स)	धनराज सिंह चीमा, आर्टी	
एसएस-37979	(आईसी-56325ए)	रजेंद्रा खत्री, इंजीनियर्स	
एसएस-37980	(आईसी-56326एच)	विकास सधोत्रा, एडी आर्टी	
एसएस-37981	(आईसी-56327एल)	संग्राम सिंह राठौर, एएससी	
एसएस-37982	(आईसी-56328एन)	चरन प्रीत सिंह, इफैं	
एसएस-37984	(आईसी-56329डब्ल्यू)	ललित कुमार, इफैं	
एसएस-37987	(आईसी-56330एल)	विक्रमजीत सिंह, इफैं	
एसएस-37988	(आईसी-56331एन)	सरताज सिंह सिद्धू, आर्टी	
एसएस-37989	(आईसी-56332डब्ल्यू)	अरुन कुमार सिंह, मैक	
एसएस-37990	(आईसी-56333वाई)	अजय कुमार, इफैं	
एसएस-37993	(आईसी-56334एफ)	राजागोपाल चक्रबोर्ती, इफैं	
एसएस-37994	(आईसी-56335के)	राहुल सिंह, आर्टी	
एसएस-37995	(आईसी-56336एम)	सौरभ रामचंद्रन, एडी आर्टी	
एसएस-37996	(आईसी-56337पी)	प्रवीन जैन, ईएमई	
एसएस-37997	(आईसी-56338एक्स)	मृत्युंजय उपाध्याय, इफैं	
एसएस-38001	(आईसी-56339ए)	आशिष मोहन अग्रवाल, एसी	
एसएस-38002	(आईसी-56340पी)	दिग्विजय सिंह हाडा, आर्टी	
एसएस-38003	(आईसी-56341एक्स)	अनूप थापा, इफैं	
एसएस-38005	(आईसी-56342ए)	रंजीत कुमार, एओसी	
एसएस-38006	(आईसी-56343एच)	पडाला चंद्र शेखर, इफैं	
एसएस-38008	(आईसी-56344एल)	हरीश सेमवाल, इंट	
एसएस-38009	(आईसी-56345एन)	हिमांशु रावत, इफैं	
एसएस-38010	(आईसी-56346डब्ल्यू)	विनय चंद्र सिमनलस	
एसएस-38011	(आईसी-56347वाई)	रितेश शर्मा, इफैं	
एसएस-38012	(आईसी-56348एफ)	दीपक कटारिया, इफैं	
एसएस-38014	(आईसी-56350वाई)	बाबा बहादुर पुन, इफैं	
एसएस-38015	(आईसी-56351एफ)	अरुण सौरभ चौधरी, मैक	
एसएस-38018	(आईसी-56353एच)	राजेश यादव, इफैं	
एसएस-38021	(आईसी-56354पी)	अजय सिंह यादव, एडी आर्टी	
एसएस-38022	(आईसी-56355एक्स)	मनींदर दीप सिंह, एसी	
एसएस-38025	(आईसी-56357एच)	विकास वशिष्ठा, इफैं	
एसएस-38026	(आईसी-56358एल)	विनीत कुमार गुप्ता, इफैं	
एसएस-38027	(आईसी-56359एन)	निर्मित भटनागर, एएससी	
एसएस-38028	(आईसी-56360एच)	दिलीप कुमार प्रधान, एडी आर्टी	
एसएस-38030	(आईसी-56361एल)	राज कुमार पांडा, आर्टी	
एसएस-38031	(आईसी-56362एन)	रंजित मथ्यू, इफैं	
एसएस-38032	(आईसी-56363डब्ल्यू)	समैर रैना, इफैं	
एसएस-38033	(आईसी-56364वाई)	राजीव भर्वन, इफैं	
एसएस-38034	(आईसी-56365एफ)	विशेष कुमार शर्मा, ईएमई	
एसएस-38038	(आईसी-56366के)	पौनम रोमेश सिंह, इफैं	
एसएस-38040	(आईसी-56368पी)	चंद्र शेखर, इफैं	
एसएस-38041	(आईसी-56369एक्स)	मीतेश खजुरिया, इफैं	
एसएस-38042	(आईसी-56370एम)	सुनील कुमार सिंह, एसी	
एसएस-38043	(आईसी-56371पी)	संजय खान, आर्टी	
एसएस-38044	(आईसी-56372एक्स)	राधाक्रिष्णन राजन, इफैं	
एसएस-38045	(आईसी-56373ए)	प्रशांत मिश्रा, इफैं	
एसएस-38046	(आईसी-56374एच)	राजपाल सिंह, इफैं	
एसएस-38047	(आईसी-56375एल)	उमेश्वर सिंह, एडी आर्टी	
एसएस-38048	(आईसी-56376एन)	केल्कर पुष्पक सुधीर, आर्टी	
एसएस-38049	(आईसी-56377डब्ल्यू)	गुर्मिंदर पाल सिंह, ईएमई	
एसएस-38052	(आईसी-56378वाई)	अकोइजाम जयंता, आर्टी	
एसएस-38053	(आईसी-56379एफ)	संजय पाटिल, आर्टी	
एसएस-38054	(आईसी-56380डब्ल्यू)	वेंकटेश प्रसाद, आर्टी	
एसएस-38055	(आईसी-56381वाई)	बुलबुल भुयान, इफैं	
एसएस-38056	(आईसी-56382एफ)	आशिष पनवर, एसी	
एसएस-38058	(आईसी-56383के)	वीरेंद्रा पाल सिंह, एसी	
एसएस-38060	(आईसी-56384एम)	विनोद पी के, सिमनलस	
एसएस-38062	(आईसी-56385पी)	हदीप सिंह सेवाल, इफैं	
एसएस-38063	(आईसी-56386एक्स)	उम्राव सिंह तंवर, आर्टी	
एसएस-38064	(आईसी-56387ए)	शैलेश शर्मा, इंजीनियर्स	
एसएस-38066	(आईसी-56388एच)	मृत्युंजय कुमार मिश्रा, मैक	
एसएस-38067	(आईसी-56389एल)	पुष्पेन्द्र सिंह रनावत, इफैं	
एसएस-38068	(आईसी-56390ए)	प्रभात कुमार मिश्रा, इफैं	

- एसएस-38069 (आईसी-56391एच) सुर्जीत लाक्रा, एससी
- एसएस-38070 (आईसी-56392एल) संजय कुमार, इफै
- एसएस-38071 (आईसी-56393एन) प्रवीन कुमार शर्मा, एडी आर्टी
- एसएस-38072 (आईसी-56394डब्ल्यू) संजीव बाज पाई, इफै
- एसएस-38073 (आईसी-56395वाई) शांतनु डे, इफै
- एसएस-38075 (आईसी-56396एफ) अमित राठी, एसी
- एसएस-38076 (आईसी-56397के) वरुण भारतिा, आर्टी
- एसएस-38077 (आईसी-56398एम) गौरव सिंह ठाकुर, आर्टी
- एसएस-38078 (आईसी-56399पी) दीपक कुमार पांडे, ईएमई
- एसएस-38079 (आईसी-56400वाई) बिरिंदर सिंह कुलर, एसी
- एसएस-38081 (आईसी-56402के) सुल्तान सिंह, इंजीनियर्स
- एसएस-38083 (आईसी-56404पी) अभिशेक कौशिक, मैक
- एसएस-38086 (आईसी-56406ए) डिसौजा जेवियर डीगो, आर्टी
- एसएस-38087 (आईसी-56407एच) प्रवीन सिंह बिष्ट, इंजीनियर्स
- एसएस-38091 (आईसी-56408एल) भारतिंदर सिंह मान, इफै
- एसएस-38092 (आईसी-56409एन) प्रमोद कुमार चौधरी, इफै
- एसएस-38095 (आईसी-56410एच) नवदीप गोस्वामी, इफै
- एसएस-38096 (आईसी-56411एल) सी शब्रीनाथ, आर्टी
- एसएस-38097 (आईसी-56412एन) नरींदर पाल सिंह, एडी आर्टी
- एसएस-38098 (आईसी-56413डब्ल्यू) आकाश सिंह, इफै
- एसएस-38101 (आईसी-56415एफ) ध्रुव सिंह सुपाहिया, ईएमई
- एसएस-38105 (आईसी-56416के) संजय जैन, एसी
- एसएस-38109 (आईसी-56417एम) सम्राट सेनगुप्ता, इफै
- एसएस-38110 (आईसी-56418पी) आशुतोष सिन्हा, एससी
- एसएस-38114 (आईसी-56419एक्स), प्रवीन कुमार, इफै
- एसएस-38115 (आईसी-56420एम) रवी पटनी, इंजीनियर्स
- एसएस-38117 (आईसी-56421पी) के सनत, सिग्नल्स
- एसएस-38118 (आईसी-56422एक्स) दीपक कुमार जोशी, इफै
- एसएस-38120 (आईसी-56424एच) सौरव पाल, इफै
- एसएस-38122 (आईसी-56425एल) राहुल आर्या, इफै
- एसएस-38123 (आईसी-56426एन) दिग्विजय सिंह बिष्ट, आर्टी
- एसएस-38125 (आईसी-56428वाई) मोहिन्दर कुमार शान, इफै
- एसएस-38128 (आईसी-56431वाई) कनवलजीत सिंह बाज्वा, इंट
- एसएस-38130 (आईसी-56432एफ) अरविंद सैनी, इफै
- एसएस-38134 (आईसी-56436एक्स) महिन्दर कुमार, आर्टी
- एसएस-38135 (आईसी-56437ए) नीलोत्पल त्यागी, इफै
- एसएस-38136 (आईसी-56438एच) राजेश कुमार सिंह, इफै
- एसएस-38137 (आईसी-56439एल) पुनीत शर्मा, एसी
- एसएस-38138 (आईसी-56440ए) पुष्पिंदर गोहिल, इफै
- एसएस-38139 (आईसी-56441एच) आईमोन मुखर्जी, इफै
- एसएस-38140 (आईसी-56442एल) विशाल चौधरी, इफै
- एसएस-38141 (आईसी-56443एन) नितिन मुद्गल, इफै
- एसएस-38143 (आईसी-56444डब्ल्यू) विक्रम राजे भोसले, मैक
- एसएस-38146 (आईसी-56445वाई) पंकज शुक्ला, आर्टी
- एसएस-38148 (आईसी-56446एफ) हरी के नायर, आर्टी
- एसएस-38149 (आईसी-56447के) आनंद कुमार सिंह, इफै
- एसएस-38150 (आईसी-56448एम) देवेन्द्र कुमार, इफै
- एसएस-38151 (आईसी-56449पी) संजय आर्य, इफै
- एसएस-38153 (आईसी-56450के) रवि कुमार, इफै
- एसएस-38156 (आईसी-56452पी) क्लिंटन रूबेन, इफै
- एसएस-38158 (आईसी-56454ए) बलजीत सिंह, एससी
- एसएस-38160 (आईसी-56456एल) रूपींदर सिंह, आर्टी
- एसएस-38161 (आईसी-56457एन) दर्शन सचदेव, इफै
- एसएस-38162 (आईसी-56458डब्ल्यू) निरेन सुधीर देशपांडे, आर्टी
- एसएस-38165 (आईसी-56460एन) गौतम झा, एसी
- एसएस-38168 (आईसी-56462वाई) अभिमन्यू एस राठोर, इफै
- एसएस-38174 (आईसी-56464के) विनीत नारायण, इफै
- एसएस-38175 (आईसी-56465एम) देवाशिश दत्ता, सिग्नल्स
- एसएस-38176 (आईसी-56466पी) रचित रावत, इफै
- एसएस-38178 (आईसी-56467एक्स) प्रनव औक्ता, एसी
- एसएस-38180 (आईसी-56469एच) राकेश कुमार, एडी आर्टी
- एसएस-38181 (आईसी-56470एक्स) आईमोन समंता, इफै
- एसएस-38186 (आईसी-56472एच) अमरेश सिंह खंगरोट, इफै
- एसएस-38187 (आईसी-56473एल) रजनीकांत, एससी
- एसएस-38188 (आईसी-56474एन) मनिक पठानिया, ईएमई
- एसएस-38189 (आईसी-56475डब्ल्यू) गौरव कुमार मिश्रा
- एसएस-38190 (आईसी-56476वाई) पी आनंद थम्पी, आर्टी
- एसएस-38193 (आईसी-56477एफ) विनीत कुमार शर्मा, एओसी

एसएस-38194 (आईसी-56478के) सूरज सुब्बा, इंफैं	एसएस-38321 (आईसी-64842एम), दिग्विजय सिंह चौहान, एसी
एसएस-38197 (आईसी-56481के) अभिजीत मुखर्जी, एडी आर्टी	एसएस-38322 (आईसी-64843पी), रजनीश डे, ईएमई
एसएस-38198 (आईसी-56482एम) आकाश खन्ना, एसी	एसएस-38323 (आईसी-64844एक्स), शकुन काम्बोज, ईएमई
एसएस-38201 (आईसी-56484एक्स) नीरज कुमार, सिग्नल्स	एसएस-38325 (आईसी-64845ए), राहुल सेठी, आर्टी
एसएस-38204 (आईसी-56487एल) रोहित रसैली, आर्टी	एसएस-38326 (आईसी-64846एच), शैलेंद्र गुरुंग, आर्टी
एसएस-38209 (आईसी-56490एल) आशिष कृष्णा, आर्टी	एसएस-38329 (आईसी-64847एल), विशाल राय, इन्फैंट्री
निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों को उसके/उनके 04 मार्च 2005 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत पदोन्नति के लिए तारीख 04 नवम्बर 2000 से लेकिन वेतन वृद्धि के लिए तारीख 04 मार्च 2000 से परिष्कृत के साथ लेफ्टिनेन्ट के पद में तारीख 04 मार्च 2005 से स्थाई कमीशन प्रदान किया जाता है। अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों की तुलना में जिन्हें स्थाई कमीशन दिया जाएगा उसको/उनको परस्पर परिष्कृत वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई थी।	एसएस-38330 (आईसी-64848एन), सोवन दुत्ता, मैक
एसएस नम्बर, आईसी नम्बर, नाम, आम/सर्विस	एसएस-38332 (आईसी-64850एल), सुधीर के छिकारा, इन्फैंट्री
एसएस-38291 (आईसी-64821डब्ल्यू) अनुराग, एडी आर्टी	एसएस-38333 (आईसी-64851एन), टी जी राजेश, एडी आर्टी
एसएस-38293 (आईसी-64822वाई), उत्पल श्रीधर मोरे, आर्टी	एसएस-38334 (आईसी-64852डब्ल्यू), हरीश चंद गुप्ता, एसी
एसएस-38294 (आईसी-64823एफ), जगदीप सिंह कपूर, मैक	एसएस-38335 (आईसी-64853वाई), संगिरोड्डि हेमंत नाथ, इन्फैंट्री
एसएस-38296 (आईसी-64824के), कुलदीप कुमार, इन्फैंट्री	एसएस-38340 (आईसी-64856एम), रवींद्र भट्ट, आर्टी
एसएस-38298 (आईसी-64826पी), हरमंदीप सिंह ग्रेवाल, इन्फैंट्री	एसएस-38341 (आईसी-64857पी), विवेक नेपाने, इं
एसएस-38299 (आईसी-64827एक्स), मनीष संग्रह, इन्फैंट्री	एसएस-38342 (आईसी-64858एक्स), कमल किशोर महाजन, इंजीनियर्स
एसएस-38300 (आईसी-64828ए), अजय पाल सिंह, इन्फैंट्री	एसएस-38344 (आईसी-64859ए), विशाल सिंह, इन्फैंट्री
एसएस-38302 (आईसी-64829एच), मनोज राठी, एसी	एसएस-38345 (आईसी-64860पी), रवराज भट्टाचार्य, इन्फैंट्री
एसएस-38304 (आईसी-64830एक्स), रमेश कुमार रत्ना, आर्टी	एसएस-38346 (आईसी-64861एक्स), प्रचेतन गहटराज, इन्फैंट्री
एसएस-38305 (आईसी-64831ए), भोरास्कर राहुल वसंत, इन्फैंट्री	एसएस-38350 (आईसी-64862ए), विक्रम, इन्फैंट्री
एसएस-38306 (आईसी-64832एच), आनंद एस वी, इंजीनियर्स	एसएस-38353 (आईसी-64864एल), निखिल वी पांडे, इंजीनियर्स
एसएस-38307 (आईसी-64833एल), संजय कुमार, इंजीनियर्स	एसएस-38354 (आईसी-64865एन), विजय कुमार बराला, इन्फैंट्री
एसएस-38310 (आईसी-64834एन), चौधरी अमोल अजय, इन्फैंट्री	एसएस-38355 (आईसी-64866डब्ल्यू), विनय राजन, आर्टी
एसएस-38311 (आईसी-64835डब्ल्यू), संजीव शर्मा, इन्फैंट्री	एसएस-38356 (आईसी-64867वाई), जैयदीप कृष्णन, एसी
एसएस-38312 (आईसी-64836वाई), धर्मेदा त्यागी, इन्फैंट्री	एसएस-38357 (आईसी-64868एफ), रजीव डिंगरा, इंजीनियर्स
एसएस-38313 (आईसी-64837एफ), राजेश परमार, इन्फैंट्री	एसएस-38358 (आईसी-64869के), एंथोनी मेन्वकुमार, इंजीनियर्स
एसएस-38316 (आईसी-64838के), किशोर प्रोवासाक, आर्टी	एसएस-38359 (आईसी-64870वाई), अमित भागी, इन्फैंट्री
एसएस-38317 (आईसी-64839एम), कुनीक पोंगदाय, आर्टी	एसएस-38360 (आईसी-64871एफ), जॉनसन जोसफ, एडी आर्टी
एसएस-38319 (आईसी-64840एफ), अलोक शुक्ला, आर्टी	एसएस-38361 (आईसी-64872के), दीपेश सावने, इन्फैंट्री
एसएस-38320 (आईसी-64841के), मुकेश कुमार शंकरा, एडी आर्टी	एसएस-38362 (आईसी-64873एम), विशाल लक्सना, आर्टी
	एसएस-38364 (आईसी-64875एक्स), जॉन फिलिप, आर्टी
	एसएस-38367 (आईसी-64877एच), अकाश च्योति गोगोई, एसी
	एसएस-38368 (आईसी-64878एल), सुधीर पारे, इन्फैंट्री
	एसएस-38372 (आईसी-64881एल), रजत पार, इन्फैंट्री

एसएस-38374 (आईसी-64882एन), देशपांडे पंकज हरीश, एडी आर्टी

एसएस-38377 (आईसी-64883डब्ल्यू), राजीव कुमार, इन्फैंट्री

एसएस-38378 (आईसी-64884वाई), डी वी संतोश मेहर, आर्टी

एसएस-38380 (आईसी-64885एफ), ग्लेन पेरीरा, आर्टी

एसएस-38381 (आईसी-64886के), मयांक बहुगुणा, इंजीनियर्स

एसएस-38383 (आईसी-64887एम), चरनजीत सिंह चौधरी, इन्फैंट्री

एसएस-38384 (आईसी-64888पी), राजेश कुमार त्रिपाठी, आर्टी

एसएस-38385 (आईसी-64889एक्स), अर्जुन राव, इन्फैंट्री

एसएस-38386 (आईसी-64890एम), आर चंद्रकांत, इंजीनियर्स

एसएस-38391 (आईसी-64893ए), अमितेंद्रा कांत सिंह, आर्टी

एसएस-38392 (आईसी-64894एच), संदीप सिंह, इन्फैंट्री

एसएस-38394 (आईसी-64896एन), कृष्णकांत पी, इन्फैंट्री

एसएस-38395 (आईसी-64897डब्ल्यू), आर्चिव थापा, इन्फैंट्री

एसएस-38396 (आईसी-64898वाई), योगेश शर्मा, सिग्नल्स

एसएस-38399 (आईसी-64900एल), मोहम्मद तबीज, मैक

एसएस-38401 (आईसी-64902डब्ल्यू), आदर्श कुमार सिंह, इन्फैंट्री

एसएस-38402 (आईसी-64903वाई), करनदीप सिंह बादालिया, इन्फैंट्री

एसएस-38403 (आईसी-64904एफ), प्रभात शर्मा, एडी आर्टी

एसएस-38406 (आईसी-64906एम), हरश्वीर सिंह, इन्फैंट्री

एसएस-38410 (आईसी-64909ए), सुरेश पी, आर्टी

एसएस-38411 (आईसी-64910पी), के विजय कुमार नाथर, एडी

एसएस-38412 (आईसी-64911एक्स), रवि व्यास, इन्फैंट्री

एसएस-38414 (आईसी-64913एच), नागेंद्रा प्रसाद, इंफैन्ट्री

एसएस-38415 (आईसी-64914एल), वीर विक्रम सिंह, आर्टी

एसएस-38416 (आईसी-64915एन), सुभांत शर्मा, आर्टी

एसएस-38417 (आईसी-64916डब्ल्यू), रुद्रनाथन सिंह, एडी आर्टी

एसएस-38418 (आईसी-64917वाई), अजय प्रेक्षान, एडी

एसएस-38419 (आईसी-64918एफ), कंदन ठाकुर, इन्फैंट्री

एसएस-38420 (आईसी-64919के), सिद्धार्थ सिंह विहिंडे, इन्फैंट्री

एसएस-38422 (आईसी-64920वाई), सिद्धार्थ मुखर्जी, इन्फैंट्री

एसएस-38424 (आईसी-64921एफ), अनुभव शर्मा, एससी

एसएस-38425 (आईसी-64922के), मोहन कुमार, सिग्नल्स

एसएस-38429 (आईसी-64925एक्स), रोहित नेगी, इन्फैंट्री

एसएस-38431 (आईसी-64926ए), प्रशांत कुमार, आर्टी

एसएस-38432 (आईसी-64927एच), योगेश चट्टराजन, इन्फैंट्री

एसएस-38433 (आईसी-64928एल), दिग्विजय सिंह पठानिया, इन्फैंट्री

एसएस-38434 (आईसी-64929एन), नवदीप सिंह बेडी, इन्फैंट्री

एसएस-38436 (आईसी-64930एच), शर्मा तरुण कुल्दीपक, आटा

एसएस-38437 (आईसी-64931एल), प्रसाद संतोश कृष्णा, आर्टी

एसएस-38445 (आईसी-64933डब्ल्यू), गिरीश पी, मैक

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों को उसके/उनके 05 सितम्बर 2003 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर यथा संशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 03 विशेष 70 के अंतर्गत पदोन्नति के लिये तारीख 05 मई 99 से लेकिन वेतन वृद्धि के लिए तारीख 05 सितम्बर 98 से वरिष्ठता के साथ लेफ्टिनेन्ट के पद में तारीख 05 सितम्बर 2003 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है। तथापि स्थाई कमीशन प्रदान किये गये अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों की तुलना में उनकी वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्पकालीन सेवा कमीशन की मंजूरी के राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित की गयी है।

एसएस सं., आईसी सं., नाम, आर्म/सर्विस

एसएस-37464 (आईसी-56061के) हरि बहाधुर थापा, इंफैंट्री

एसएस-37547 (आईसी-56124एफ) विवेक भण्डारी, इंफैंट्री

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों को उसके/उनके 05 सितम्बर 2003 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर यथा संशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत पदोन्नति के लिये तारीख 05 मई 99 से लेकिन वेतन वृद्धि के लिए तारीख 05 सितम्बर 98 से वरिष्ठता के साथ लेफ्टिनेन्ट के पद में तारीख 05 सितम्बर 2003 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है। तथापि स्थाई कमीशन प्रदान किये गये अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों की तुलना में उनकी वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्पकालीन सेवा कमीशन की मंजूरी के राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित की गयी है।

एसएस सं., आईसी सं., नाम, आर्म/सर्विस

एसएस-37517 (आईसी-56103एल) नरेन्द्र सिंह रौतेला, इंफैंट्री

एसएस-37566 (आईसी-56138एफ) अशोक कुमार महाराणा, एडी आर्टी

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों को उसके/उनके 05 सितम्बर 2002 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर यथा संशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत पदोन्नति के लिये तारीख 05 मई 98 से लेकिन वेतन वृद्धि के लिए तारीख 05 सितम्बर 97 से वरिष्ठता के साथ लेफ्टिनेन्ट के पद में तारीख 05 सितम्बर 2002 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है। तथापि स्थाई कमीशन प्रदान किये गये अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों की तुलना में उनकी वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्पकालीन सेवा कमीशन की मंजूरी के राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित की गयी है।

एसएस सं., आईसी सं., नाम, आर्म/सर्विस

एसएस-37071 (आईसी-55845वाई) मोहीते समीर नारायण, एओसी

एसएस-37090 (आईसी-55949ए) अरुण बारा, इंफैंट्री

एसएस-37108 (आईसी-55874एन) मनीश कुमार गोसाई, इंफैंट्री
 एसएस-37132 (आईसी-55891एन) राकेश हमदर्द, इंफैंट्री
 एसएस-37147 (आईसी-55900के) अमीत विक्रम सिंह, आर्टी
 एसएस-37189 (आईसी-55924एन) लक्ष्मण सिंह चोहान, इंफैंट्री
 राष्ट्रपति यथा संशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 और अनुदेश 12/2001 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :-

नियमित सेना
 स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों को उसके/उनके 26 मई 2004 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत 26 मई 2004 से स्थाई कमीशन प्रदान किया जाता है परन्तु वेतन वृद्धि के लिए तारीख 24 अगस्त 1996 होगी। सेना अनुदेश 12/2001 के अंतर्गत अपनी सेवा के सातवें वर्ष में स्थाई कमीशन पाने का विकल्प दिए जाने के कारण बैच को दी गई वरिष्ठता में से एक वर्ष की वरिष्ठता कम कर देने के बाद पदोन्नति के लिए वरिष्ठता की तारीख 24 अप्रैल 1998 होगी। तथापि स्थाई कमीशन प्रदान किये गये अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों की तुलना में उनकी वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्पकालीन सेवा कमीशन की मंजूरी के राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित की गयी है।

एसएस सं., आईसी सं., नाम, आर्म/सर्विस

एसएस-36746 (आईसी-55743एच) धीरेन्द्र मल्लिक, इंफैंट्री

एसएस-36785 (आईसी-55744एल) विकास शर्मा, सिग्नल्स

एसएस-36825 (आईसी-55745एन) आशित कुमार मोहंती, मैक

एसएस-36867 (आईसी-55746डब्ल्यू) राजेश रावत, इंफैंट्री

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों को उसके/उनके 24 नवम्बर 2003 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत 24 नवम्बर 2003 से स्थाई कमीशन प्रदान किया जाता है परन्तु वेतन वृद्धि के लिए तारीख 09 मार्च 1996 होगी। सेना अनुदेश 12/2001 के अंतर्गत अपनी सेवा के सातवें वर्ष में स्थाई कमीशन पाने का विकल्प दिए जाने के कारण बैच को दी गई वरिष्ठता में से एक वर्ष की वरिष्ठता कम कर देने के बाद पदोन्नति के लिए वरिष्ठता की तारीख 09 नवम्बर 1997 होगी। तथापि स्थाई कमीशन प्रदान किये गये अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों की तुलना में उनकी वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्पकालीन सेवा कमीशन की मंजूरी के राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित की गयी है।

एसएस सं., आईसी सं., नाम, आर्म/सर्विस

एसएस-36595 (आईसी-55628एच) राजीव शर्मा, इंफैंट्री

एसएस-36617 (आईसी-55630ए) आशू खोसला, एसी

एसएस-36683 (आईसी-55631एच) अरुण पाल सिंह, एसी

एमएलएन श्रवण कुमार
 कर्नल

कोल एमएस (आरएण्डपीआर)

सं. 509, दिनांक 4 अक्टूबर 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित पद पर सहर्ष नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

(अल्प सेवा आयोग)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर

निम्नलिखित जैन्टलमैन कैंडिडेट्स को अल्पकालीन सेवा आयोग (तकनीकी)-21 कार्यक्रम के हैं, को सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लै. के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 17 सितम्बर 2004 से पांच वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 17 सितम्बर 2002 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94 (संशोधित) के अन्तर्गत दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है।

जॉय दिप्ता बोस (एसएस-40826डब्ल्यू), सिग्नल्स निदिष्टता ज्येष्ठता लै. शेख अकरम मुजीब (एसएस-40825एन), इंजीनियर, अगाशे बिपिन विनय (एसएस-40840एच), इंजीनियर निदिष्टता ज्येष्ठता लै. कार्तिक पी (एसएस-40839एन), सिग्नल्स एवं विनय कुमार शर्मा (एसएस-40846के), सिग्नल्स निदिष्टता ज्येष्ठता लै. शानमुगनाथन वी बी (एसएस-40845एफ), सिग्नल्स जिनके नाम भारत के राजपत्र में 02 जुलाई 2005 को हो चुके हैं, उसी में अंकित किया जाता है।

निम्नलिखित महिला अधिकारियों ने अल्प-सेवा आयोग (परखाधीन) का छः मास का समय जो कि 17 सितम्बर 2004 से शुरू हुआ था, पूरा कर लिया है। उनको उसी तिथि 17 सितम्बर 2004 से लैफ्टिनेन्ट के पद पर पांच वर्ष के लिए अल्प-सेवा आयोग सेना अनुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है।

बबीता (डब्ल्यूएस-00939डब्ल्यू), एईसी निदिष्टता ज्येष्ठता लै. सपना राठी (डब्ल्यूएस-00938एन), इंजीनियर; सुजाता मन्दोत्रा (डब्ल्यूएस-00964पी), एडीए निदिष्टता ज्येष्ठता लै. दिव्या गर्ग (डब्ल्यूएस-00963एम), ईएमई; जगताप सैली नन्दकुमार (डब्ल्यूएस-00966ए), इंजीनियर निदिष्टता ज्येष्ठता लै. नेहा भाटिया (डब्ल्यूएस-00965एक्स), इंजीनियर; राजश्री (डब्ल्यूएस-00976के), जेएजी निदिष्टता ज्येष्ठता लै. डौली (डब्ल्यूएस-00975एफ), एससी एवं हिमानी थपलियाल (डब्ल्यूएस-00955एन), इंजीनियर निदिष्टता ज्येष्ठता लै. रोमाना खॉन (डब्ल्यूएस-00954एल), एओसी जिनका नाम भारतवर्ष के राजपत्र 16 जुलाई 2005 को हो चुका है, उसी में अंकित किया जाता है।

2. सेनानुदेश 10/96 (सूची पत्र संख्या 9 दिनांक 01 जून 1996) विशेष सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत निम्नलिखित महिला अधिकारियों की विशेष अल्प-सेवा आयोग (परखाधीन) लै. के पद पर उनको 05 अप्रैल 2004 से प्रदान किया जाता है। उनको प्रशिक्षण की समाप्ति पर विशेष सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत 17 सितम्बर 2004 से प्रदान किया जाता है। उनको दो वर्ष पूर्व दिनांक 17 सितम्बर 2002 से वेतन तथा उन्नति के लिए उपरोक्त सेनानुदेश के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है।

गिरिजा सी एच (डब्ल्यूएस-00952ए), इंजीनियर निर्दिष्टता ज्येष्ठता लै मीनाल चौहान (डब्ल्यूएस-00951एक्स), इंजीनियर एवं बिनिता पूनम (डब्ल्यूएस-00969एन), सिगनल निर्दिष्टता ज्येष्ठता लै. पुश्विन्द्र कौर (डब्ल्यूएस-00968एल), एओसी जिनका नाम भारतवर्ष के राजपत्र 16 जुलाई 2005 को हो चुका है, उसी में अंकित किया जाता है।

चन्द्र शेखर
लै. कर्नल
सहायक सेना सचिव 8वीं

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 510, दिनांक 3 अक्टूबर 2005--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

श्री बीर सिंह यादव को 24.03.2004 से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में सीफोस, दिल्ली में एक वर्ष की परखावधि पर अस्थायी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 (ग्रुप 'ए') के रूप में वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- पर।

सतीश कुमार टी वी
उप सहायक निदेशक (कार्मिक)

वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय

सं. 511, दिनांक 30 सितम्बर 2005--राष्ट्रपति महोदय वै गु आ मनि रक्षा मंत्रालय, में निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

1. श्री आर पद्मनाभन 31 मई, 2001 (पूर्वाह) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ. मनि., रक्षा मंत्रालय कोरवा, मुलतानपुर-227412 में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

2. श्रीमती एस. पी. विशालाक्षि 11 जनवरी, 2001 (पूर्वाह) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए कार्यालय, अलिसदा, वै. गु. आ. मनि., रक्षा मंत्रालय, बैंगलोर में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

3. श्री नालामुथु कानडास्वामी 19 जनवरी 2001 (पूर्वाह) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ. मनि., रक्षा मंत्रालय विमानपुरा, पोस्ट बॉक्स 1782, बैंगलोर-17, में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

4. श्री विनय गणेशराव तथाडे, 04 जनवरी 2001 (पूर्वाह) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए ए.ए.आई.डब्ल्यू. के कार्यालय, वै.गु.आ. मनि., रक्षा मंत्रालय, पोस्ट चन्द्रपुर आर्डीनेंस फेक्टरी, चांदा-422501 में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

5. श्री अताऊर रहमान, 20 नवम्बर 2000 (पूर्वाह) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ. मनि., रक्षा मंत्रालय, द्वारा एचएएल, नासिक डिवीजन, जोड़र में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

6. श्री संजीव दीवान, 21 दिसंबर 2000 (पूर्वाह) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ. मनि., रक्षा मंत्रालय द्वारा एचएएल, नासिक डिवीजन, जोड़र में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

7. श्री जी रवि कुमार, 30 नवम्बर 2000 (पूर्वाह) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ. मनि., रक्षा मंत्रालय, विमानपुरा, पोस्ट बॉक्स सं. 1782, बैंगलोर-17, में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

8. श्री एन. पुट्टराजु, 30 नवम्बर 2000 (पूर्वाह) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ. मनि., रक्षा मंत्रालय, विमानपुरा, पोस्ट बॉक्स सं. 1782, बैंगलोर-17, में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

9. श्री राजवीर टंक, 17 नवम्बर 2000 (पूर्वाह) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ. मनि., रक्षा मंत्रालय, पुणे-03, में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

10. श्री एस डेसिगु, 03 नवम्बर 2000 (पूर्वाह) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ. मनि., रक्षा मंत्रालय, विमानपुरा, पोस्ट बॉक्स सं. 1782, बैंगलोर-17, में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

11. श्री तुषार श्रीराम भट्ट, 29 नवम्बर 2004 (पूर्वाह) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ. मनि., रक्षा मंत्रालय, खडकी, पुणे-03, में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

12. श्री बी एस संदीप, 30 अक्टूबर 2000 (पूर्वाह) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ. मनि., रक्षा मंत्रालय, पोस्ट बॉक्स सं. 06, सुनाबेडा, कोरापुट जिला, उड़ीसा-763002, में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

रामजी लाल
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

धल सेना विभाग

सं. 512, दिनांक 28 सितम्बर 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशन्ड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं :--

निर्वाह सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार मेजर बृज लाल भार्गड़ (जेसी-478053वाई) पहले राजपूत रेजीमेन्ट, 10 जुलाई 2004

सूबेदार मेजर शक्ति चन्द (जेसी-201085एक्स) पहले डोगरा रेजीमेन्ट, 02 अक्टूबर 2004

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

सूबेदार फतेह सिंह गुर्जर (जेसी-478270पी) पहले राजपूत रेजीमेन्ट, 02 मई 2004

सूबेदार गज राज सिंह (जेसी-168824डब्ल्यू) पहले ग्रनेडीयर्स, 10 मई 2004

सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-185190एफ) पहले सिख रेजीमेन्ट, 10 जुलाई 2004

सूबेदार कुन्जा बिहारी सिंघा (जेसी-548253पी) पहले आसाम रेजीमेन्ट, 10 जुलाई 2004

सूबेदार चन्द्रा भुसन सिंह (जेसी-184240पी) पहले ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, 10 जुलाई 2004

सूबेदार करन सिंह (जेसी-211555एल) पहले आर्मड कोर, 10 जुलाई 2004

सूबेदार नन्द लाल (जेसी-518744डब्ल्यू) पहले डोगरा रेजीमेन्ट, 10 जुलाई 2004

सूबेदार सोहन सिंह (जेसी-205139एल) पहले सिख रेजीमेन्ट, 10 जुलाई 2004

सूबेदार सत्या पाल सिंह (जेसी-468139के) पहले राज राईफल्स, 02 अक्टूबर 2004

सूबेदार नरार्दन दत्त बस्त्रियाल (जेसी-528078के) पहले गढ़वाल राईफल्स, 02 अक्टूबर 2004

सूबेदार आशा सिंह राना (जेसी-174116ए) पहले डोगरा रेजीमेन्ट, 02 अक्टूबर 2004

सूबेदार नन्दा प्रसाद पुन (जेसी-612089एफ) पहले 4 जीआर, 05 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-201114एफ) पहले कुमाऊं रेजीमेन्ट, 01 मई 2004

नायब सूबेदार बसन्त राम (जेसी-428137डब्ल्यू) पहले एएससी (एमटी), 01 मई 2004

नायब सूबेदार सुभिर कुमार (जेसी-841636-एक्स) पहले भारतीय नौसेना, 01 मई 2004

नायब सूबेदार तजिन्दर सिंह (जेसी-498033एम) पहले सिख रेजीमेन्ट, 01 मई 2004

नायब सूबेदार सुन्दरा सिंह (जेसी-528169एन) पहले गढ़वाल राईफल्स, 01 मई 2004

नायब सूबेदार कृष्ण पाडा घोष (जेसी-297851एक्स) पहले आर्टी, 01 मई 2004

नायब सूबेदार निर्मल सिंह परमार (जेसी-221948पी) पहले ईएमई, 01 मई 2004

नायब सूबेदार जगदम्बा प्रसाद सिंह (जेसी-225939एल) पहले आर्टी, 01 मई 2004

नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह (जेसी-208417वाई), पहले कुमाऊं रेजीमेन्ट, 03 मई 2004

नायब सूबेदार ओम प्रकाश यादव (जेसी-841669एच) पहले भारतीय नौ सेना, 10 जुलाई 2004

नायब सूबेदार आज़ाद सिंह मलिक (जेसी-211079एक्स) पहले जाट रेजीमेन्ट, 10 जुलाई 2004

नायब सूबेदार फकीर सिंह (जेसी-578615ए) पहले जैक राईफल्स, 10 जुलाई 2004

नायब सूबेदार कालि दास (जेसी-578499एच) पहले जैक राईफल्स, 10 जुलाई 2004

नायब सूबेदार राधे सिंह (जेसी-590014एफ) पहले कुमाऊं रेजीमेन्ट, 11 जुलाई 2004

नायब सूबेदार इर्विन सम्याल (जेसी-841704ए), पहले भारतीय नौ सेना, 03 अक्टूबर 2004

टी. के. एम. पिल्लै
अवर सचिव

सं. 513, दिनांक 29 सितम्बर 2005--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

तोपखाना रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार महाडीक प्रताप (सं. 14362794एन अब जेसी-267588एच), 10 दिसम्बर 2004/07 जून 2004*

हवलदार दर्याई लाल (सं. 14474095के अब जेसी-267589एल), 07 नवम्बर 2004/01 अगस्त 2004*

हवलदार सन्त लाल (सं. 14475272एल अब जेसी-267590ए), 23 नवम्बर 2004/01 अगस्त 2004*

बी एच एम गुनामनी सिंघा (सं. 14470693के अब जेसी-267591एच), 16 दिसम्बर 2004/18 अगस्त 2004*

हवलदार तेज प्रकाश (सं. 14479859एफ अब जेसी-267592एल), 11 अक्टूबर 2004/20 अगस्त 2004*

हवलदार संदीप शर्मा (सं. 14360297एल अब जेसी-267593एन), 27 दिसम्बर 2004/30 अगस्त 2004*

हवलदार दिनेश कुमार (सं. 14365584वाई अब जेसी-267594डब्ल्यू), 11 दिसम्बर 2004/30 अगस्त 2004*

हवलदार गोविन्द सिंह राठौर (सं. 14389786वाई अब जेसी-267595वाई), 20 नवम्बर 2004/31 अगस्त 2004*

हवलदार लीला कान्ता बरूआ (सं. 14491748डब्ल्यू अब जेसी-267596एफ), 03 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004*

बी एच एम नारायण भोसले (सं. 14372727डब्ल्यू अब जेसी-267597के), 17 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004*

हवलदार भामर सिंह जादोन (सं. 14397762के अब जेसी-267598एम), 10 नवम्बर 2004/05 अक्टूबर 2004*

हवलदार राम प्रकाश (सं. 14393431एल अब जेसी-267599पी), 15 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004*

हवलदार हीरेन कुमार सरकार (सं. 14471103एम अब जेसी-267600वाई), 20 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004*

हवलदार चन्दन बहादुर (सं. 14360299डब्ल्यू अब जेसी-267601एफ), 04 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2004*

हवलदार रमानी सिन्हा (सं. 14355643एम अब जेसी-267602के), 19 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004*

आर एच एम महाबीर प्रसाद (सं. 14487658एक्स अब जेसी-267603एम), 05 दिसम्बर 2004/18 नवम्बर 2004*

हवलदार रामपाल (सं. 14485624एल अब जेसी-267640ए), 14 दिसम्बर 2004/01 अगस्त 2004*

हवलदार कृष्ण एन एम (सं. 14476154के अब जेसी-267641एच), 21 नवम्बर 2004/10 अगस्त 2004*

हवलदार बीपिन सिंह (सं. 14463306एफ अब जेसी-267642एल), 16 नवम्बर 2004/16 अगस्त 2004*

हवलदार झला वदन सिंह शिव सिंह (सं. 14361010पी अब जेसी-267643एन), 07 दिसम्बर/01 अक्टूबर 2004*

हवलदार उदईवीर सिंह (सं. 14479647एफ अब जेसी-267644डब्ल्यू), 20 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004*

बीएचएम हरबीर सिंह यादव (सं. 14465767के अब जेसी-267645वाई), 08 दिसम्बर 2004/11 नवम्बर 2004*

हवलदार एम सेल्लादुराई (सं. 14487993एफ अब जेसी-267646एफ), 10 जनवरी 2005/15 नवम्बर 2004*

हवलदार प्रशान्ता कुमार दास (सं. 14403726एक्स अब जेसी-267647के), 21 जनवरी 2005/26 नवम्बर 2004*

हवलदार दया राम (सं. 14344950के अब जेसी-267648एम), 07 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004*

हवलदार रतन सिंह (सं. 14368080डब्ल्यू अब जेसी-267649पी), 08 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004*

बीएचएम शंकर सिंह (सं. 14361632डब्ल्यू अब जेसी-267650के), 10 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005*

हवलदार धेमुद धनाजी काशिनाथ (सं. 14482557ए अब जेसी-267651एम), 08 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005*

आरएचएम रतना राम जाट (सं. 14373932के अब जेसी-267652पी), 07 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005*

हवलदार जयबीर सिंह (सं. 14460304एल अब जेसी-267653एक्स), 07 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005*

बीएचएम जसवन्त सिंह (सं. 14473078वाई अब जेसी-267654ए), 18 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005*

बीएचएम निर्मल कुमार सिंह (सं. 14465287ए अब जेसी-267655एच), 01 फरवरी 2005

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

एम. एम. सिंह
अवर सचिव

सं. 514, दिनांक 4 अक्टूबर 2005--थल सेना अनुदेश 37/78 तथा इसमें जारी संशोधन के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

सेना दन्त चिकित्सा कोर

(स्थाई कमीशन)

(स्क्वाड्रन लीडर के पद पर)

डीआर-10511एक्स पारूल शर्मा (एफ-26053), 01 मई 2002

थल सेना अनुदेश 33/78 तथा उसमें जारी संशोधनों के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

सेना दन्त चिकित्सा कोर

(स्थाई कमीशन)

(फ्लाईंग अफसर से फ्लाईट लैफ्टिनेन्ट के पद पर)

डीआर-10555पी शालीन एरोन (26942एल), 17 नवम्बर 2003

परमजीत सिंह
मेजर जनरल
अपर निदेशक

सं. 515, दिनांक 30 सितम्बर 2005--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) से एयर कम्बोडोर (व समकक्ष) के रैंक में

आर के गन्जु (एमआर-03225एन) (वासे-13362), 01 मार्च 2005 ब्रेतन व पैन्शन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है।

आर. कामरान
ब्रिगेडियर

उप म नि स से चि से (का)

सं. 516, दिनांक 29 सितम्बर 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों की सहर्ष पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

कप्तान से मेजर

आई. सी. नं. नाम एवं आर्म

आईसी-55301 अरविन्द सिंह, एएससी

आईसी-53369 नवनीत मेदिरत्ता, एएससी, 10 दिसम्बर 2004

आईसी-55046 तियो जोनास मुथु, एओसी, 01 नवम्बर 2004

आईसी-55153 दिलिप कुमार राव, सिगनल, 03 नवम्बर 2004

आईसी-55431 कुलवीर गिल, ईएमई, 26 अक्टूबर 2004

आईसी-54629 वी बालागणेशन, आर्टी, 06 नवम्बर 2002

आईसी-51972 संजीव सिंह, एओसी

आईसी-52197 संजय कुमार जरियाल, आर्टी, 12 जून 2003

आईसी-52916 उमेश सिंह रावत, एएससी, 01 नवम्बर 2004

आईसी-56916 हर्षवर्धन सिंह बिष्ट, ईएमई, 10 दिसम्बर 2004

आईसी-52653 अजय बाफिला, एसी

आईसी-52944 सितिन नेगी, इन्फैन्ट्री

आईसी-55009 अमित अनिल बेन्द्रे, आर्टी

आईसी-55080. कमलजीत सिंह, एसी, 01 नवम्बर 2004

आईसी-55630 आशू खोसला, एसी

आईसी-55631 अरुण पाल सिंह, एसी

आईसी-55648 लोकेश कुमार, इन्फैन्ट्री

आईसी-55649 मनमोहन सिंह, एडीए

आईसी-55650 संग्राम सिंह चीमा, एसी

आईसी-55651 मयंक त्रिपाठी, एडीए

आईसी-55652 प्रणय सुब्बा, इन्फैन्ट्री

आईसी-55653 नौरम गजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री,

आईसी-55654 विक्रम चन्देल, इन्फैन्ट्री

आईसी-55655 जसप्रीत सिंह बरार, एएससी

आईसी-55657 भूपिन्दर सिंह राय, आर्टी,

आईसी-55658 पीतेन्द्र कुमार, आर्टी

आईसी-55659 इन्दर पाल सिंह, इन्फैन्ट्री

आईसी-55661 अनिल कुमार, इन्फैन्ट्री

आईसी-55662 सुनील कुमार त्रिपाठी, एओसी

आईसी-55663 कौशलेन्द्र प्रकाश मिश्रा, इन्फैन्ट्री

आईसी-55664 रोहित नरूला, मेक इन्फैन्ट्री

आईसी-55665 हमीर सिंह राठौर, इन्फैन्ट्री

आईसी-55666 अनिल ठाकुर, एएससी

आईसी-55667 विशाल बहल, इन्फैन्ट्री

आईसी-55668 गुरमीत सिंह, एएससी

आईसी-55669 राजेश देसवाल, आर्टी

आईसी-55670 नारायण सिंह, आर्टी

आईसी-55671 विरेन्द्र मोहन सिंह, आर्टी

आईसी-55672 अमित सरकार, इन्फैन्ट्री

आईसी-55674 अरुण अवस्थी, इन्फैन्ट्री

आईसी-55677 राजेश कुमार चौधरी, एसी

आईसी-55678 जी कमलेश, एओसी

आईसी-55681 विनीत मगदुम, एएससी

आईसी-55682 सन्दीप सिंह राठी, मेक इन्फैन्ट्री

आईसी-55683 भगत सिंह अधाना, इन्फैन्ट्री

आईसी-55684 सत्य प्रकाश यादव, इन्फैन्ट्री

आईसी-55685 सुदीप मिश्रा, आर्टी

आईसी-55687 सुमित कादियान, एसी

आईसी-55689 कैलाश घाले, इन्फैन्ट्री

आईसी-55690 गोपाल सिंह चुडावंत, इन्फैन्ट्री

आईसी-55691 संजय ओझा, एएससी

आईसी-55692 अतुल सूरी, इन्फैन्ट्री

आईसी-55693 हरनेक सिंह, एओसी

आईसी-55694 मोहम्मद शाहिद अहमद, इन्फैन्ट्री

आईसी-55695 विनोद सिंह शेखरावत, आर्टी

आईसी-55697 अभयजीत हिम्मत सिंह सन्धू, एसी

आईसी-55698 सरवेश डडवाल, इन्ट

आईसी-55700 इम्पानुल तमंग, आर्टी

आईसी-55701 प्रसेनजीत सेन, एएससी

आईसी-55702 जितेन्द्र बहादुर सिंह पारिहार, मेक इन्फैन्ट्री

आईसी-55703 राहुल दास, एडीए

आईसी-55704 सुखबीर सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-55758 नरिन्दर पाल सिंह, इन्जीनियर्स
आईसी-55705 सन्दीप कुमार बारिश, एसी	आईसी-55759 अविनाश गौर, एएससी
आईसी-55707 जगदीप प्रताप, इन्फैन्ट्री	आईसी-55760 सन्दीप पटवाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-55708 भवाय सूद, एओसी	आईसी-55761 मोहम्मद साहिद खान, ईएमई
आईसी-55709 दीपांकर जिन्दा, एसी	आईसी-55762 अनमोल नेवले डेविड, इन्फैन्ट्री
आईसी-55710 अभिशेक उनियाल, एसी	आईसी-55764 विक्रम सिंह, एएससी
आईसी-55712 भारत मिश्र सिंह परमार, आर्टी	आईसी-55765 विशाल अत्री, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-55713 विशाल शर्मा, आर्टी	आईसी-55767 सुदीप चटर्जी, आर्टी
आईसी-55714 पियुश भारद्वाज, इन्फैन्ट्री	आईसी-55768 राकेश उपाध्याय, इन्फैन्ट्री
आईसी-55715 रजनीश धर, एएससी	आईसी-55769 प्रसून जोशी, इन्फैन्ट्री
आईसी-55716 राजदीप सिंह लेहल, इन्फैन्ट्री	आईसी-55773 दलमीत सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-55717 शशी कुमार राणा, आर्टी	आईसी-55774 अमित शर्मा, आर्टी
आईसी-55718 बाल योगेश्वर शर्मा, एसी	आईसी-56929 रमन गुप्ता, एसी
आईसी-55719 अजय नंदाल, एएससी	आईसी-56932 अरविन्द कुमार, एडीए
आईसी-55723 जनमीत सिंह, एडीए	आईसी-56933 उदय बीर सिंह दिल्ली, एसी
आईसी-55725 सूर्या मुखर्जी, इन्फैन्ट्री	आईसी-56938 सरित प्रकाश, एसी
आईसी-55726 शरनजीत सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-56939 मोहिते केतन अरूण, इन्फैन्ट्री
आईसी-55729 जे पीटर सेलसटाईन, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-56940 लोकेश कंडपाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-55730 शैलेन्द्र सिंह भट्टयाल, एसी	आईसी-56942 परेश चन्द्र गुप्ता, इन्फैन्ट्री
आईसी-55731 राबिन मेथ्यु, एएससी	आईसी-56943 कमलजीत सिंह मुलतानी, इन्फैन्ट्री
आईसी-55732 राहुल शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-56944 अमित यादव, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-55733 शान्तनु चक्रावर्ती, आर्टी	आईसी-56945 आभास अवस्थी, इन्फैन्ट्री
आईसी-55734 आलोक कुमार तिवारी, एडीए	आईसी-56947 अतुल वत्स, एएससी
आईसी-55736 नबी अहमद, इन्फैन्ट्री	आईसी-56948 सरविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-55737 अनिल कुमार चौहान, एओसी	आईसी-56949 विशाल रंजन, इन्फैन्ट्री
आईसी-55739 के एस जयनधन, एडीए	आईसी-56950 धीरज रामानन्द, आर्टी
आईसी-55740 फारूख रज़ा, इन्फैन्ट्री	आईसी-56953 एम के सुरेन्दर मौली, आर्टी
आईसी-55741 रनधीर कुमार द्विवेदी, आर्टी	आईसी-56954 निपून सूद, ईएमई
आईसी-55742 अभिशेक दास, इन्फैन्ट्री	आईसी-56956 दप्यन्त जौली, इन्फैन्ट्री
आईसी-55753 अमनदीप सिंह हेर, एसी	आईसी-56957 अजित सिंह, आर्टी
आईसी-55754 राकेश कुंडलास, आर्टी	आईसी-56958 अतुल भाटिया, इन्फैन्ट्री
आईसी-55755 सुप्रादीप बेंजामिन लुलाम राय, इन्फैन्ट्री	आईसी-56960 योगपाल सिंह, एएससी
आईसी-55756 अमर सिंह चन्देल, इन्फैन्ट्री	आईसी-56961 संतोश आत्माराम नौगान, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-55757 विपिन कौशल, इन्फैन्ट्री	आईसी-56964 रोहित कोडिनिया, एसी

आईसी-56965 मुम्मदी जयाराम, ईएमई	आईसी-57010 पार्था प्रीतम पाल, आर्टी
आईसी-56968 धीरज थापा, इन्फैन्ट्री	आईसी-57011 गुरज्योत सिंह शेरगिल, ईएमई
आईसी-56969 नीरज सिंह, एएससी	आईसी-57013 विवेक त्रिपाठी, आर्टी
आईसी-56971 संजय कुमार ठाकुर, एएससी	आईसी-57014 हिमांशु हतकार, इन्फैन्ट्री
आईसी-56972 अनिल कुमार जोशी, इन्फैन्ट्री	आईसी-57015 विवेक पुरी, इन्फैन्ट्री
आईसी-56974 ए राजेश, इन्फैन्ट्री	आईसी-57016 अविन उथाया, एसी
आईसी-56975 गोविन्दराज शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-57017 कपिल अग्रवाल, एडीए
आईसी-56976 हरमिश देसाई, इन्फैन्ट्री	आईसी-57018 रविन्द्र आर जोशी, एएससी
आईसी-56977 रमित कपूर, आर्टी	आईसी-57020 गौतम कपूर, आर्टी
आईसी-56979 यन्त्रानगौडा डी मल्लूर, इन्फैन्ट्री	आईसी-57021 सचिन अन्नाराव निम्बालकर, इन्फैन्ट्री
आईसी-56981 भनू प्रताप शर्मा, आर्टी	आईसी-57024 सतीश कुमार श्रीवास्तव, एडीए
आईसी-56982 राफेश कुमार, आर्टी	आईसी-57026 उदित जोशी, ईएमई
आईसी-56983 किरण नारायण कुलकर्णी, इन्ट	आईसी-57027 संजीव सिंह, एएससी
आईसी-56984 दिलबाग सिंह, एडीए	आईसी-57028 संदीप वालिया, आर्टी
आईसी-56985 रानजू कुरियेन्स, आर्टी	आईसी-57029 त्रिभुवन स्वपनिल विजयआनन्द, इन्फैन्ट्री
आईसी-56986 चित्तर सेन, इन्फैन्ट्री	आईसी-57031 सुशील कुमार पाण्डे, इन्फैन्ट्री
आईसी-56987 सजाय कुमार भादरा, एएससी	आईसी-57032 बाबी आर पी सिंह, एएससी
आईसी-56988 आशीश पुन्डीर, ईएमई	आईसी-57033 बाबा प्रदीप सिंह ठाकुर, इन्फैन्ट्री
आईसी-56989 राजेश बिष्ट, एओसी	आईसी-57034 अर्जुन उप्पल, एसी
आईसी-56990 सुमित शर्मा, आर्टी	आईसी-57035 ए सन्धन मिश्रा, आर्टी
आईसी-56991 आशीश दीक्षित, इन्फैन्ट्री	आईसी-57036 संजीव त्यागी, ईएमई
आईसी-56992 अन्शुमान नारंग, आर्टी	आईसी-57037 अजय डोगरा, एएससी
आईसी-56993 अजय सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री	आईसी-57038 दीपक मोहन, इन्फैन्ट्री
आईसी-56994 विपिन शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-57039 तरुण पाठक, इन्फैन्ट्री
आईसी-56995 सुमीत अबरोल, इन्फैन्ट्री	आईसी-57040 के वरुण सिंह तनवर, आर्टी
आईसी-56996 गणेश कपाही, आर्टी	आईसी-57042 अनिरबन चटर्जी, एओसी
आईसी-56997 नवात्त सिबिया, आर्टी	आईसी-57043 अजय वर्मा, एडीए
आईसी-56999 अक्षय कपूर, आर्टी	आईसी-57044 अभिजीत जोशी, एसी
आईसी-57002 दीप चन्द्र सति, इन्फैन्ट्री	आईसी-57045 वी एल मुरलीमोहन, आर्टी
आईसी-57004 अजयपाल सिंह, आर्टी	आईसी-57046 गुतेज सिंह ग्रेवाल, आर्टी
आईसी-57006 सुजित उपाध्याय, ईएमई	आईसी-57047 मनोज त्रिपाठी, आर्टी
आईसी-57007 पुनीत प्रभान्क भल्ला, ईएमई	आईसी-57048 मनोज कुमार पटेल, इन्फैन्ट्री
आईसी-57008 मनदीप सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-57049 रेवती भंडारी, इन्फैन्ट्री
आईसी-57009 संदीप सिंह, ईएमई	आईसी-57050 राकेश शर्मा, इन्फैन्ट्री

आईसी-57051 अजय ठाकुर, एओसी	आईसी-57098 विशाल देव, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-57052 अभिशेक शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-57099 संजय टेकचन्दानी, आर्टी
आईसी-57054 मानव साभरवाल, आर्टी	आईसी-57100 हिमांशु विष्ट, आर्टी
आईसी-57057 पीयूश कुमार, एडीए	आईसी-57101 सुमेशवर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-57058 जितेन्द्र हरजाई, आर्टी	आईसी-57104 दिनेश सिंह परमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-57059 प्रशांत जोशी, एसी	आईसी-57107 विशाल थापा, एओसी
आईसी-57060 राकेश कुमार, एओसी	आईसी-57108 कौस्तुब चट्टोपाध्याय, एसी
आईसी-57061 जय प्रकाश चहल, ईएमई	आईसी-57110 आकाश मिश्रा, आर्टी
आईसी-57062 इम्तीवाज अहमद खान, आर्टी	आईसी-57112 इवातुरी रामन राव, एओसी
आईसी-57063 अश्वनी सिन्हा, इन्फैन्ट्री	आईसी-57113 रवि कौल, इन्फैन्ट्री
आईसी-57065 वी शंकर, ईन्ट	आईसी-57114 नवनीत कुमार, आर्टी
आईसी-57067 आदित्य श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री	आईसी-57116 अनिल कुमार जी, एएससी
आईसी-57068 विनय सिद्धिनेनी, आर्टी	आईसी-57117 राजीव कुमार मिश्रा, इन्फैन्ट्री
आईसी-57069 प्रेमान्कु घोष, इन्फैन्ट्री	आईसी-57118 सुधीर नोहवर, एडीए
आईसी-57070 अंकुश ठाकुर, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-57119 सुभाष माहतो, आर्टी
आईसी-57074 उत्तम चन्द, ईएमई	आईसी-57120 कुलकर्णी निनाद रमेश, इन्फैन्ट्री
आईसी-57075 विवेक अहलावत, आर्टी	आईसी-57121 सुधांशु दुबे, एसी
आईसी-57076 कमल दीप सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-57123 अनिल कुमार, ईएमई
आईसी-57078 गुरु प्रसाद आर, इन्फैन्ट्री	आईसी-57124 राजेश राधा कृष्णन, इन्फैन्ट्री
आईसी-57080 मंजीत सिंह पठानिया, इन्फैन्ट्री	आईसी-57125 राम आसरे पटेल, आर्टी
आईसी-57081 जगज्योत सिंह ढोडी, इन्फैन्ट्री	आईसी-57127 हरमीक सिंह वालिया, एएससी
आईसी-57082 सुनील कुमार पाण्डे, एएससी	आईसी-57128 एल श्याम कुमार, आर्टी
आईसी-57083 राजेश कुमार, एसी	आईसी-57129 अलोक सिंह रावत, इन्फैन्ट्री
आईसी-57084 सुरेश बाबू ए बी, ईएमई	आईसी-57130 विपुल सिंह राजपूत, इन्फैन्ट्री
आईसी-57085 देसाई राजन दिलीप, आर्टी	आईसी-57131 सलिल एम पी, इन्फैन्ट्री
आईसी-57086 राहुल जोसान, इन्फैन्ट्री	आईसी-57132 पीयूश कुमार व्यास, इन्फैन्ट्री
आईसी-57087 रिमोन भल्ला, आर्टी	आईसी-57133 पवन पाल सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-57090 जितेन्द्र सिंह, एसी	आईसी-57134 गगन अरोड़ा, एडीए
आईसी-57091 राम दास वर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-57135 रजत बिष्ट, आर्टी
आईसी-57092 करमजीत सिंह, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-57136 निरिन्दर कुमार, एएससी
आईसी-57093 एम सुरेश कुमार, एडीए	आईसी-57138 रोहिताश शर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-57094 सन्दीप प्रताप, इन्फैन्ट्री	आईसी-57140 जीत बहादुर गुरंग, एओसी
आईसी-57096 मनीश कुमार सिंह, एसी	आईसी-57142 रमन प्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-57097 विशाल सक्सेना, आर्टी	आईसी-57143 राकेश कुमार, आर्टी

आईसी-57144	जी एस साई कुमार, ईएमई	आईसी-57186	रूपेश अवस्थी, ईएमई
आईसी-57145	दत्तारे बनसिद्ध तिगरे, इन्फैन्ट्री	आईसी-57187	संजीव चोपड़ा, इन्फैन्ट्री
आईसी-57146	अनिरुद्ध चौहान, एओसी	आईसी-57188	मुकेश सिंह विष्ट, इन्फैन्ट्री
आईसी-57147	सौमेन कुमार बाद, एसी	आईसी-57189	विजय कुमार सिंघल, एसी
आईसी-57148	शशांक शेखर, इन्फैन्ट्री	आईसी-57191	परमजीत सिंह, आर्टी
आईसी-57150	पटवर्धन एस संजीव प्रशुराम, इन्फैन्ट्री	आईसी-57192	जतिन्दर सिंह गांधी, इन्फैन्ट्री
आईसी-57151	सुरेन्द्र सिंह, आर्टी	आईसी-57193	रोहित यादव, इन्फैन्ट्री
आईसी-57153	जगभान सिंह, ईएमई	आईसी-57195	जीजू एस जी, एडीए
आईसी-57154	जी सी विनोद, इन्फैन्ट्री	आईसी-57196	धरमवीर सिंह, ईन्ट
आईसी-57155	सुरिन्दर कुमार, एएससी	आईसी-57197	पंकज कुमार सिन्हा, ईएमई
आईसी-57156	जी राजसेखर, एएससी	आईसी-57198	नितिन भाटिया, इन्फैन्ट्री
आईसी-57157	सुन्दर विष्ट, इन्फैन्ट्री	आईसी-57199	थॉमस ओम्मेन, एएससी
आईसी-57159	पंकज कुमार सिंह, आर्टी	आईसी-57200	अनादि अतरेया, इन्फैन्ट्री
आईसी-57160	परमजीत सिंह, एओसी	आईसी-57201	बेंकटेश जी कुलकर्णी, आर्टी
आईसी-57161	गुरदीप सिंह, आर्टी	आईसी-57203	परमिन्दर तेवतिया, एएससी
आईसी-57162	सौरभ के शर्मा, आर्टी	आईसी-57206	सन्दीप शर्मा, एओसी
आईसी-57163	अरिबन साहा, इन्फैन्ट्री	आईसी-57208	राजेश कुमार अवस्थी, आर्टी
आईसी-57164	आदित्य वर्मा, आर्टी	आईसी-57209	जितेन्दर कुमार, आर्टी
आईसी-57165	सागर सिंह भैसोरा, एओसी	आईसी-57211	सचित सूरी, इन्फैन्ट्री
आईसी-57166	परकार राहुल दिवाकर, एडीए	आईसी-57212	राजिन्दर पाल सिंह, आर्टी
आईसी-57167	शिवा कान्त शुक्ला, इन्फैन्ट्री	आईसी-57213	सतिन्दर दहिया, इन्फैन्ट्री
आईसी-57169	आशीश कुमार पाण्डे, इन्फैन्ट्री	आईसी-57214	डोगरा बिक्रमजीत सिंह बी, इन्फैन्ट्री
आईसी-57170	सचित महिन्द्ररू, एएससी	आईसी-57215	ब्रिज पाल सिंह, एएससी
आईसी-57173	कंवर शैलेन्द्रा ठाकुर, आर्टी	आईसी-57216	पवन रावत, एओसी
आईसी-57174	जगमिन्दर सिंह गिल, एसी	आईसी-57217	सुखदेव सिंह चौधरी, एडीए
आईसी-57176	उपिन्दर पाल सिंह सिद्धु, इन्फैन्ट्री	आईसी-57218	अशोक कुमार यादव, एएससी
आईसी-57177	योगेन्द्र चौधरी, आर्टी	आईसी-57220	सोराख्याबम दिनेश सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-57178	मोहम्मद इमतियाज खान, इन्फैन्ट्री	आईसी-57221	संग्राम सिंह, आर्टी
आईसी-57179	पी कुमार, मेक इन्फैन्ट्री	आईसी-57222	मेंजेस अजय वास्को जोसेफ फ्रांकी, आर्टी
आईसी-57180	पी श्याम सुन्दर, इन्फैन्ट्री	आईसी-57225	राजेश कुमार नैथानी, इन्फैन्ट्री
आईसी-57181	दीपक इन्दुराज, आर्टी	आईसी-57226	समरजीत गांगुली, इन्फैन्ट्री
आईसी-57182	रविन्दर पाल सिंह, ईएमई	आईसी-57227	रिजवानउल रफिया खान, इन्फैन्ट्री
आईसी-57184	अवधेश कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-57229	सोनू तलूजा, इन्फैन्ट्री
आईसी-57185	नवतेज सिंह ग्रेवाल, आर्टी	आईसी-57230	अशोक कुमार के, एसी

- आईसी-57231 पुनीत गुप्ता, एओसी
- आईसी-57232 सुनील भट्ट, एएससी
- आईसी-57233 कंवल प्रीत सिंह रेखी, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57234 विक्रमजीत सिंह विर्क, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57240 अनुराग त्रिवेदी, एओसी
- आईसी-57241 विनोद कुमार, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57242 ए वी किरण कुमार, आर्टी
- आईसी-57244 प्राखार सिन्हा, आर्टी
- आईसी-57245 के सलिल कुमार, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57246 नितिन चौहान, मैक इन्फैन्ट्री
- आईसी-57247 विकास सिंह, एसी
- आईसी-57248 उमेश ए परब, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57251 चिनमयस कुमार नायक, आर्टी
- आईसी-57253 जगदीश चन्द्र पाण्डे, आर्टी
- आईसी-57255 कुमार अंकुर, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57256 साना बेंकटा सुधीर, एडीए
- आईसी-57257 राजीव जोशी, आर्टी
- आईसी-57259 लक्ष्मी राज राठौर, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57263 दीपक जिन्दल, एओसी
- आईसी-57264 संजय कुमार रे, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57265 विक्रम जीत, एएससी
- आईसी-57266 ऋषि राज सिंह, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57267 अभित कुमार देवली, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57269 उपेन्द्र नाथ पाण्डे, एएससी
- आईसी-57270 सन्दीप तूर, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57272 प्रयतुष पिल्ले, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57273 पाटनगे सचिन दत्तारे, आर्टी
- आईसी-57274 गुंजन चौधरी, आर्टी
- आईसी-57276 हिमांशु बोहरा, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57277 सतवंद्र नाथ राय, एसी
- आईसी-57278 शिवानन्द वी सुतागति, आर्टी
- आईसी-57280 प्रदीप जी, एएससी
- आईसी-57282 जसविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57284 अजय धरनी, एओसी
- आईसी-57286 जितेन्द्र कुमार बिष्ट, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57288 प्रिय दर्शी अभित, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57289 शैलेन्द्र पुरी, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57290 आदित्य मोहन शर्मा, आर्टी
- आईसी-57291 शिन्दे गिरिश बापूराव, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57293 बिक्रम अजीत सिंह, एडीए
- आईसी-57294 देविन्द्र सिंह रावत, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57295 विक्रम प्रसन्ना, आर्टी
- आईसी-57297 रजनीश शर्मा, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57298 पिजुष डे, आर्टी
- आईसी-57299 अविक् चेटर्जी, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57302 बी एल कृष्ण किशोर, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57303 आनन्द सिद्धार्थ कौरा, एएससी
- आईसी-57305 सौरभ जैकब, एएससी
- आईसी-57307 कंवलजीत सिंह, एसी
- आईसी-57308 राजेश कटोच, एसी
- आईसी-57309 विकास चान्दना, आर्टी
- आईसी-57310 बार्ने अभिजीत विद्याधर, आर्टी
- आईसी-57341 हरमिन्दर सिंह, एसी
- आईसी-57342 नीरज नाथ, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57343 शमशेर सिंह, एओसी
- आईसी-57344 रविन्द्र तालशी, एसी
- आईसी-57345 देव मोहन गोविल, एसी
- आईसी-57349 वी कार्तिक, एसी
- आईसी-57350 हेमन्त होशरांगडेल राना, एएससी
- आईसी-57352 अमरिफ महमूद, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57354 अभितोश कुमार, आर्टी
- आईसी-57355 अशोक कुमार प्रकुर, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57356 परशोक पराशर, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57358 विक्रम वसन्तराग लावंड, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57359 शिव नगेन्द्र सिंह चौहान, आर्टी
- आईसी-57360 संजय कनोथ, इन्फैन्ट्री
- आईसी-57361 सौरभ कपूर, एडीए
- आईसी-57352 विनेश कुमार पांडा, आर्टी

आईसी-57363	पी राजन, एएससी	आईसी-57422	संजय वरशिलिया, आर्टी
आईसी-57364	गुरीकबल सिंह गिल, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-57424	हरपाल सिंह यादव, एएससी
आईसी-57367	ब्रजेश पठानिया, आर्टी	आईसी-57429	रोहित पन्त, इन्फैन्ट्री
आईसी-57370	ब्रजेशवर सिंह भंडारी, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-57430	उपेन्द्र नाथ राय, आर्टी
आईसी-57371	देवव्रत शक्यवत, इन्फैन्ट्री	आईसी-57431	हेमन्त कुमार, एओसी
आईसी-57372	बिक्रम चतरथ, एडीए	आईसी-57432	अविक मुखरेजा, इन्फैन्ट्री
आईसी-57376	अजय कुमार यादव, आर्टी	आईसी-57433	बी केशन कुमार वामसी, इन्फैन्ट्री
आईसी-57380	सुनील कटारिया, इन्फैन्ट्री	आईसी-57434	समर प्रताप सिंह चौहान, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-57381	जितेन्द्र सिंह, एएससी	आईसी-57438	प्रवीन जी, इन्फैन्ट्री
आईसी-57382	करमवीर सिंह, एओसी	आईसी-57439	प्रमोद कुमार मिश्रा, आर्टी
आईसी-57385	हितेश कुमार धनखड, इन्फैन्ट्री	आईसी-57440	बीर बिक्रम, इन्फैन्ट्री
आईसी-57386	भिडे केदार चन्द्राशेखर, आर्टी	आईसी-57441	प्रमोद रमेश भाई अम्बासाना, एओसी
आईसी-57387	ऋषि यादव, एओसी	आईसी-57442	रन्दोल्फ ईवो बाज, आर्टी
आईसी-57388	बजेश कुमार सिंह, आर्टी	आईसी-57444	प्रीत मोहन सिंह कोहली, एडीए
आईसी-57389	सत्येन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-57445	अर्जुन के, आर्टी
आईसी-57391	कवलजीत सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-57446	रजिथ सी वाई, इन्फैन्ट्री
आईसी-57393	राकेश पचौरा, एसी	आईसी-57447	निर्मल कुमार, एएससी
आईसी-57394	गुरनरिन्दर सिंह, एएससी	आईसी-57448	विनोद कुमार, एएससी
आईसी-57398	अनुपम आशीश, आर्टी	आईसी-57452	माते सुहास बालराम, इन्फैन्ट्री
आईसी-57400	अंकुर बंगा, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-57457	नितेश कुमार मलिक, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-57402	कोशी अबू अब्राहम वारिकाड, इन्फैन्ट्री	आईसी-57459	मनीश कुमार दुबे, आर्टी
आईसी-57403	चिनमय शेसासायी सतपथी, एएससी	आईसी-57462	शिशिर भारद्वाज, इन्फैन्ट्री
आईसी-57405	मंजुनाथ पाई वी, एडीए	आईसी-57463	एम सी मुथाना, इन्फैन्ट्री
आईसी-57408	छिव मेहता, आर्टी	आईसी-57465	रुचिर बाजपेई, इन्फैन्ट्री
आईसी-57409	हिमांशु, आर्टी	आईसी-57466	बालक सिंह वर्मा, एडीए
आईसी-57410	एम डी अब्दुल बहाब, एओसी	आईसी-57468	अमरजीत सिंह, आर्टी
आईसी-57412	बिदवन्सा प्रद्युम्न श्रीकृष्णा, आर्टी	आईसी-57470	निरज श्रीकान्त करनजगांकर, इन्फैन्ट्री
आईसी-57413	यश राज गुलिया, एएससी	आईसी-57471	गौरव बोस, इन्फैन्ट्री
आईसी-57415	विवेक वर्मा, आर्टी	आईसी-57472	युगबीर सिंह, एसी
आईसी-57416	पंकज भगवती, इन्फैन्ट्री	आईसी-57473	जीत बहादुर छेतरी, इन्फैन्ट्री
आईसी-57417	जोधाले विशाल वासन्जत, इन्फैन्ट्री	आईसी-57474	हिम्मत वर्मा, आर्टी
आईसी-57418	भक्षय चन्द्रन, इन्फैन्ट्री	आईसी-57475	राजेश अरोड़ा, आर्टी
आईसी-57419	ए विजय कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-57477	आनन्द मनवाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-57420	कंवर बिक्रम सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-57478	अजित सिंह, एओसी

- आईसी-57480 परम पुनीत सिंह रावत, एएससी
 आईसी-57482 बलजीत सिंह चहल, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57484 पुनीत रैना, एडीए
 आईसी-57486 दीपक मान, आर्टी
 आईसी-57490 अमित वर्मा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57492 जी अरुण कुमार, मेक इन्फैन्ट्री
 आईसी-57493 गुरविन्दर पाल सिंह जोहल, आर्टी
 आईसी-57494 भास्कर पन्त, एओसी
 आईसी-57495 अक्षय मनकोटिया, इन्ट
 आईसी-57496 मोहित थापा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57502 शहरावत दीपांकर कपूर सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57505 रवि रोशन सिंह, एओसी
 आईसी-57506 दिल चरणजीत सिंह, एएससी
 आईसी-57507 एस श्रीराम, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57508 गुरजिन्दर सिंह गिल, ईएमई
 आईसी-57514 अभिलाश साहू, आर्टी
 आईसी-57516 अतुल कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57518 मनीश कुमार अस्थाना, एडीए
 आईसी-57519 भोला शंकर सिंह, आर्टी
 आईसी-57521 उपेन्द्र पाल कंवर, एसी
 आईसी-57522 अजिनवया अनिल जाधव, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57523 वी विद्याशंकर, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57524 के जय शंकर, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57527 अनूप बिरमहन, आर्टी
 आईसी-57529 सन्दीप जसपाल, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57530 प्रसन्ना बेंकटेश एस, एडीए
 आईसी-57531 आदित्य प्रताप सिंह, एएससी
 आईसी-57532 अमित शुक्ला, एओसी
 आईसी-57533 सुशील कुमार तंवर, इन्ट
 आईसी-57534 नवीन यादव, एएससी
 आईसी-57535 अमनदीप सिंह, एसी
 आईसी-57536 पाझानीवेलू आर, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57537 दीपेन्द्र गुरंग, मेक इन्फैन्ट्री
 आईसी-57541 हजरनिस जयदीप चन्द्रकान्त, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57543 गुरदीप सिंह, एओसी
 आईसी-57546 रवि प्रकाश सिंह, एडीए
 आईसी-57549 मोहित कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57550 मनमोहन सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57552 सुबोध चौधरी, आर्टी
 आईसी-57553 राजीव कुमार, एओसी
 आईसी-57554 राजेन्द्र सिंह चौहान, एएससी
 आईसी-57555 अविशेक सिन्हा, आर्टी
 आईसी-57558 विरेन्द्र सिंह, आर्टी
 आईसी-57559 गावडे विनोद कृष्णा, आर्टी
 आईसी-57563 अजय माथुर, एडीए
 आईसी-57564 मंजीत सिंह कूनेर, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57566 हरिन्दर सिंह मानिक, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57569 राजीव सिंह, आर्टी
 आईसी-57570 बारी ढिल्लोन, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57571 विनोद कुमार वी के, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57572 रामचन्द्र क्षेत्री, आर्टी
 आईसी-57574 राकेश कुमार भारद्वाज, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57575 मनप्रीत सिंह भिडर, एडीए
 आईसी-57578 विक्रम अयंगर, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57579 संजीव मिगलानी, एएससी
 आईसी-57585 पृथ्वीराज चौहान, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57586 नवीन कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57591 रंजीत सिंह ढिल्लों, आर्टी
 आईसी-57592 राजीव कुमार नन्दा, मेक इन्फैन्ट्री
 आईसी-57593 हरप्रीत सिंह, आर्टी
 आईसी-57595 अमित शर्मा, एएससी
 आईसी-57597 पाण्डे प्रमोद कुमार ए एन, आर्टी
 आईसी-57600 गुलशन मोंगिया, एडीए
 आईसी-57602 बिक्रमजीत सिंह कहलों, एसी
 आईसी-57604 सैकत कुमार बोस, इन्फैन्ट्री
 आईसी-57605 विवेक गुलेरिया, एएससी
 आईसी-57606 आर सेथूमाधवन, आर्टी
 आईसी-57607 राजेश बलोवरिया, मेक इन्फैन्ट्री

आईसी-57608	प्रवीन कुमार शर्मा, एओसी	आईसी-57666	अजय कुमार शर्मा, आर्टी
आईसी-57611	अवनीत सिंह कपूर, इन्फैन्ट्री	आईसी-57667	श्री प्रकाश शुक्ला, आर्टी
आईसी-57612	गणेश रामन, आर्टी	आईसी-57668	शिशेर कुमार, एओसी
आईसी-57613	राज कुमार चचडा, इन्फैन्ट्री	आईसी-57669	समरजीत सिंह बोपारे, आर्टी
आईसी-57615	अभिनन्दन सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-57671	पवनदीप सिंह बाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-57620	देवेन्द्र पाल सिंह, एओसी	आईसी-57676	कपिल विनायक, एएससी
आईसी-57621	अमिताभ श्रीवास्तव, आर्टी	आईसी-57677	सन्दीप मुखर्जी, एओसी
आईसी-57622	त्रिेश शर्मा, आर्टी	आईसी-57678	गौतम राजत्रिषि, इन्फैन्ट्री
आईसी-57624	जीबेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-57681	मनीश कुमार डोगरा, एएससी
आईसी-57626	दिनेश शर्मा, आर्टी	आईसी-57682	प्रोमित गंगाधरन, इन्फैन्ट्री
आईसी-57629	धीरज कुमार बसेल, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-57683	मनोज सिंह, एओसी
आईसी-57630	अभाश के सिम्बा, इन्फैन्ट्री	आईसी-57684	कुल भूषण उपरेती, इन्फैन्ट्री
आईसी-57631	दुष्यन्त कुलश्रेष्ठा, एएससी	आईसी-57685	के एल राव, इन्फैन्ट्री
आईसी-57632	रोहित बेंजामिन सतीराज टिटुस, एओसी	आईसी-57686	सचिल मेहता, आर्टी
आईसी-57634	महेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-57687	प्रभात पाण्डे, आर्टी
आईसी-57635	मदु चन्द्र सेखरा राव, आर्टी	आईसी-57688	अजय दीप सिंह डली, आर्टी
आईसी-57638	आनन्द सिंह साजवान, इन्फैन्ट्री	आईसी-57690	विकास, एसी
आईसी-57639	मनोज कुमार सिंह, एएससी	आईसी-57691	राजेश मिश्रा, आर्टी
आईसी-57642	अवस्थी अमित रमेश चन्द्र, एडीए	आईसी-57692	चरनजीत सिंह सिद्धू, इन्फैन्ट्री
आईसी-57643	शरदूल शर्मा, एसी	आईसी-57693	हर्ष कुलश्रेष्ठा, इन्ट
आईसी-57644	जनरेल सिंह, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-57694	सकांलो जैन, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-57646	सजीव कुमार भाटी, इन्फैन्ट्री	आईसी-57695	राजेश बाबू मनतेना, एसी
आईसी-57647	के के वेंकटरामन, इन्फैन्ट्री	आईसी-57697	सुखदर्शन सिंह बरार, इन्फैन्ट्री
आईसी-57648	विवेन्द्र पन्त, इन्फैन्ट्री	आईसी-57699	कुलकर्णी शशांक चन्द्रकान्त, इन्फैन्ट्री
आईसी-57649	विवेक कुमार सुनकरी, इन्फैन्ट्री	आईसी-57701	विश्वनाथ ए गोखले, आर्टी
आईसी-57652	अजय प्रताप हमीर, इन्फैन्ट्री	आईसी-58936	रोहित कपूर, इन्जीनियर्स
आईसी-57653	विपुल त्यागी, इन्फैन्ट्री	आईसी-58938	विकास पाण्डे, ईएमई
आईसी-57654	स्वतन्त्र दोप, एसी	आईसी-58939	सुनिल यादव, एडीए
आईसी-57658	प्रवीन कुमार एस, इन्फैन्ट्री	आईसी-58940	सचिन कालिया, ईएमई
आईसी-57660	राजेश कुमार दास, आर्टी	आईसी-58941	अनुराग भारद्वाज, ईएमई
आईसी-57662	लक्ष्मण सिंह राठौर, एसी	आईसी-58942	उमेश कुमार मेहता, ईएमई
आईसी-57663	विपुल कुमार, एडीए	आईसी-58943	पडीर विवेक शंकरराव, इन्जीनियर्स
आईसी-57664	मनीश कश्यप, एडीए	आईसी-58944	हरप्रीत सिंह, इन्जीनियर्स
आईसी-57665	राजेश शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-58945	गावहने सचिन सूर्यकान्त, इन्जीनियर्स

- आईसी-58946 राजीव कुमार वक्शी, इन्जीनियर्स
 आईसी-58947 धर्मवीर सिंह, इन्जीनियर्स
 आईसी-58949 शशि कुमार नायर, ईएमई
 आईसी-58950 संजीव कुमार, ईएमई
 आईसी-58951 विक्रम महाजन, ईएमई
 आईसी-58952 मयंक गोयल, ईएमई
 आईसी-58953 मनिन्दर सिंह गिल, सिगनल
 आईसी-58954 अमित कुमार गौर, एडीए
 आईसी-58955 सौरभ दुबे, सिगनल
 आईसी-58956 सुनील शर्मा, सिगनल
 आईसी-58957 अरुण कुमार, सिगनल
 आईसी-58958 मिरांडा प्रभाकर बरायन, इन्जीनियर्स
 आईसी-58959 सन्तोश प्रसाद, सिगनल
 आईसी-58960 परमिन्दर सिंह बल, इन्जीनियर्स
 आईसी-58961 रविन्द्र प्रताप, ईएमई
 आईसी-58962 गुरविन्दर सिंह गिल, इन्जीनियर्स
 आईसी-58963 आर सहायराज, ईएमई
 आईसी-58964 गोपेन्द्र, सिगनल
 आईसी-58966 नवीन साहनी, इन्जीनियर्स
 आईसी-58967 नितिन शर्मा, ईएमई
 आईसी-58968 रामेन्द्र सिंह जिगंकवान, इन्जीनियर्स
 आईसी-58969 निशांत सोलंकी, सिगनल
 आईसी-58970 राकेश जुत्सी, एडीए
 आईसी-58971 प्रेम कुमार यादव, ईएमई
 आईसी-58972 गायकवाड विवेक उत्तमराव, एडीए
 आईसी-58973 विजय मौर्य, ईएमई
 आईसी-58974 नितिन यादव, एडीए
 आईसी-58975 विनीत शर्मा, ईएमई
 आईसी-58976 राहुल तायल, सिगनल
 आईसी-58977 शर्मा विशाल ओम प्रकाश, इन्जीनियर्स
 आईसी-58979 समीर बोडास, सिगनल
 आईसी-58980 कीर्ति प्रताप सिंह, सिगनल
 आईसी-58981 गुम्मला सूरी बी, ईएमई
 आईसी-58982 प्रदीप राज, इन्जीनियर्स
 आईसी-58983 कर्मेन्द्र कुमार, एडीए
 आईसी-58984 यालाडू केशवानन्दा चन्दन, इन्जीनियर्स
 आईसी-58985 राहुल देवरानी, सिगनल
 आईसी-58986 शंकर सिंह गौतम, सिगनल
 आईसी-58987 मुनीश कुराल, सिगनल
 आईसी- 989 विजय प्रकाश चतुर्वेदी, सिगनल
 आईसी-58990 सिवापुरापु श्रीधर राव, इन्जीनियर्स
 आईसी-58991 देवेन्द्र सिंह, सिगनल
 आईसी-58992 जिजू जोनसन थामस, ईएमई
 आईसी-58993 परमिन्दर सिंह, इन्जीनियर्स
 आईसी-58994 हरिन्दर पाल सिंह सिद्धू, ईएमई
 आईसी-58995 दिने सोईबम, इन्जीनियर्स
 आईसी-58996 सज्जन सिंह, ईएमई
 आईसी-58997 निन्नाथोजम बिरेन्द्र सिंह, इन्जीनियर्स
 आईसी-58998 राजिन्द्र सिंह सिद्धू, ईएमई
 आईसी-58999 राजीव सानन, ईएमई
 आईसी-59001 राकेश वर्मा, सिगनल
 आईसी-59002 विश्वानाथन आर, ईएमई
 आईसी-59003 देसपाण्डे अमित अरविन्द, इन्जीनियर्स
 आईसी-59004 ए जोजी पॉल, इन्जीनियर्स
 आईसी-59005 योगेश भारद्वाज, सिगनल
 आईसी-59006 बेलोस सचिन नाथूराम, सिगनल
 आईसी-59007 सौरभ सच्चर, इन्जीनियर्स
 आईसी-59008 अमित लखनपाल, ईएमई
 आईसी-59009 रोहित तुग्नेट, सिगनल
 आईसी-59010 उमेश मारवाह, ईएमई
 आईसी-59012 अश्वनि त्यागी, इन्जीनियर्स
 आईसी-59013 सुदीप कुमार मिश्रा, इन्जीनियर्स
 आईसी-59014 देशपाण्डे अनिल अनन्तराव, ईएमई
 आईसी-59016 अरुण कुमार डी, इन्जीनियर्स
 आईसी-59017 खेडेकर योगेश गोविन्दराव, ईएमई
 आईसी-59018 मृत्युञ्जय कुमार, ईएमई
 आईसी-59019 कुलविन्दर सिंह, इन्जीनियर्स
 आईसी-59021 बन्धिल सरीर चन्दर, इन्जीनियर्स
 आईसी-59024 रोहित नन्दन प्रसाद, सिगनल

आईसी-59025	गुरमीत सिंह, ईएमई	आईसी-59548	सुनील कपूर, ईएमई
आईसी-59026	भूपिन्दर सिंह मान, सिगनल	आईसी-59549	विवेक बाजपेई, सिगनल
आईसी-59027	अखिलेश सिंह, सिगनल	आईसी-59550	गौरव जैन, इन्जीनियर्स
आईसी-59028	दिलराज सिंह, इन्जीनियर्स	आईसी-59551	सामंत ढोंडीराज शामराव, इन्जीनियर्स
आईसी-59029	चन्द्र वाणु दास, ईएमई	आईसी-59552	विशाल शर्मा, ईएमई
आईसी-59030	प्रवीन एस, इन्जीनियर्स	आईसी-59553	सतीश कुमार त्यागी, इन्जीनियर्स
आईसी-59032	महेश कुमार के एस, इन्जीनियर्स	आईसी-59554	अनिल राज टी ए, इन्जीनियर्स
आईसी-59033	जॉन कोडनकान्दाथ, इन्जीनियर्स	आईसी-59555	अभिताभ निशित गोट्टिलेब, ईएमई
आईसी-59034	अशोक कुमार श्री प्रहलाद प्रसाद, एडीए	आईसी-59556	योगेश एन गडवाल, इन्जीनियर्स
आईसी-59035	अश्वनि भारद्वाज, सिगनल	आईसी-59557	अय्यर वेद्यानाथन, इन्जीनियर्स
आईसी-59036	अमित चन्दर, इन्जीनियर्स	आईसी-59558	गौरव विडानी, सिगनल
आईसी-59037	श्रीजीत ए ए, ईएमई	आईसी-59559	राहुल जयंत, सिगनल
आईसी-59038	त्यागी आलोक कुमार, एडीए	आईसी-59560	दीपक राज मसगंता, इन्जीनियर्स
आईसी-59039	मनोज कुमार यादव, ईएमई	आईसी-59561	रमनीक डडवाल, सिगनल
आईसी-59040	सिवा सुब्रामनी आर, इन्जीनियर्स	आईसी-59562	मोहेन्द्र कटियार, ईएमई
आईसी-59041	अजय सिंह बारगोहि, इन्जीनियर्स	आईसी-59563	उदयन बासु, इन्जीनियर्स
आईसी-59043	एस आर सुरेश कानन, ईएमई	आईसी-59564	मनोज शर्मा, इन्जीनियर्स
आईसी-59044	बुटाला देवेन्द्र मनोहर, ईएमई	आईसी-59565	श्याम, इन्जीनियर्स
आईसी-59045	अमित कुमार, ईएमई	आईसी-59566	विनयराव, इन्जीनियर्स
आईसी-59047	अरविन्द कुमार, ईएमई	आईसी-59567	जतिन्दर पाल सिंह, ईएमई
आईसी-59049	प्रेमानन्द के, इन्जीनियर्स	आईसी-59568	गोविन्द रेड्डी टी अलवन्दी, सिगनल
आईसी-59534	सुदेश कुमार दिल्ली, सिगनल	आईसी-59569	नीतिन सहगल, इन्जीनियर्स
आईसी-59535	गिरीश नागपाल, ईएमई	आईसी-59570	हर कमल सिंह, सिगनल
आईसी-59536	उपदेश कुमार शर्मा, ईएमई	आईसी-59571	विक्रम सिंह भदोरिया, इन्जीनियर्स
आईसी-59537	अमरप्रीत नैय्यर, इन्जीनियर्स	आईसी-59572	नीरज कुमार बिष्ट, सिगनल
आईसी-59538	कंवलजीत सिंह, ईएमई	आईसी-59573	दानी योगेश शरद, इन्जीनियर्स
आईसी-59539	पी रवि राजेन्द्रन, इन्जीनियर्स	आईसी-59574	रूपविन्दर सिंह, इन्जीनियर्स
आईसी-59540	संजीव सरदाना, सिगनल	आईसी-59575	कुलबीर सिंह, इन्जीनियर्स
आईसी-59541	हरमीत सिंह, ईएमई	आईसी-59576	संजीव कुमार गुप्ता, इन्जीनियर्स
आईसी-59542	सुशील चान्दवानी, सिगनल	आईसी-59578	दीपक शर्मा, इन्जीनियर्स
आईसी-59543	अशोक कुमार, इन्जीनियर्स	आईसी-59579	अक्कुला बालाकृष्ण, इन्जीनियर्स
आईसी-59544	रोहित शर्मा, ईएमई	आईसी-59581	मनु भारत चौधरी, सिगनल
आईसी-59545	संसार सिंह, सिगनल	आईसी-59582	अजय लूम्बा, सिगनल
आईसी-59546	कमाल पाशा खान, सिगनल	आईसी-59583	धीरज जोशी, इन्जीनियर्स

आईसी-59584 सारू कपूर, इन्जीनियर्स
 आईसी-59585 राहुल गर्ग, इन्जीनियर्स
 आईसी-59586 यादवेन्द्र सिंह, ईएमई
 आईसी-59587 एल सुब्रामण्या, ईएमई
 आईसी-59588 रेनजू अब्राहम, सिगनल
 आईसी-59589 पंकज पारिख, सिगनल
 आईसी-59591 भगवान तनवीर इस्माईली, इन्जीनियर्स
 आईसी-59592 अजय कुमार गुप्ता, ईएमई
 आईसी-59593 दीपक कुमार गुप्ता, सिगनल
 आईसी-59594 वरुण मल्होत्रा, ईएमई
 आईसी-59595 रंजीत रविन्द्रन, इन्जीनियर्स
 आईसी-59597 बी कानन, ईएमई
 आईसी-59598 सम्राट मोहन्ता, ईएमई

--16 दिसम्बर 2004

आईसी-58590 विजयअंत सिंह, एसी
 आईसी-58591 हरमनजीत लिड्डर, आईएनएफ
 आईसी-58592 सिद्धार्थ चोपड़ा, एसी
 आईसी-58593 विश्वास कुमार, इंजीनियर्स
 आईसी-58594 प्रवीन कुमार, एडी आर्टिलरी
 आईसी-58595 गौरव सिंह हमल, एसी
 आईसी-58596 रोबिन चटर्जी, आईएनएफ
 आईसी-58597 विशाल सूद, इंजीनियर्स
 आईसी-58598 अभिषेक वर्मा, आईएनएफ
 आईसी-58600 दयानन्द शर्मा, आईएनएफ
 आईसी-58601 अंजन कुमार बासुमतारी, आर्टिलरी
 आईसी-58602 समीर वशिष्ठ, आर्टिलरी
 आईसी-58603 प्रीतम, एसी
 आईसी-58604 अभिषेक धस्माना, आईएनएफ
 आईसी-58605 धीरज कोतवाल, आईएनएफ
 आईसी-58606 लूवी, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-58607 विवेक आर्या, आर्टिलरी
 आईसी-58608 नवदीप सिंह सरन, एओसी
 आईसी-58609 शत्रुजीत कोतवाल, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58610 निशान्त शर्मा, इन्फैन्ट्री

आईसी-58611 प्रिशान्य कुमार पी बी, एएससी
 आईसी-58612 विरेन्द्र सिंह सालारिया, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58614 रोहीताश कुमार, आर्टिलरी
 आईसी-58615 नीरज बिसन, आर्टिलरी
 आईसी-58617 रिचर्ड फर्नांडीज़, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58618 परातीयूष अत्री, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58619 नवीन कुमार ध्यानी, इंजीनियर्स
 आईसी-58620 पवन राय, आर्टिलरी
 आईसी-58622 विकास गुप्ता, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58624 तुषार, एएससी
 आईसी-58625 अमित कीर्ति, एएससी
 आईसी-58626 नवीन्द्र सिंह बेलवी, आर्टिलरी
 आईसी-58628 कपिल यादव, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58629 अमित कबदवाल, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58630 शौविक सेन, आर्टिलरी
 आईसी-58631 सत्यन सुन्दरम, इंजीनियर्स
 आईसी-58632 अरुण कालिया, आर्टिलरी
 आईसी-58633 गौरव प्रशाद, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58634 सौरभ बट्ट, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58636 ऋषि सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58637 थोंगम जोतन सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58638 शिवपाल सिंह, आर्टिलरी
 आईसी-58639 अनुशुमन विवेक, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-58640 अमित शर्मा, आर्टिलरी
 आईसी-58641 देवआशीष दीक्षित, एओसी
 आईसी-58642 नरेन्द्र सिंह, एएससी
 आईसी-58643 लौस्तुब उल्लास केकरे, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58645 नवनीत सिंह, एएससी
 आईसी-58647 शालीन्द्र जसवाल, एडी आर्टिलरी
 आईसी-58648 शितेन कौल, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58650 गणेशन एस, आर्टिलरी
 आईसी-58651 सरवेश यादव, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58652 गगनजीत सिंह, एसी
 आईसी-58653 मल्कीयत सिंह, आर्टिलरी

आईसी-58654	विश्वजीत दास, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-58694	मानुज कुमार गर्ग, आर्टिलरी
आईसी-58655	राम नारायण सिंह, एएससी	आईसी-58695	विनिमय थापा, इन्फैन्ट्री
आईसी-58656	सत्याकम दाबास, इन्फैन्ट्री	आईसी-58696	सुभाजीत बासु, एएससी
आईसी-58657	अनुराग चन्द्रशेखर तेलंग, आर्टिलरी	आईसी-58697	मनोज कुमार नायक, आर्टिलरी
आईसी-58658	ओयनम केडरूगंबा, एएससी	आईसी-58698	उमंग प्रीहान, एओसी
आईसी-58659	साथीसन आर, आर्टिलरी	आईसी-58699	शशांक बजाज, एएससी
आईसी-58660	सन्दीप यू, इन्फैन्ट्री	आईसी-58700	अरुण नैन, एएससी
आईसी-58662	बिनेश नायर, इन्फैन्ट्री	आईसी-58701	रवि कुमार मनाई, इन्फैन्ट्री
आईसी-58663	एस प्रशान्त, इन्फैन्ट्री	आईसी-58702	अनुराग कशीतीज बिश्वास, एसी
आईसी-58665	अमित कुमार उनी, आर्टिलरी	आईसी-58704	मुकेश शर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-58666	वीरेन्द्र सिंह, एओसी	आईसी-58705	जयदेव सिंह असवल, इन्फैन्ट्री
आईसी-58667	आशुतोष मिश्रा, इन्फैन्ट्री	आईसी-58707	पुनीत कारोल, आर्टिलरी
आईसी-58668	प्रशान्त पाठक, इन्फैन्ट्री	आईसी-58708	दिनेश कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-58669	अजय सिंह राठौर, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-58709	इकबाल हुसैन राथर, एडी आर्टिलरी
आईसी-58670	सुरिन्द्र सिंह गुलीानी, इन्फैन्ट्री	आईसी-58710	अनसर एम, एसी
आईसी-58672	आशीष कुमार कारीर, इंजीनियर्स	आईसी-58711	दिलप्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-58673	अंकुश शर्मा, एडी आर्टिलरी	आईसी-58712	मनीश चौहान, एसी
आईसी-58674	पियूष रंजन त्रिवेदी, आर्टिलरी	आईसी-58713	विवेक गुप्ता, इन्फैन्ट्री
आईसी-58675	आर शंकर, इन्फैन्ट्री	आईसी-58714	मनीक मोहन जोली, इन्फैन्ट्री
आईसी-58676	मुनीश माय, आर्टिलरी	आईसी-58715	रिनचन दोरजे, इन्फैन्ट्री
आईसी-58677	जितेन्द्र सिंह, आर्टिलरी	आईसी-5871C	राहुल हरचंद, एओसी
आईसी-58678	अमरबीर सिंह रीआर, एसी	आईसी-58718	अरुण देवगन, इन्फैन्ट्री
आईसी-58679	सुवरत चतुर्वेदी, एओसी	आईसी-58719	यादव देवदत्ता रामकृष्णा, आर्टिलरी
आईसी-58680	नीतिन शर्मा, इंजीनियर्स	आईसी-58720	कुलदीप मोहन शर्मा, आर्टिलरी
आईसी-58681	सिमित शर्मा, इंजीनियर्स	आईसी-58722	आशीष कुमार यादव, आर्टिलरी
आईसी-58682	सुचीसनाता परादोश दास, आर्टिलरी	आईसी-58724	पुष्पीन्द्र सिंह चौधरी, इन्फैन्ट्री
आईसी-58683	आदित्या कनवल, इन्फैन्ट्री	आईसी-58725	गगन पाण्डे, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-58684	गुहीगी महादेओ शेषराव, आर्टिलरी	आईसी-58726	अजय प्रकाश शर्मा, एओसी
आईसी-58688	भूपाल सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-58727	दीपक यादव, एएससी
आईसी-58689	जसप्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-58728	अजय कुमार शर्मा, इंजीनियर्स
आईसी-58690	धोरपदे सचिन शुक्राचार्य, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-58729	शाकीब अहमद खान, आर्टिलरी
आईसी-58691	राहुल साहनी, एडी आर्टिलरी	आईसी-58730	सुशील कुमार बापेरिया, इन्फैन्ट्री
आईसी-58692	अनुराग पाण्डे, आर्टिलरी	आईसी-58731	विक्रम सेनी, इन्फैन्ट्री
आईसी-58693	अम्बेडकर अन्नता अशोक, आर्टिलरी	आईसी-58732	पंकज धामा, आर्टिलरी
		आईसी-58735	सौरभ भट्ट, आर्टिलरी

आईसी-58736 राहुल घोष, आर्टिलरी	आईसी-58776 अविनाश त्रिपाठी, एएससी
आईसी-58737 सुशान्त सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-58777 दीप चन्द्र पंत, इन्फैन्ट्री
आईसी-58738 विक्रमजीत सिंह समबयाल, एएससी	आईसी-58778 रोहित गुप्ता, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-58740 अनिल कुमार मोर, इन्फैन्ट्री	आईसी-58779 हर्ष मोहन वरधान, एओसी
आईसी-58741 श्याम बहादुर पाउदयाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-58780 वेतरी वेलु ए, आर्टिलरी
आईसी-58742 विजय कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-58781 वी बलराम, इन्फैन्ट्री
आईसी-58743 सुभान्जन चटर्जी, इन्फैन्ट्री	आईसी-58782 भावेविजय सुधाकर, इन्फैन्ट्री
आईसी-58744 विश्वजीत सिंह, एओसी	आईसी-58784 खुशविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-58745 सौरभ कलांगनकर, इन्फैन्ट्री	आईसी-58785 गौरव भण्डारी, आर्टिलरी
आईसी-58746 मने नामदेव श्रीमंत, इन्फैन्ट्री	आईसी-58786 पुष्पीन्दर सिंह सांगवान, आर्टिलरी
आईसी-58747 मोहित थापा, इन्फैन्ट्री	आईसी-58787 ह्रीरेन्द्र कुमार शर्मा, एसी
आईसी-58749 विकास पाण्डे, आर्टिलरी	आईसी-58788 विजय हुडा, इन्फैन्ट्री
आईसी-58750 रंजन जी, इन्ट	आईसी-58789 एलविन जेकब, इंजीनियर्स
आईसी-58751 गौरव शुक्ला, इन्फैन्ट्री	आईसी-58790 नीरज पंत, इन्फैन्ट्री
आईसी-58752 बेदारकर समीर सुरेश, आर्टिलरी	आईसी-58791 जामेश जेरी इसाक, इन्फैन्ट्री
आईसी-58754 राकेश सिंह पुनिया, इन्फैन्ट्री	आईसी-58792 देशमुख विक्रम साम्भजीराव, आर्टिलरी
आईसी-58755 आशुतोष बादोला, आर्टिलरी	आईसी-58793 के पी विनय, आर्टिलरी
आईसी-58756 मानीष भोला, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-58794 सुरजीया चक्रवर्ती, इन्फैन्ट्री
आईसी-58758 मनीष शर्मा, एएससी	आईसी-58795 सुचोत पुरी, एएससी
आईसी-58759 शरद कुमार मिश्रा, एडी आर्टिलरी	आईसी-58796 अमित बेरवल, एसी
आईसी-58760 एनी जोहन एलक्स, आर्टिलरी	आईसी-58797 रोहित उनीयाल, आर्टिलरी
आईसी-58761 हेमन्त तिवारी, आर्टिलरी	आईसी-58798 सोमेश भट्टनागर, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-58762 उदय सिंह मानकोटिया, इन्फैन्ट्री	आईसी-58799 राजेन्द्र सिंह कादवसारा, आर्टिलरी
आईसी-58764 पेनुकोण्डा फिरोज अली खान, एएससी	आईसी-58800 तेजीन्द्रा सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-58765 सुधीर कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-58801 आशीष कुमार झा, आर्टिलरी
आईसी-58766 नसीर नेम, आर्टिलरी	आईसी-58802 परविन्दर सिंह ढांडा, आर्टिलरी
आईसी-58768 दीपक कुमार, एसी	आईसी-58803 बेनके विक्रम सुधीर, एएससी
आईसी-58769 डी लक्ष्मण कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-58804 अमित शर्मा, ईएमई
आईसी-58770 सुरैया प्रकाश, आर्टिलरी	आईसी-58805 भारत सिरोही, एसी
आईसी-58771 खनका देवेन्द्र सिंह नारायण सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-58806 विकास सैनी, एओसी
आईसी-58772 संजय रावत, इन्फैन्ट्री	आईसी-58807 नवनीत सिंह, आर्टिलरी
आईसी-58773 अतुल कुमार, इंजीनियर्स	आईसी-58809 शालभ पुन, इन्फैन्ट्री
आईसी-58774 विचर मागो, एएससी	आईसी-58810 दिग्विजय मादामे, एडी आर्टिलरी
आईसी-58775 अशोक कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-58811 विजय के तनवर, इन्फैन्ट्री

आईसी-58812	सिद्धार्थ परमार, इंजीनियर्स	आईसी-58850	पीर जगजीत सिंह सिधु, एएससी
आईसी-58813	एस डीनि, इन्फैन्ट्री	आईसी-58851	अमित सामंत, इन्जीनियर्स
आईसी-58814	निमेश कुमार, एओसी	आईसी-58852	विश्वपाल सिंह, एएससी
आईसी-58815	मुखदेव सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-58853	सन्दीप कुकरेती, एसी
आईसी-58816	गुषार सपरू, एएससी	आईसी-58854	मधुकर झा, इन्फैन्ट्री
आईसी-58817	सिमन्ता पाठक, इन्फैन्ट्री	आईसी-58855	रवीन्द्र पाल सिंह, आर्टिलरी
आईसी-58819	अदितिया सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-58856	चन्द्र देव सिंह सम्बयाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-58820	श्रीतिरिया रशमीन श्रीकान्त, आर्टिलरी	आईसी-58857	अशोक यादव, एओसी
आईसी-58822	शैलेन्द्र सिंह, एओसी	आईसी-58858	मनोज कुमार साहू, इन्फैन्ट्री
आईसी-58823	हेमन्त कुमार बेलवल, आर्टिलरी	आईसी-58859	आनन्द शर्मा, आर्टिलरी
आईसी-58824	लव जोशी, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-58860	अमरबीर सिंह गौराम, आर्टिलरी
आईसी-58825	राजीव भोला, इन्फैन्ट्री	आईसी-58861	अनुराग उपाध्याय, इन्फैन्ट्री
आईसी-58826	ऋषि सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-58862	सुदीप्तो मुखोपाध्याय, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-58827	सचिन वासदेव, इन्फैन्ट्री	आईसी-58864	सुन्दरम गणेश गणपति, इन्फैन्ट्री
आईसी-58828	शालीन सिंह, आर्टिलरी	आईसी-58865	सम्प्रेष चैटर्जी, इन्फैन्ट्री
आईसी-58829	विनय कुमार जैन, आर्टिलरी	आईसी-58866	अनुप एस नायर, एडी आर्टिलरी
आईसी-58830	सुजीत कुमार, एसी	आईसी-58867	सरीनवेनटू चटर्जी, आर्टिलरी
आईसी-58831	अभिषेक भाक्त, इन्फैन्ट्री	आईसी-58869	प्रशाद जे, आर्टिलरी
आईसी-58832	दीपक यादव, एएससी	आईसी-58870	चिरनजीत मेधी, आर्टिलरी
आईसी-58833	मायूरेश दिलीप बाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-58871	अशीथा अप्पनना एन एम, इन्फैन्ट्री
आईसी-58835	मनदीप गोस्वामी, इन्फैन्ट्री	आईसी-58872	देव शर्मा, एओसी
आईसी-58836	नीतिन भावर, इन्फैन्ट्री	आईसी-58873	नीतिन, इन्फैन्ट्री
आईसी-58837	दीपक शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-58874	चन्द्र शेखर ओदया, एसी
आईसी-58838	प्रियांक मिश्रा, इन्फैन्ट्री	आईसी-58875	सुदीप बोस, इन्फैन्ट्री
आईसी-58839	बाल बहादुर रेशमी, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-58876	राजेश कुमार सिंह, आर्टिलरी
आईसी-58840	सौरभ सिरौही, इन्फैन्ट्री	आईसी-58877	जय गौरव मानहस, एएससी
आईसी-58841	कौशिक घोष, इन्फैन्ट्री	आईसी-58878	लयूपियूबम उलेन शर्मा, आर्टिलरी
आईसी-58842	राजेश कुमार सिंह, एडी आर्टिलरी	आईसी-58880	मनोज कुमार सिंह, इंजीनियर्स
आईसी-58843	अजय डाबर, आर्टिलरी	आईसी-58881	राजेश मकर, एसी
आईसी-58844	सिद्धार्थ धनकर, इन्फैन्ट्री	आईसी-58882	सी बीजू, एडी आर्टिलरी
आईसी-58845	सौरभ खन्ना, इन्फैन्ट्री	आईसी-58883	रूपेश शर्मा, आर्टिलरी
आईसी-58846	एस जया प्रकाश, एएससी	आईसी-58884	अन्जु गुप्ता, इन्फैन्ट्री
आईसी-58848	अलोक सिंह कौनडल, एसी	आईसी-58885	मनोज कुमार, एएससी
आईसी-58849	पेनदासे अभव जयंत, इन्फैन्ट्री	आईसी-58886	नसीम अख्तर, एएससी

आईसी-58887 रीतेश कुमार, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-58888 आशीष अग्रवाल, एसी
 आईसी-58889 कृष्णा केशव सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58890 ओश्वनी कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58892 विजय कुमार शाह, आर्टिलरी
 आईसी-58893 थम्बी वर्गिश पी बी, एओसी
 आईसी-58894 रूपेश कुमार मिश्रा, एएससी
 आईसी-58895 पंकज वर्मा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58896 निशान्त कुमार पाठक, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58897 भारत कुमार, आर्टिलरी
 आईसी-58898 प्रवीन कुमार, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58899 अमिया त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58901 अमित शर्मा, आर्टिलरी
 आईसी-58902 मुनीश मेहरोत्रा, एएससी
 आईसी-58903 सुपराजीत चौधरी, एओसी
 आईसी-58904 सुधीर खण्डका, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58905 हरजिन्दर सिंह बेदतान, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58906 मनोज कुमार, एसी
 आईसी-58907 विक्रम दानयाल, एएससी
 आईसी-58909 अन्शुमन श्रीवास्तवा, एओसी
 आईसी-58910 कुलमीत सिंह कटारिया, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58911 रमेश चन्द्र, आर्टिलरी
 आईसी-58912 संजय कपूर, एसी
 आईसी-58913 रितेश मोहन, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58914 सुमित सक्सेना, इंजीनियर्स
 आईसी-58915 तन्या कौटियाल, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58917 कौरिमिली वेनकटा प्रसन्ना, आर्टिलरी
 आईसी-58918 संकल्प कुमार, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58919 दुष्यंत शर्मा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58920 शशी कुमार राय, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58922 दीपान्शु थपलियाल, आर्टिलरी
 आईसी-58923 विजय साती, एसी
 आईसी-58924 अजय भारद्वाज, आर्टिलरी
 आईसी-58925 विवेक शर्मा, इन्फैन्ट्री

आईसी-58926 राज कुमार, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-58927 अतुल कुमार त्यागी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58928 समीर कुमार कार, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58929 गौरव कनवल, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58931 पाठक मन्दर यशवंत, आर्टिलरी
 आईसी-58932 हिमांशु ठाकुर, इन्फैन्ट्री
 आईसी-58934 सौरभ चतुर्वेदी, आर्टिलरी
 आईसी-59050 राजीव शर्मा, ईएमई
 आईसी-59051 तलेवर समीर जय कुमार, इंजीनियर्स
 आईसी-59052 हरप्रीत सिंह, सिग्नल्स
 आईसी-59053 मनोज कुमार सिंह, इंजीनियर्स
 आईसी-59055 भारत भूषण कपूर, सिग्नल्स
 आईसी-61224 गुरमीत सिंह, सिग्नल्स
 आईसी-61225 मुनीश शशीकांत राने, ईएमई
 आईसी-61226 नितिन भाटिया, ईएमई
 आईसी-61227 सरबजीत सिंह वालिया, ईएमई
 आईसी-61228 सिमरनजीत सिंह, ईएमई
 आईसी-61229 सिमन्त उपाध्याय, सिग्नल्स
 आईसी-61230 अविनाश बाबन भण्डारे, सिग्नल्स
 आईसी-61231 रस्कर प्रशाद ध्यानेश्वर, इंजीनियर्स
 आईसी-61232 मनोज सिंह सिलोट, सिग्नल्स
 आईसी-61233 भूवेद मन्दर सुरेश, ईएमई
 आईसी-61234 सन्दीप सिंह सम्ब्याल, इंजीनियर्स
 आईसी-61235 गौरव धवन, सिग्नल्स
 आईसी-61236 दीप सिंह रावत, इंजीनियर्स
 आईसी-61237 अदितिया कौशल, ईएमई
 आईसी-61238 अमन मेहता, ईएमई
 आईसी-61239 सचिन चौधरी, सिग्नल्स
 आईसी-61240 मनवेन्द्रा नागेच, सिग्नल्स
 आईसी-61241 गगन नागपाल, सिग्नल्स
 आईसी-61242 विनीत धनोतिया, ईएमई
 आईसी-61243 अय्यर वेंकटरामन सुब्राहमनियम, इंजीनियर्स
 आईसी-61244 गौरव बक्शी, इंजीनियर्स
 आईसी-61245 करन धवन, सिग्नल्स

--12 जून 2005

आईसी-61246	अन्तरप्रीत सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-61280	विक्रम खजुरिया, ईएमई
आईसी-61247	सुखदेव अरोरा, ईएमई	आईसी-61281	धनराज कुमार, इंजीनियर्स
आईसी-61248	अंकुर अमूल जयाकर, ईएमई	आईसी-61282	प्रशान्त जासवाल, इंजीनियर्स
आईसी-61249	सूरजभान सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-61283	हरिहरन एस, सिग्नल्स
आईसी-61250	सिद्धार्थ जनदयाल, ईएमई	आईसी-61284	सोउमेन्द्रा बैनर्जी, इंजीनियर्स
आईसी-61251	समरजीत सिंह, ईएमई	आईसी-61285	नीतिन खन्ना, सिग्नल्स
आईसी-61252	मनोज एलक्जंडर, इंजीनियर्स	आईसी-61286	रनजीत जी नायर, इंजीनियर्स
आईसी-61253	संजय मलिक, इंजीनियर्स	आईसी-61287	भारत सिंह शेखावत, ईएमई
आईसी-61254	ओम प्रताप सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-61288	मनीष गोस्वामी, सिग्नल्स
आईसी-61255	अमित अग्रवाल, इंजीनियर्स	आईसी-61289	जितेन्द्र तिवारी, ईएमई
आईसी-61256	दिग्विजय सिंह चौहान, इंजीनियर्स	आईसी-61290	दिवाकर कुमार गुप्ता, इंजीनियर्स
आईसी-61257	मनीष जैन, इंजीनियर्स	आईसी-61291	अमित बेक्टर, सिग्नल्स
आईसी-61258	निशान्त उपाध्याय, सिग्नल्स	आईसी-61292	सोमया प्रकाश ओट्टा, सिग्नल्स
आईसी-61259	विकास सुरेन्द्र उपाध्याय, सिग्नल्स	आईसी-61293	सुमित कुमार कश्यप, सिग्नल्स
आईसी-61260	मनतेज सिंह ग्रेवाल, इंजीनियर्स	आईसी-61295	विपिन कुमार सक्सेना, ईएमई
आईसी-61261	महीप सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-61296	एन विनोद कुमार, इंजीनियर्स
आईसी-61262	तरुण कालिया, ईएमई	आईसी-61297	मुनीश कुमार खुल्लर, इंजीनियर्स
आईसी-61263	सुनीनधर दीप सिंह, सिग्नल्स	आईसी-61299	मनीश कोशिक, ईएमई
आईसी-61264	सपतरशी चक्रवर्ती, सिग्नल्स	आईसी-61300	कीर्तिदेव कासकसीनत जडेजा, इंजीनियर्स
आईसी-61265	दुशोरिया रनजीत कुमार, ईएमई	आईसी-61301	भारत भूषण, सिग्नल्स
आईसी-61266	राज सिंह, सिग्नल्स	आईसी-61302	विनायक कौशिक, ईएमई
आईसी-61267	तुषार ताथगत, ईएमई	आईसी-61304	विकास जैन, इंजीनियर्स
आईसी-61268	उदय नैन सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-61305	नसीर ध्रुव इश्क, ईएमई
आईसी-61269	गोपाराज शरथ प्रसाद, इंजीनियर्स	आईसी-61306	पारुकर सागर दिनेश, ईएमई
आईसी-61270	तुषार पाण्डे, ईएमई	आईसी-61309	दुर्गेश कुमार परिहार, ईएमई
आईसी-61271	दीपान्द्रा पाल, इंजीनियर्स	आईसी-61310	मिसाल यशवन्त शाईअमराओ, ईएमई
आईसी-61272	मुकेश कुमार, इंजीनियर्स	आईसी-61311	विक्रम निखेरा, ईएमई
आईसी-61273	नितिन सुरेश खेरमोड, इंजीनियर्स	आईसी-61312	सुरील श्रीवास्तवा, सिग्नल्स
आईसी-61274	सुपरातिम दत्ता, इंजीनियर्स	आईसी-61313	प्रशान्त रामचन्द्र राने, ईएमई
आईसी-61275	नन्द किशोर, सिग्नल्स	आईसी-61314	प्रवीन कुमार सिंह, सिग्नल्स
आईसी-61276	मनबीर सिंह, सिग्नल्स	आईसी-61315	पुहोकरोल पूसा, ईएमई
आईसी-61277	भूपेन्द्रा सिंह चन्द्रावत, सिग्नल्स	आईसी-61316	सुनील कुमार सुहाग, इंजीनियर्स
आईसी-61278	एन वी विगिल, इंजीनियर्स	आईसी-61317	विक्रम सिंह, इंजीनियर्स
आईसी-61279	एम डी गोपानाथ, सिग्नल्स		

आईसी-61318 अनुपम तिवारी, ईएमई
 आईसी-61319 अभय कुमार, ईएमई
 आईसी-61320 नीतिन, सिग्नल्स
 आईसी-61321 धीरन कुमार वर्मा, इंजीनियर्स
 आईसी-61322 दीपक मोहन पाधी, इंजीनियर्स
 आईसी-61325 राकेश कामरा, ईएमई
 आईसी-61326 तरनदीप सिंह अरोरा, इंजीनियर्स
 आईसी-61327 राजन भट्ट, इंजीनियर्स
 आईसी-61328 देवआशीष डे, इंजीनियर्स

--13 जून 2005

आईसी-60085 विक्रम सिंह राय, एसी
 आईसी-60086 विरेन्द्र सिंह सलारिया, एसी
 आईसी-60087 पीयूष कुमार जैन, इंजीनियर्स
 आईसी-60088 अमित सेठी, एडीए
 आईसी-60089 दीपक, ईएमई
 आईसी-60090 संदीप कालरा, आर्टी
 आईसी-60091 पीयूष शुक्ला, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60092 धर्मेन्द्र यादव, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60093, ख्वाजा सुलतान अहमद खान, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60095 रत्नेश, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60096 विवेक कनवर, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60097 अमित बक्शी, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-60098 वैभव राणा, आर्टी
 आईसी-60099 कमलदीप सिंह संधू, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60100 नील कटोच, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60101 अमित महेंद्रा शर्मा, ईएमई
 आईसी-60102 पीयूष बिष्ट, आर्टी
 आईसी-60103 कुलदीप सिंह, एसी
 आईसी-60104 बिभूती कुमार झा, सिग्नल्स
 आईसी-60105 जल इन्दर सिंह हासनवालिया, एसी
 आईसी-60106 जी वी अंशु, आर्टी
 आईसी-60107 नयनज्योति बुरा गोहेन, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60108 पंकज जोशी, आर्टी
 आईसी-60110 सम्राट सिंह, इंजीनियर्स

आईसी-60112 दिनेश तिवारी, सिग्नल्स
 आईसी-60113 विजय आनंद राव शिन्दे, ईन्ट
 आईसी-60114 मृदुल वर्मा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60115 के किरण, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60116 रोमिल चन्द्रा, ईएमई
 आईसी-60117 नीरज शर्मा, एडीए
 आईसी-60119 अमित धाड़, इंजीनियर्स
 आईसी-60120 नरेश चौहान, आर्टी
 आईसी-60121 विक्रांत एस शिन्दे, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60122 समर सिंह चौहान, एसी
 आईसी-60123 अभिषेक यादव, एओसी
 आईसी-60124 गौरव दलाल, ईएमई
 आईसी-60125 अरुण वर्गीश, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60126 सुधांशु द्विपदी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60127 कुमार गौरव, आर्टी
 आईसी-60128 ललित कुमार जैन, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60129 वीरेन्द्र कुमार ठाकुर, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60130 अभिषेक सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60131 विक्रम सिंह, सिग्नल्स
 आईसी-60132 आनंद चन्द्रा बोइटी, ईएमई
 आईसी-60133 आकाश करवाल, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60135 सुनील कुमार, इंजीनियर्स
 आईसी-60136 अभिनव ठाकुर, ईएमई
 आईसी-60138 शैलेन्द्र प्रताप सिंह, सिग्नल्स
 आईसी-60139 मनोज कुमार राना, ईन्ट
 आईसी-60140 गिरीश कुमार गाँधी, इंजीनियर्स
 आईसी-60141 मुकुंद एम जी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60142 अर्जुन दूबे, एसी
 आईसी-60143 के एम निथिन कुट्टप्पा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60144 राजीव चौहान, आर्टी
 आईसी-60145 गौरव कुमार पाण्डे, एएससी
 आईसी-60146 हरीश जोशी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60147 मनीश अहलूवालिया, आर्टी
 आईसी-60148 पुनर प्रीत सिंह मान, मैक इन्फैन्ट्री

आईसी-60150	अमित सामन्त, आर्टी	आईसी-60186	पुनीत अत्री, एसी
आईसी-60151	गुरीन्दर सिंह कलौर, एसी	आईसी-60187	अंशुमान हांडा, आर्टी
आईसी-60152	कुनाल सिन्हा, इन्फैन्ट्री	आईसी-60188	के जे साजू, एडीए
आईसी-60153	नरायण दास, इन्फैन्ट्री	आईसी-60189	बोवी जसरोटिया, इन्फैन्ट्री
आईसी-60154	गौरव सर्वप्रिय जुनेजा, आर्टी	आईसी-60190	सी आर धीरज, आर्टी
आईसी-60155	कपिल चन्द्रकांता जोध, आर्टी	आईसी-60191	इन्द्र जीत सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-60156	अजीत कुमार रेड्डी, ईएमई	आईसी-60192	पुनीत श्रीवास्तवा, एएससी
आईसी-60157	संजय जोशी, इंजीनियर्स	आईसी-60193	राजीव कुमार नायर, आर्टी
आईसी-60158	पुनीत चौहान, इंजीनियर्स	आईसी-60194	सी एस जयराम, सिग्नल्स
आईसी-60159	अंकुर सोरीक, इन्फैन्ट्री	आईसी-60195	सुनू जोन, एएससी
आईसी-60160	प्रवीण कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-60196	सुनील कुमार, आर्टी
आईसी-60162	सैफ नसीम, आर्टी	आईसी-60197	एल सोनामनी मीती, सिग्नल्स
आईसी-60163	गौरव मेहरा, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-60198	सौरभ इनामदार, इंजीनियर्स
आईसी-60164	हिमांशु कुमार त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री	आईसी-60199	वसंत गुराव, इन्फैन्ट्री
आईसी-60165	वैभव अनिल काले, इन्फैन्ट्री	आईसी-60200	नालिन दुर्गापाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-60166	गौरव कुमार महीन्द्रा, एसी	आईसी-60201	दवेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-60167	पवन चसवाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-60202	प्रचीश तिवारी, आर्टी
आईसी-60168	राजेश द्विवेदी, इंजीनियर्स	आईसी-60203	उज्ज्वल खातीवाड़ा, एओसी
आईसी-60169	सौरभ राठी, इन्फैन्ट्री	आईसी-60204	नरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-60170	अमर्नादर सिंह बैस, इन्फैन्ट्री	आईसी-60205	पदमातीकोना गोर्वधन रेड्डी, इंजीनियर्स
आईसी-60171	सलाम सत्यजीत सिंह, आर्टी	आईसी-60206	सौरभ कपूर, इंजीनियर्स
आईसी-60172	राम मूर्ति, एडीए	आईसी-60207	अमित चौधरी, एओसी
आईसी-60173	रजत कुमार त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री	आईसी-60208	म्रीदुल एम नायर, ईएमई
आईसी-60174	समवीत कुमार नायक, सिग्नल्स	आईसी-60209	नरेन्द्रा त्रिपाठी, ईएमई
आईसी-60175	अक्षय पाण्डे, सिग्नल्स	आईसी-60210	जितेन्द्र सिंह भल्ला, ईएमई
आईसी-60176	एन निखिल, ईएमई	आईसी-60211	अक्षय कंवर, इन्फैन्ट्री
आईसी-60177	अश्विनी कुमार शर्मा, इंजीनियर्स	आईसी-60212	निखिलेश्वर, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-60178	रवि जकारिया, एडीए	आईसी-60213	हरी प्रसाद, इन्फैन्ट्री
आईसी-60179	रजेन्द्रा जगदीश राने, इन्फैन्ट्री	आईसी-60214	प्रमोद कुमार गहलोत, इन्फैन्ट्री
आईसी-60180	सागत सिंह राठौर, ईएमई	आईसी-60215	अरुण मेनन, आर्टी
आईसी-60181	विश्वजीत सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-60216	प्रभात बिष्ट, ईएमई
आईसी-60183	विशाल शरद चिन्वकर, इन्फैन्ट्री	आईसी-60217	जगबीर सिंह दलाल, एडीए
आईसी-60184	कौशलया दुबे, इन्फैन्ट्री	आईसी-60218	समीर श्रीवास्तवा, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-60185	सुशील मिन्हास, इन्फैन्ट्री	आईसी-60219	प्रमोद कुमार, इंजीनियर्स

आईसी-60220 योगेन्द्रा कुशवाहा, आर्टी	आईसी-60256 एस वी श्याम प्राशांथ नामस, आर्टी
आईसी-60221 शमित ठाकुर, इंजीनियर्स	आईसी-60257 रजेश्वर सिंह, एडीए
आईसी-60222 मनीश कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-60259 साकेत सुमन, इन्फैन्ट्री
आईसी-60223 विश्वास प्रदीप परान्जपे, इन्फैन्ट्री	आईसी-60260 शुशांत गोविल, इन्फैन्ट्री
आईसी-60224 सचिन दीपक वाकानकर, आर्टी	आईसी-60261 पाटिल रोहित रमेश, इन्फैन्ट्री
आईसी-60226 अमन लूथरा, इन्फैन्ट्री	आईसी-60262 चिन्ना दासरी श्रीनिवास, आर्टी
आईसी-60227 विद्या भूषण तिवारी, ईएमई	आईसी-60263 अनुराग सिंह, आर्टी
आईसी-60228 राहुल गौड़, एओसी	आईसी-60264 मंदर माधव भलेराव, सिग्नल्स
आईसी-60229 अभिमन्यु शेखावत, एसी	आईसी-60265 कुमार गौरव, इंजीनियर्स
आईसी-60230 पवन कुमार, सिग्नल्स	आईसी-60266 गुरिन्द्र सिंह, इन्ट
आईसी-60231 राजीव कौशिक, इन्फैन्ट्री	आईसी-60267 परेश सिंघल, इन्फैन्ट्री
आईसी-60232 मनमोहन ठाकुर, आर्टी	आईसी-60268 नीगेल चार्लेस डी कोस्टा, आर्टी
आईसी-60233 शरंग पुन, इन्फैन्ट्री	आईसी-60269 पुनीत शर्मा, इंजीनियर्स
आईसी-60234 रिपजीत सिंह राय, इन्फैन्ट्री	आईसी-60270 छलमाला सेटी लीनेश कुमार, आर्टी
आईसी-60235 अक्षय बहल, इन्फैन्ट्री	आईसी-60271 पंकज कुमार सिंह कुशवाहा, ईएमई
आईसी-60236 सुरेश गुराव, इंजीनियर्स	आईसी-60272 अजय रावत, एओसी
आईसी-60237 विशाल अशोकराव अहेर, इन्फैन्ट्री	आईसी-60273 विक्रम विनायक केलकर, आर्टी
आईसी-60238 शैलेन्द्र सिंह कटोच, एडीए	आईसी-60274 संदीप कुमार, एएससी
आईसी-60239 अविषेक मुखर्जी, इन्फैन्ट्री	आईसी-60275 अनिंदा मन्डल, एसी
आईसी-60240 अनौरुध भूषण अग्रवाल, इंजीनियर्स	आईसी-60276 राम रतन, ईएमई
आईसी-60241 शालू राजा, ईएमई	आईसी-60277 सुरेन्द्र सिंह, सिग्नल्स
आईसी-60242 राकेश वसंथ थायिल, सिग्नल्स	आईसी-60278 रूप कुमार सिंह, ईएमई
आईसी-60243 कुलदीप सिंह, एओसी	आईसी-60279 नीरज कुमार, आर्टी
आईसी-60245 विकास गौतम, सिग्नल्स	आईसी-60280 निखिल पाण्डेय, एडीए
आईसी-60246 जितेश आर दीक्षित, इन्फैन्ट्री	आईसी-60281 नितिन कुमार, इंजीनियर्स
आईसी-60247 समीर बलवन्तराव गुजर, इन्फैन्ट्री	आईसी-60282 अरीजीत नारायण मुखोपाध्याय, इन्फैन्ट्री
आईसी-60248 मनोज कुमार उपाध्याय, इन्फैन्ट्री	आईसी-60283 अमित डोगरा, इन्फैन्ट्री
आईसी-60249 अनूप अग्रवाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-60284 राजेश्वर जमवाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-60250 हरप्रीत संधू, इन्फैन्ट्री	आईसी-60285 अमरुत कुलकर्णी, सिग्नल्स
आईसी-60251 तनमेय पाठक, इन्फैन्ट्री	आईसी-60286 एन एस विवेका मूर्ती, आर्टी
आईसी-60252 वी गिरीश, एओसी	आईसी-60287 राजदीप सिंह जमवाल, एएससी
आईसी-60253 कमल नौरियल, इन्फैन्ट्री	आईसी-60288 विकास कुमार, सिग्नल्स
आईसी-60254 सौरव चौधरी, इंजीनियर्स	आईसी-60289 परेश भास्कर देशपाण्डे, इन्फैन्ट्री
आईसी-60255 राजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-60290 रजनीश सिंह परमार, इंजीनियर्स

आईसी-60291	सुभाशीष चक्रवर्ती, इन्फैन्ट्री	आईसी-60327	राजेश वीलास हंकारो, इन्फैन्ट्री
आईसी-60292	आशुतोष श्रीवास्तवा, आर्टी	आईसी-60328	दिगम्बर सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-60293	सरंग मनोहर चवान, इन्फैन्ट्री	आईसी-60329	तरुण दुआ, आर्टी
आईसी-60294	निष्काम पुरी, इंजीनियर्स	आईसी-60330	महेश तनेजा, इन्फैन्ट्री
आईसी-60295	रोचक बक्शी, आर्टी	आईसी-60331	के एम संतोष, ईएमई
आईसी-60296	कनिष्ठ सिंह, एसी	आईसी-60332	विनोद सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-60297	विनय कुमार पाठक, आर्टी	आईसी-60333	ओमपाल सिंह, एसी
आईसी-60298	संतोष कुमार शिपाटी, इन्फैन्ट्री	आईसी-60334	सिरिल एंथोनी सतुर, एसी
आईसी-60299	निष्काल शर्मा, आर्टी	आईसी-60335	कुंवर अनुराग सिंह, आर्टी
आईसी-60300	अरविन्द कुमार ठाकुर, एओसी	आईसी-60336	सतवीन्दर सिंह सिद्धू, इंजीनियर्स
आईसी-60301	सुधीर सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री	आईसी-60337	नितिन शर्मा, आर्टी
आईसी-60302	मनु सूदन, इन्फैन्ट्री	आईसी-60338	जसवीन्दर सिंह, सिग्नल्स
आईसी-60303	राहुल शुक्ला, ईएमई	आईसी-60339	आशीष प्रकाश कांडवाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-60304	शैलेय के दास, एडीए	आईसी-60340	त्रिभुवन नरायण सिंह, सिग्नल्स
आईसी-60305	राजेन्द्र पाल सिंह संधू, एएससी	आईसी-60341	पवन अनिल जोशी, एओसी
आईसी-60306	रमणीक सिंह भाब्रा, इन्फैन्ट्री	आईसी-60342	गुरचरन सिंह, आर्टी
आईसी-60307	अभय अचार्य, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-60343	संजय सन्देश, एडीए
आईसी-60308	अमेय अशोक काले, ईएमई	आईसी-60345	अजीत बसवान, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-60309	सुरेश कुमार, सिग्नल्स	आईसी-60346	रत्नाकर गौडा, इंजीनियर्स
आईसी-60310	राजीव कुमार सिंह, ईएमई	आईसी-60347	अमित रंजन, एओसी
आईसी-60312	गौरीशंकर ए पिल्ले, इन्ट	आईसी-60348	बिरेन्द्रा सिंह वालदिया, आर्टी
आईसी-60313	रविन्द्रा रनानवरे, इन्फैन्ट्री	आईसी-60349	सुनदीप सिंह वालिया, आर्टी
आईसी-60314	कृष्ण कांत गिरि, आर्टी	आईसी-60350	अभिषेक माल, इन्फैन्ट्री
आईसी-60315	चेतन कुमार, इंजीनियर्स	आईसी-60351	जसवीन्दर सिंह गिल्ल, इन्फैन्ट्री
आईसी-60316	भवनीत सिंह, आर्टी	आईसी-60352	कमलेश सिंह राठौर, आर्टी
आईसी-60317	अभिनव बत्रा, ईएमई	आईसी-60353	सतपाल सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री
आईसी-60318	अमित नाथ, एओसी	आईसी-60354	आशु सूरी, इन्फैन्ट्री
आईसी-60319	राजेश मेहता, इन्फैन्ट्री	आईसी-60355	संजीव कुमार, एओसी
आईसी-60320	विनय शर्मा, इंजीनियर्स	आईसी-60356	शिखरेश वत्स, ईएमई
आईसी-60321	आशीष मिश्रा, इन्फैन्ट्री	आईसी-60357	नीम्बालकर पराग सम्भाजी, आर्टी
आईसी-60323	अवनीश सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-60358	संदीप सिंह, आर्टी
आईसी-60324	चेन्दिल कुमार जे, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-60359	दुष्यंत कुमार, आर्टी
आईसी-60325	मनीश खत्री, ईएमई	आईसी-60360	कुलदीप सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री
आईसी-60326	एच गोपाला कृष्णन, सिग्नल्स	आईसी-60362	राजेन्द्रा प्रसाद, सिग्नल्स

आईसी-60363 कमल बचानी, आर्टी	आईसी-60400 जसराज सिंह, आर्टी
आईसी-60365 पराग दोवाल, इंजीनियर्स	आईसी-60401 गौरव नारंग, इंजीनियर्स
आईसी-60366 धीरज सुहास जोशी, ईएमई	आईसी-60402 संजीव कुमार ठाकुर, एएससी
आईसी-60368 हरप्रोत सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-60403 विजय किशोर झा, सिगनल्स
आईसी-60369 हिमांशु पंवार, इन्फैन्ट्री	आईसी-60404 नरेन्द्रा प्रसाद सेमालती, इन्फैन्ट्री
आईसी-60370 अमित राणा, एसी	आईसी-60405 अमनदीप सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-60371 अभिषेक कुमार वर्मा, सिगनल्स	आईसी-60406 विशाल मुद्दे, इन्फैन्ट्री
आईसी-60372 भाटे अमोल अरविन्द्रराव, एडीए	आईसी-60407 संदेश कुमार, एडीए
आईसी-60373 अनिल बेंकटारमानी, ईएमई	आईसी-60408 अमित जाखार, ईएमई
आईसी-60374 जीतेश अरोरा, इंजीनियर्स	आईसी-60409 रणजीत दुग्गल, एओसी
आईसी-60375 संजोग सिंह थापा, इंजीनियर्स	आईसी-60410 मंदर उल्हास भांडेकर, आर्टी
आईसी-60376 टी जॉय कुमार, सिगनल्स	आईसी-60411 शशांक परमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-60377 अनिरुद्ध शेखावत, एसी	आईसी-60412 रजनीश मेहता, ईएमई
आईसी-60378 अभिजीत सिंह, आर्टी	आईसी-60413 अनमोल तनेजा, एडीए
आईसी-60379 रनयोध सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-60414 धीरज खन्ना, आर्टी
आईसी-60380 एम के सुशांत, एसी	आईसी-60415 धर्मेस दलाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-60381 अवीक कोनर, इन्फैन्ट्री	आईसी-60416 अर्जुन अन्दोत्रा, एओसी
आईसी-60382 लैटोनजम रोकसन, इन्फैन्ट्री	आईसी-60417 अमन वशिष्ठ, इंजीनियर्स
आईसी-60383 दीपक सिंघल, इन्फैन्ट्री	आईसी-60418 सुनील कुमार सिंह, इंजीनियर्स
आईसी-60385 पंकज कुमार सिन्हा, इन्फैन्ट्री	आईसी-60419 प्रमोद सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री
आईसी-60386 मनीश सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-60420 सपनेश किशोर साहु, सिगनल्स
आईसी-60387 अशीष एस बोरमांगकर, आर्टी	आईसी-60421 अमित मोहन, एएससी
आईसी-60388 आशुतोष सहाय, एएससी	आईसी-60422 लैजी जेकब जॉन, इन्फैन्ट्री
आईसी-60389 विपुल मेनन, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-60423 शुभांकर मिश्रा, इन्फैन्ट्री
आईसी-60390 ललित मोहन मिश्रा, इन्फैन्ट्री	आईसी-60424 प्रताप संधिविग्रह, आर्टी
आईसी-60391 ऋषि मोहन, इन्फैन्ट्री	आईसी-60425 स्टीफन डिकोस्टा, आर्टी
आईसी-60392 भरत प्रताप सिंह तोमर, इंजीनियर्स	आईसी-60426 अविनाश डी हेम्मादीय, इन्फैन्ट्री
आईसी-60393 अकाश शर्मा, इंजीनियर्स	आईसी-60427 प्रसेनजीत कार, इन्फैन्ट्री
आईसी-60394 महेन्द्रा सिंह रावत, इन्फैन्ट्री	आईसी-60428 उपेन्द्रा कुमार श्रीवास्तवा, इन्फैन्ट्री
आईसी-60395 राहुल शर्मा, एएससी	आईसी-60429 प्रतीश जी, ईएमई
आईसी-60396 रविन्द्रा प्रताप सिंह, ईएमई	आईसी-60430 कुलकर्णी अभिजीत मुकुंद, सिगनल्स
आईसी-60397 सुनील कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-60431 शेक मस्तान वाली, एएससी
आईसी-60398 विनोद अत्री, एसी	आईसी-60432 संदीप सिंह चौहान, आर्टी
आईसी-60399 संदीप सिंह ठाकुर, ईएमई	आईसी-60433 अनुराग बहल, इन्फैन्ट्री

आईसी-60434 विजय कुमार चौबे, आर्टी	आईसी-60473 सचिन सक्सेना, इन्फैन्ट्री
आईसी-60435 अखिलेश थापा, इन्फैन्ट्री	आईसी-60474 शैलेन्द्रा रावत, आर्टी
आईसी-60436 संदीप कुमार सिंह, एसी	आईसी-60475 संजीव मार शर्मा, आर्टी
आईसी-60437 विकास भोमिया, इंजीनियर्स	आईसी-60476 सुनील कुमार सिंह, आर्टी
आईसी-60438 ऋषि पाल सिंह, सिगनल्स	आईसी-60477 वीरिन्द्र सिद्ध, इन्फैन्ट्री
आईसी-60439 चिराग सिंह बरक, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-60478 कंचन कुमार, ईएमई
आईसी-60440 धीरज अरोरा, इन्फैन्ट्री	आईसी-60479 के. श्रीकांत, आर्टी
आईसी-60441 पार्था प्रातिम दुबे, इन्ट	आईसी-60480 देवेन्द्र तेलहान, इन्फैन्ट्री
आईसी-60442 विनोद कुमार शियोरन, इन्फैन्ट्री	आईसी-60481 विनीत चोपरा, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-60443 देवेन्द्र, आर्टी	आईसी-60482 अमित कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-60444 के. चन्द्रा मोहन रेड्डी, सिगनल्स	आईसी-60483 आशीष चौहान, ईएमई
आईसी-60446 नवीन्द्र सिंह मान, इन्फैन्ट्री	आईसी-60484 सैयद तबरेज शमशाद, इंजीनियर्स
आईसी-60447 विनिश सी टी, ईएमई	आईसी-60485 मनीष कुमार सिंह, सिगनल्स
आईसी-60448 निर्मलेन्दु पाण्डे, इन्फैन्ट्री	आईसी-60486 रत्नदीप खान, आर्टी
आईसी-60450 पीयूषा सूद, इन्फैन्ट्री	आईसी-60487 उमंग कोहली, एसी
आईसी-60451 अभिषेक तोमर, आर्टी	आईसी-60488 अरुन कुमार साहु, एएससी
आईसी-60452 कंठर दीप सिंह बाजवा, इन्फैन्ट्री	आईसी-60490 अखिलेश मोहन तिवारी, ईएमई
आईसी-60453 हरीश रामाचन्द्रन, इन्फैन्ट्री	आईसी-60491 पंकज शर्मा, एओसी
आईसी-60454 सलील पुरी, सिगनल्स	आईसी-60492 सुखदेव सिंह नगियाल, एडीए
आईसी-60455 केसरी सिंह राठौर, एडीए	आईसी-60493 तुहिन चौधरी, एसी
आईसी-60456 सचिन पाण्डेय, इंजीनियर्स	आईसी-60494 मोहम्मद शब्बीर जरीवाला, एसी
आईसी-60457 राहुल बनर्जी, इंजीनियर्स	आईसी-60495 सिधार्थ आर हीरेमथ, इंजीनियर्स
आईसी-60458 वागले विशाल रघुनंदन, ईएमई	आईसी-60496 सिधार्थ मुखर्जी, एडीए
आईसी-60459 अशोक कुमार शर्मा, आर्टी	आईसी-60500 वी महेश, एसी
आईसी-60460 नितिन मिश्रा, इंजीनियर्स	आईसी-60501 भास्कर कटारिया, इन्फैन्ट्री
आईसी-60461 मानत हुसैन, इन्फैन्ट्री	
आईसी-60463 अभिषेक बच्चन, एओसी	आईसी-62928 अदमुथे शशिकरण बच्चन, ईएमई
आईसी-60465 गगन दीप सिंह, एएससी	आईसी-62929 सुखजीत सिंह, सिगनल्स
आईसी-60466 लेख राज, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-62930 मनीष सिंह, सिगनल्स
आईसी-60467 हिम्मत सिंह धिल्लों, इन्फैन्ट्री	आईसी-62931 गुरीन्द्र पाल सिंह संधु, ईएमई
आईसी-60469 हनमंत पाटिल, इन्फैन्ट्री	आईसी-62932 मनोज कुमार घोष, इंजीनियर्स
आईसी-60470 रजनीश त्यागी, इन्फैन्ट्री	आईसी-62933 परवीन्द्र सिंह सैनी, इंजीनियर्स
आईसी-60471 अर्नब कुमार देव, एओसी	आईसी-62934 प्रहलाद ओइनम, ईएमई
आईसी-60472 सौमासीष गोस्वामी, इन्फैन्ट्री	आईसी-62935 टी प्रशांत, ईएमई

आईसी-62936 मंदार चन्द्रशेखर कोड़निकर, इंजीनियर्स
 आईसी-62937 रजनीश शुक्ला, सिगनल्लस
 आईसी-62938 संजय कुमार, इंजीनियर्स
 आईसी-62939 गौरव मिश्रा, ईएमई
 आईसी-62940 रंजन नेगी, इंजीनियर्स
 आईसी-62941 भगवत मुकुंद केशव, सिगनल्लस
 आईसी-62943 वी राजू, इंजीनियर्स
 आईसी-62944 रोहित रामाचन्द्रा पाट्टेड़, इंजीनियर्स
 आईसी-62945 मोहित बिष्ट, इंजीनियर्स
 आईसी-62947 अभिजीत कोटस्थाने, ईएमई
 आईसी-62948 अशीश गोयल, इंजीनियर्स
 आईसी-62949 आंशु, ईएमई
 आईसी-62950 कुलभूषण शर्मा, सिगनल्लस
 आईसी-62951 यामीर तिवारी, इंजीनियर्स
 आईसी-62952 मुकेश श्रीवास्तवा, सिगनल्लस
 आईसी-62953 नितिन कुमार, इंजीनियर्स
 आईसी-62955 अलेक्जेंडर इयान डोमिनिक, ईएमई
 आईसी-62956 पाटिल मानादर राव साहेब, ईएमई

---10 दिसम्बर 2004

आईसी-60506 विशाल सिंह, एसी
 आईसी-60507 सुरेन्द्र विक्रम सिंह, सिगनल्लस
 आईसी-60508 नक्षत्र सिंह, इंजीनियर्स
 आईसी-60509 सुनील सिंह सेंगर, ईएमई
 आईसी-60510 कुमार अमित, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-60511 निशिथ रंजन चौधरी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60512 सोमन पारीदा, आर्टी
 आईसी-60513 बिमिदि अरविन्द संतोष, इंजीनियर्स
 आईसी-60514 संदीप सिंह, ईएमई
 आईसी-60515 अभिषेक सक्सेना, आर्टी
 आईसी-60516 विमल टिको, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60517 सुनील जार्ज थॉमस, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60518 सुवेंदु पाधी, आर्टी
 आईसी-60520 कृष्ण यादव, एएससी
 आईसी-60521 अंकुर शर्मा, इन्फैन्ट्री

आईसी-60522 विक्रम शहेंसी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60523 अरपित यादव, सिगनल्लस
 आईसी-60524 रोहित कुमार धावान, आर्टी
 आईसी-60525 कुमार गौरव मेहता, एओसी
 आईसी-60526 रवजीत सिंह, एसी
 आईसी-60527 विजय सिंह मेहता, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60528 साजल शुक्ला, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60529 रवि कुमार, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60530 अमित कनोडिआ, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60531 विकास गौतम, सिगनल्लस
 आईसी-60532 चेतन मसोन, एएससी
 आईसी-60533 गौरभ जिंदल, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60534 आदित्या चेतनया, एडीए
 आईसी-60535 अरुणाशिष सनयाल, आर्टी
 आईसी-60536 अमित चौधरी, आर्टी
 आईसी-60537 कपिल देव पनगोत्रा, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-60538 मृदुल कमल गैड, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60539 गौरव कपूर, इंजीनियर्स
 आईसी-60540 सचिन कौशिक, ईएमई
 आईसी-60541 गगनदीप सिंह चिमनी, आर्टी
 आईसी-60542 हरप्रीत सिंह, सिगनल्लस
 आईसी-60543 रंजीत सिंह, ईएमई
 आईसी-60544 जवाहरलाल बी शर्मा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60545 नवल जोशी, इंजीनियर्स
 आईसी-60546 समरेन्द्र सिंह, आर्टी
 आईसी-60547 आशिष उप्रेती, इंजीनियर्स
 आईसी-60548 पवनजीत सिंह भुल्लर, एसी
 आईसी-60549 विक्रांत शर्मा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60550 कपिल कुमार, आर्टी
 आईसी-60551 कपिल गौर, इन्फैन्ट्री
 आईसी-60552 मयंक फरवाह, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-60553 जितेन्द्र कुमार, एसी
 आईसी-60554 संजीव वाई कोड़ाथे, सिगनल्लस
 आईसी-60555 सागर राणा, ईएमई

आईसी-60556	अनूप कुमार यादव, इन्फैन्ट्री	आईसी-60591	नरेश कुमार, आर्टी
आईसी-60557	अनूप कँवर, इन्फैन्ट्री	आईसी-60592	वैभव वी कुरुंडवाड़कर, ईएमई
आईसी-60558	श्री कृष्ण, आर्टी	आईसी-60593	बिक्रम सिंह, एएससी
आईसी-60560	अमन मोहन, इन्फैन्ट्री	आईसी-60594	सूरज बिष्ट, इन्फैन्ट्री
आईसी-60561	राजेश कुमार झा, इन्फैन्ट्री	आईसी-60595	आर रिचार्डसन, इन्फैन्ट्री
आईसी-60562	मंदर जोगलेकर, इन्फैन्ट्री	आईसी-60596	गुरप्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-60563	सतीश नागर, एएससी	आईसी-60597	सचिन जैन, इन्फैन्ट्री
आईसी-60564	अक्षय भौराव डैस, इन्फैन्ट्री	आईसी-60598	पुन्यदीप सिंह पॉल, इंजीनियर्स
आईसी-60565	नीरज श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री	आईसी-60599	दीपक तलुजा, एडीए
आईसी-60566	रविन्दर कुमार, एओसी	आईसी-60600	सिद्धार्थ बासु, एसी
आईसी-60567	अमित रंजन, ईएमई	आईसी-60601	हर्ष चन्द्र रस्तोगी, ईएमई
आईसी-60568	शरणाबासवेश्वरा सी मुरगण्डी, इंजीनियर्स	आईसी-60602	अश्वनी डंगवाल, सिग्नल्स
आईसी-60569	बृजेश पंत, आर्टी	आईसी-60603	कमल मिश्रा, इन्फैन्ट्री
आईसी-60570	शाश्वत सहोत्रा, आर्टी	आईसी-60604	निरेन चौधरी, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-60571	हरशल दिक्षित, ईन्ट	आईसी-60605	सतपाल बिश्नोई, आर्टी
आईसी-60572	सी कार्तिक, इन्फैन्ट्री	आईसी-60606	सतीश कुमार मिश्रा, आर्टी
आईसी-60573	गौरव राठौर, आर्टी	आईसी-60608	कैशम देवेन्द्र, इन्फैन्ट्री
आईसी-60574	संदीप कुमार, एएससी	आईसी-60609	अम्बुज कुमार सचन, आर्टी
आईसी-60575	ब्रह्म किशोर, एसी	आईसी-60610	सूर्या प्रकाश यादव, इंजीनियर्स
आईसी-60576	प्रमोद कुमार मिश्रा, एओसी	आईसी-60611	करण चढ्ढा, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-60577	खान साद, एडीए	आईसी-60612	दिव्य विवेक कौशल, एडीए
आईसी-60578	बलजीत सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-60613	अमित कुमार सिंह, आर्टी
आईसी-60579	अमिताभ भारद्वाज, सिग्नल्स	आईसी-60614	निशीत खन्ना, सिग्नल्स
आईसी-60580	मोदी मीनश कुमार मधुसूदन, एडीए	आईसी-60615	प्रेम चन्द, आर्टी
आईसी-60581	एस मुरलीधरन, ईएमई	आईसी-60617	अविनाश बिष्ट, एसी
आईसी-60582	वरिन्दर सिंह, सिग्नल्स	आईसी-60618	पवनदीप सिंह बाजवा, एडीए
आईसी-60583	सुधेन्द्र सिंह लाम्बा, इन्फैन्ट्री	आईसी-60619	विशाल पुरी, आर्टी
आईसी-60584	संदीप रावत, इन्फैन्ट्री	आईसी-60620	हंस राज भगत, एएससी
आईसी-60585	हरमीत सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-60621	विद्या सागर गुरुंग, इन्फैन्ट्री
आईसी-60586	रंजीत ए पी, आर्टी	आईसी-60622	सौरभ अग्रवाल, सिग्नल्स
आईसी-60587	अभिषेक जोशी, इंजीनियर्स	आईसी-60623	कुनाल भट्ट, इंजीनियर्स
आईसी-60588	जयदीप सिंह पटेल, इन्फैन्ट्री	आईसी-60624	राजात्रिषि दास, इन्फैन्ट्री
आईसी-60589	राहुल त्यागी, इन्फैन्ट्री	आईसी-60625	पंकज सिंघाई, इन्फैन्ट्री
आईसी-60590	अजय कुशावाह, आर्टी	आईसी-60626	मनवेन्द्र करमाकर, इन्फैन्ट्री

आईसी-60627 तब्बा रामेश कुमार, ईएमई	आईसी-60662 पुष्कर आनंद, इन्फैन्ट्री
आईसी-60628, अमित गुप्ता, इन्फैन्ट्री	आईसी-60663 गौरव के चोपरा, इंजीनियर्स
आईसी-60629 निखिल अग्रवाल, इंजीनियर्स	आईसी-60664 विवेक गोपाल, ईएमई
आईसी-60630 राज कुमार थापा, आर्टी	आईसी-60665 सुनील तमंग, आर्टी
आईसी-60631 साजिद अहमद खान, एसी	आईसी-60666 कमलदीप सिंह सलारिआ, इन्फैन्ट्री
आईसी-60632 सौरभ चरन, इन्फैन्ट्री	आईसी-60667 विकास गिरधर, ईएमई
आईसी-60633 आर वेंकट वराह नरसिमा रॉव, ईएमई	आईसी-60668 विनय कुमार गौतम, आर्टी
आईसी-60634 सचिन देव रनयत, सिग्नल्स	आईसी-60669 नवनीत दहिया, इन्फैन्ट्री
आईसी-60635 सुमित धासमाना, एओसी	आईसी-60670 राहुल चौहान, इन्फैन्ट्री
आईसी-60636 प्रशांत मिश्रा, इन्फैन्ट्री	आईसी-60671 अमित अग्रवाल, एएससी
आईसी-60637 मनीश कुमार, इंजीनियर्स	आईसी-60673 कुलदीप सैलवल, सिग्नल्स
आईसी-60638 संग्राम बालकृष्ण यादव, इन्फैन्ट्री	आईसी-60674 सुभेंदु दास, इंजीनियर्स
आईसी-60639 प्रजनन भट्टाचार्य, इन्फैन्ट्री	आईसी-60675 खुम बहादुर चन्द, इन्फैन्ट्री
आईसी-60640 विवेक कुमार सिंह, आर्टी	आईसी-60676 संगिधा चन्दन राय बर्मन, इंजीनियर्स
आईसी-60641 देवेन्द्र कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-60677 रमेश प्रसाद, इन्फैन्ट्री
आईसी-60642 धिरेन्द्र यादव, इन्फैन्ट्री	आईसी-60678 प्रियव्रत सिंह तोमर, एडीए
आईसी-60643 युद्धवीर सिंह लेहल, आर्टी	आईसी-60679 देवेन्द्र सिंह, आर्टी
आईसी-60644 अमित शेटी, ईएमई	आईसी-60680 रोहित डागर, एसी
आईसी-60645 भूपिन्दर सिंह कटल, इंजीनियर्स	आईसी-60681 लोकेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-60646 एम राधा कृष्णन, इन्फैन्ट्री	आईसी-60682 असित रंजन साहू, इन्फैन्ट्री
आईसी-60647 अश्विन ए यकुडी, सिग्नल्स	आईसी-60683 बड़शा गोष, इन्फैन्ट्री
आईसी-60648 विक्रांत मेहता, एसी	आईसी-60684 अम्बर कुमार, एडीए
आईसी-60650 बी चक्रवर्ती, इन्फैन्ट्री	आईसी-60685 मनीश दलाल, सिग्नल्स
आईसी-60651 सुतीकशन राणा, एएससी	आईसी-60686 मुराले गोपाल, आर्टी
आईसी-60652 रंजीत रामाचन्द्र पाटिल, एओसी	आईसी-60687 प्रदीप सिंह सिद्धू, एसी
आईसी-60653 सुरिन्द्र जीत सिंह, ईएमई	आईसी-60688 अजय मैथ्यू, सिग्नल्स
आईसी-60654 किंगशुक बिश्वास, आर्टी	आईसी-60689 भास्कर रौतेला, इंजीनियर्स
आईसी-60655 सुमीत सावनकुमार मनचन्दा, सिग्नल्स	आईसी-60690 कुमार विक्रम सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-60656 अनुज सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-60691 अनुराग मोहापात्रा, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-60657 चीथिरला अशोक, इन्फैन्ट्री	आईसी-60692 के जायपाल, ईएमई
आईसी-60658 एम रवि चन्द्रन, आर्टी	आईसी-60693 रविन्द्र कुमार, एओसी
आईसी-60659 दीपक सिंह पटवाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-60694 नितिन जोशी, इन्ट
आईसी-60660 नरेन्द्र कुमार कपस, इन्फैन्ट्री	आईसी-60696 शिवेन्द्र कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-60661 नलिनेश कुमार सिंह, एडीए	आईसी-60697 राकेश शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री

आईसी-60698 आलोक दुआ, इंजीनियर्स	आईसी-60736 अनंग कुकरेटी, इन्फैन्ट्री
आईसी-60699 तुषार कुमार, आर्टी	आईसी-60738 आशिष टी, इन्फैन्ट्री
आईसी-60700 देविन्दर सिंह गिल, इंजीनियर्स	आईसी-60739 राजेश कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-60701 ज्ञानेश्वर जाड़ली, ईएमई	आईसी-60740 राम सागर मिश्रा, इन्फैन्ट्री
आईसी-60702 कपिल जौहरी, आर्टी	आईसी-60741 सुदीप दत्ता, आर्टी
आईसी-60703 विक्रम जे मेक्योर, इन्फैन्ट्री	आईसी-60742 अंकुर कुमार, एसी
आईसी-60704 बेलिप्पा सी एस, इन्फैन्ट्री	आईसी-60743 शशि कांत शर्मा, आर्टी
आईसी-60705 मनु आर महेश, आर्टी	आईसी-60745 घनश्याम सूर्याकांत हावल, इंजीनियर्स
आईसी-60707 प्रोसेनजीत चक्रवर्ती, इन्फैन्ट्री	आईसी-60746 हरकंवल सिंह, सिग्नल्स
आईसी-60708 विवेक मिश्रा, इन्फैन्ट्री	आईसी-60747 एस वेंगटेशन, सिग्नल्स
आईसी-60709 अंकुर शर्मा, ईएमई	आईसी-60748 गुरपाल सिंह चहल, इन्फैन्ट्री
आईसी-60711 मनीश सिंह, आर्टी	आईसी-60749 विवेक गर्ग, इन्फैन्ट्री
आईसी-60712 उत्तम कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-60750 मनीश तेवारी, एसी
आईसी-60713 सत्रयसाची रथ, आर्टी	आईसी-60751 गुरमिन्दर सिंह, सिग्नल्स
आईसी-60714 आशिष सिंह पुंधीर, एसी	आईसी-60752 अमरजीत दास, एडीए
आईसी-60715 अजय बीर सिंह, सिग्नल्स	आईसी-60753 जेम्स सटफेन, इन्फैन्ट्री
आईसी-60716 रक्षक गुप्ता, इंजीनियर्स	आईसी-60754 निशांत चतुर्वेदी, सिग्नल्स
आईसी-60717 अविशकार शर्मा, एएससी	आईसी-60755 राहुल संख्यान, इन्फैन्ट्री
आईसी-60718 आशिष चोपरा, इन्फैन्ट्री	आईसी-60756 टी राजा पेरीनन, एडीए
आईसी-60719 शाजील वी पी, इंजीनियर्स	आईसी-60757 ओम प्रकाश, इन्फैन्ट्री
आईसी-60720 पंकज कुमार साहनी, आर्टी	आईसी-60758 आशिष अग्रवाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-60721 मनीश मोहन थिंड, आर्टी	आईसी-60759 रुचिर गुप्ता, इंजीनियर्स
आईसी-60722 पंकज जोशी, इंजीनियर्स	आईसी-60760 अभिषेक अहलावत, एओसी
आईसी-60723 रागेश कुमार सिन्हा, एओसी	आईसी-60761 विकास अत्रि, इन्फैन्ट्री
आईसी-60724 बसविन्दर चौहान, ईएमई	आईसी-60762 घोरपाड़े प्रसाद बाबूसाहेब, इन्फैन्ट्री
आईसी-60725 विक्रम सिंह, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-60763 पार्थो राज देव, आर्टी
आईसी-60726 शिवेश गौतम, एडीए	आईसी-60765 के निशांत नायर, इन्फैन्ट्री
आईसी-60728 विक्रम सतपर्वी नलवाडे, इन्फैन्ट्री	आईसी-60766 अलेक्स पॉल थॉमस, इंजीनियर्स
आईसी-60729 प्रवीन कुमार एम चौधरी, ईएमई	आईसी-60767 जिथिन नाथ आर, आर्टी
आईसी-60730 खड़ेकर बाबूराव शामराव, इन्फैन्ट्री	आईसी-60768 गिरिश चन्द्र, एएससी
आईसी-60731 आई विशाल आनंद, आर्टी	आईसी-60769 रवि कांत राय, सिग्नल्स
आईसी-60732 कर्मी कृत, इन्फैन्ट्री	आईसी-60770 आशिष गुप्ता, ईएमई
आईसी-60733 अभिषेक शर्मा, एसी	आईसी-60771 थोपटे विजय सिंह सरजे राव, इन्फैन्ट्री
आईसी-60734 हरमोहित सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-60772 रोहित गैरा, एसी

आईसी-60773 प्रफुल नांगिया, आर्टी	आईसी-60809 अक्षय चक्रवर्ती, इंजीनियर्स
आईसी-60774 प्रवीन कुमार अग्रवाल, आर्टी	आईसी-60810 अभिषेक सिंह, सिग्नल्स
आईसी-60775 सतीश कुमार सिन्हा, इन्फैन्ट्री	आईसी-60811 दिवाकर भारद्वाज, ईएमई
आईसी-60776 पार्था प्रतिम महातो, इंजीनियर्स	आईसी-60812 रितु राज, एएससी
आईसी-60777 दीपक भान, एडीए	आईसी-60813 ब्रिद सचिन सदानंद, इंजीनियर्स
आईसी-60778 मनीश गैरोला, ईएमई	आईसी-60814 रवनीत सिंह बेदी, सिग्नल्स
आईसी-60779 खरे रोकी सुरेन्द्र, ईन्ट	आईसी-60815 विजय सिंह तोमर, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-60780 तरून शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-60816 रज्जाक अदिल खान, इन्फैन्ट्री
आईसी-60781 कमलजीत बुधवार, आर्टी	आईसी-60817 ए चन्द्र शेखर रॉव, एडीए
आईसी-60782 अखिलेश कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-60818 शैलेन्द्र कुमार सिंह, ईएमई
आईसी-60783 अमरजीत शर्मा, ईन्ट	आईसी-60819 रोहिताष कुमार, एएससी
आईसी-60784 अजय चौधरी, आर्टी	आईसी-60820 अजमी ईक्वाल सिद्दकी, इन्फैन्ट्री
आईसी-60785 कुनाल शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-60821 विनीत रमन शारदा, आर्टी
आईसी-60786 उदित जैन, सिग्नल्स	आईसी-60822 धिरेश नारायण, ईएमई
आईसी-60787 अंकुश मरकन, इन्फैन्ट्री	आईसी-60823 गौरव सिंह, इंजीनियर्स
आईसी-60788 पाराग कवट, आर्टी	आईसी-60824 टी एस लोकेश, इन्फैन्ट्री
आईसी-60789 बलेंदु कुमार पांडेय, एसी	आईसी-60825 हर्ष मिश्रा, इन्फैन्ट्री
आईसी-60790 विजय रतना गुरुंग, एएससी	आईसी-60827 संजीव कुमार पुनिआ, इन्फैन्ट्री
आईसी-60791 सौरभ प्रिय सिंह, एओसी	आईसी-60828 सार्थक बिश्वास, इंजीनियर्स
आईसी-60793 सिद्धार्थ, इन्फैन्ट्री	आईसी-60829 रचित माथुर, सिग्नल्स
आईसी-60794 योगेश पाल सिंह, ईएमई	आईसी-60830 अजय सिंह परमार, आर्टी
आईसी-60795 अंशुल अशेष, इंजीनियर्स	आईसी-60831 अरुण कुमार तिवारी, आर्टी
आईसी-60796 कुश, सिग्नल्स	आईसी-60832 नितिन ममगाई, इन्फैन्ट्री
आईसी-60797 मनदीप सिंह संधू, इन्फैन्ट्री	आईसी-60833 प्रनय सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-60798 अडवेट श्रीकांत गाडरे, इन्फैन्ट्री	आईसी-60834 हेमंत साहनी, इन्फैन्ट्री
आईसी-60799 अखिल कृष्ण खन्ना, आर्टी	आईसी-60835 मनीश कुकरेती, एसी
आईसी-60800 नीरज पाण्डेय, इन्फैन्ट्री	आईसी-60836 विनसन जॉय, ईन्ट
आईसी-60801 गुरजीत पाल गिल, इन्फैन्ट्री	आईसी-60837 जे सतीश भारद्वाज, इंजीनियर्स
आईसी-60802 राहुल, ईएमई	आईसी-60838 नोरेम रंजन सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-60804 अविनाश कुमार, एडीए	आईसी-60839 परुल आनंद, ईएमई
आईसी-60805 अशोक कुमार, आर्टी	आईसी-60840 जितेन्द्र कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-60806 संतोष नैनवाल, इंजीनियर्स	आईसी-60841 अंकित कोहली, एडीए
आईसी-60807 मनोज प्रकाश पाठक, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-60842 रामू रंगानाथन, आर्टी
आईसी-60808 प्रमोद कुमार रे, इंजीनियर्स	आईसी-60844 नेत्रा बहादुर रोकाहा, मैक इन्फैन्ट्री

आईसी-60845	विनय दुबे, इन्फैन्ट्री	आईसी-60880	दीपक एम आर, ईएमई
आईसी-60846	सिद्धार्थ भंगोत्रा, आर्टी	आईसी-60881	कपिल शरेस्थ, एएससी
आईसी-60847	मीलम दत्तात्रेय पाटिल, आर्टी	आईसी-60882	चन्द्र प्रकाश सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-60848	राजेन्द्र कुमार अंदोला, सिग्नल्स	आईसी-60884	यारिअगड्डा भानु प्रसाद नायडु, सिग्नल्स
आईसी-60849	भूपिन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-60885	अनिल कुमार मेहरा, इन्फैन्ट्री
आईसी-60850	रजनीश गुप्ता, इंजीनियर्स	आईसी-60886	अतुल डांग, एडीए
आईसी-60851	सुभोर बहुगुना, इन्फैन्ट्री	आईसी-60888	विजय सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-60852	देवाशीष चटर्जी, इन्फैन्ट्री	आईसी-60889	विवेक वेहल, इंजीनियर्स
आईसी-60853	अंशुमन भादुरिया, इन्फैन्ट्री	आईसी-60890	सुरिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-60854	मोटनिस भूषन रजनीकांत, एडीए	आईसी-60891	ईस्साक वी एल सैलो, इन्फैन्ट्री
आईसी-60855	समीर माथुर, आर्टी	आईसी-60893	आशुतोष मिश्रा, इन्फैन्ट्री
आईसी-60856	मनीश महेन्द्र, इन्फैन्ट्री	आईसी-60894	अरिंदम चटर्जी, ईएमई
आईसी-60857	सुदेश्वर शर्मा, एसी	आईसी-60895	सुमित डुसेजा, आर्टी
आईसी-60858	अरुण मुर्थि, एसी	आईसी-60896	लालू कुमार एम वी, एडीए
आईसी-60859	सवंड दीपक प्रभाकर, ईएमई	आईसी-60897	दीप चन्दर काला, इन्फैन्ट्री
आईसी-60860	सुजॉय सेन, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-60898	भारगवे आनंद अरविन्द, आर्टी
आईसी-60861	गौरव डोगरा, इन्फैन्ट्री	आईसी-60899	आदर्श कुमार डागुर, आर्टी
आईसी-60862	सुब्रांशु सिन्हा रॉय, इन्फैन्ट्री	आईसी-60900	रविन्दर कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-60864	फैज सिद्दकी, एएससी	आईसी-60901	कृष्ण मोहन मोहती, एएससी
आईसी-60865	एस सैरेश, सिग्नल्स	आईसी-60902	कमल किशोर फुलेरा, आर्टी
आईसी-60866	अमित सक्सेना, ईन्ट	आईसी-60903	सुवहजीत नाहा, सिग्नल्स
आईसी-60867	विजय प्रकाश नेगी, एओसी	आईसी-60904	गौरव घई, आर्टी
आईसी-60868	रूपेश श्रीवास्तव, सिग्नल्स	आईसी-60905	निखिल संकारन, इंजीनियर्स
आईसी-60869	हेमंत कुमार, इंजीनियर्स	आईसी-60906	योगेन्द्र सिंह, सिग्नल्स
आईसी-60870	चंदित डंगलेम, इन्फैन्ट्री	आईसी-60907	मुकुल गुप्ता, ईन्ट
आईसी-60871	बिन्दु सोमेश्वर विजय कुमार, आर्टी	आईसी-60908	जगदीश सिंह धापोला, ईएमई
आईसी-60872	एस शिव शंकर, इन्फैन्ट्री	आईसी-60909	एस एस एस श्रीराम सोमान्वी, इंजीनियर्स
आईसी-60873	दिग्विजय सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-60910	राजेश कुमार सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-60874	सिद्धार्थ उज्ज्वल, एएससी	आईसी-60911	अनूप कुमार नायर, इन्फैन्ट्री
आईसी-60875	अयप्पा पेम्माह, इंजीनियर्स	आईसी-60912	सतवीर सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-60876	कपिल मलिक, आर्टी	आईसी-60913	पुष्पिंदर पाल सिंह मान, इन्फैन्ट्री
आईसी-60877	कवय रविन्द्र सिंह शंकर सिंह, आर्टी	आईसी-60914	दीपक रुठारे, इन्फैन्ट्री
आईसी-60878	विशाल विक्रम सिंह, ईएमई	आईसी-60915	घन्या जितेन्द्र रेड्डी, एओसी
आईसी-60879	सुनील डागर, आर्टी	आईसी-60916	मनोज कुमार राणा, आर्टी

आईसी-60917 विक्रम सरीन, एसी	आईसी-60955 अजय सिंह, सिग्नल्स
आईसी-60918 राहुल श्रीवास्तव, इंजीनियर्स	आईसी-60956 विकास भण्डारी, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-60919 सुनील कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-60957 सचिन तिवारी, आर्टी
आईसी-60920 बी केशव कृष्णा, आर्टी	आईसी-60958 दवेन्द्र मिश्रा, इंजीनियर्स
आईसी-60921 हेमेन्द्र सिंह सीरोही, एसी	आईसी-60960 अमित कुमार, इंजीनियर्स
आईसी-60922 दिपेन्द्र सीरोही, एएससी	आईसी-60961 गोविन्दा राव, एडी आर्टी
आईसी-60923 रुपेश गुप्ता, ईएमई	आईसी-60962 अविनाश शेखर श्राफ, इंजीनियर्स
आईसी-60924 विशाल शर्मा, एओसी	आईसी-60963 रविन्द्र कुमार गुरंग, आर्टी
आईसी-60925 कदम अनिल अम्बाजी, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-60964 संजय कुमार, इंजीनियर्स
आईसी-60927 राजिन्द्र मोहन राईजदा, एडी आर्टी	आईसी-60965 विवेक भारद्वाज, ईण्ट
आईसी-60928 तरुण कुमार भारद्वाज, इन्फैन्ट्री	आईसी-60966 चिनमोय जनाक, इन्फैन्ट्री
आईसी-60930 बिनय कुमार बिशोही, आर्टी	आईसी-60967 सम्भव गिरि, एसी
आईसी-60931 रोहित दलाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-60968 प्रशान्त मिश्रा, इन्फैन्ट्री
आईसी-60932 विजया कुमार थन्नाटे, इन्फैन्ट्री	आईसी-60969 प्रताप कुमार मिश्रा, इन्फैन्ट्री
आईसी-60933 अजीत कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-60970 वी सुरेश कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-60934 प्रियंक कुशवाहा, इंजीनियर्स	आईसी-60971 मनीष मेहरोत्रा, इन्फैन्ट्री
आईसी-60935 प्रदीप कुमार, सिग्नल्स	आईसी-60972 पंकज कुमार सिंह, ईएमई
आईसी-60936 गौरव चीव, इंजीनियर्स	आईसी-60974 गौरव वाजपेई, एओसी
आईसी-60937 निदेश डंगवाल, ईन्ट	आईसी-60975 कैलाश झा, इन्फैन्ट्री
आईसी-60938 नरेश कुन्दु, ईएमई	आईसी-60976 सारागंथम हरितेश सिंह, ईएमई
आईसी-60939 गौरव मेहरा, आर्टी	आईसी-60977 तरुण मिश्रा, इन्फैन्ट्री
आईसी-60940 सुमुखा सदानन्द शीवाडे, आर्टी	आईसी-60978 विवेक शील, आर्टी
आईसी-60941 ध्रुव वर्मा, आर्टी	आईसी-60979 प्रशान्त त्यागी, ईएमई
आईसी-60942 मानिक चोपड़ा, आर्टी	आईसी-60980 अमित वाजपेई, सिग्नल्स
आईसी-60944 राहुल चतुर्वेदी, इंजीनियर्स	आईसी-60981 विवेक कुमार, आर्टी
आईसी-60945 मैथ्यू पी ए, इन्फैन्ट्री	आईसी-60982 कौशिक घोषाल, आर्टी
आईसी-60946 अभिषेक दास, इन्फैन्ट्री	आईसी-60983 अमित शर्मा, एसी
आईसी-60947 विक्रान्त विवेक देशपाण्डे, सिग्नल्स	आईसी-60984 नवदीप हरनाल, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-60948 गिरीश चन्द्रा गोडियाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-60985 राजेश कुमार झा, आर्टी
आईसी-60949 विकास सहगल, सिग्नल्स	आईसी-60986 अमित नेगी, इंजीनियर्स
आईसी-60950 देविन्द्र कुमार बुद्धराजा, एसी	आईसी-60987 हरिश शर्मा, एडी आर्टी
आईसी-60951 नवजोत सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-60988 सोमेश कुमार मुखर्जी, आर्टी
आईसी-60952 प्रताप सिंह शेखन, एडी आर्टी	आईसी-60989 गुरिन्द्र सिंह, आर्टी
आईसी-60954 बिक्रम सिंह कंनवर, सिग्नल्स	आईसी-60990 अमित कुमार कौशिक, मैक इन्फैन्ट्री

आईसी-60991	कौशल राय, आर्टी	आईसी-61026	मनीष मालविया, एडी आर्टी
आईसी-60992	सुदीप कुमार मानव, इंजीनियर्स	आईसी-61027	जगदीश सिंह डूल, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-60993	सौरभ सुभाष शेट्टी, इन्फैन्ट्री	आईसी-61028	पंकज बनयाल, इंजीनियर्स
आईसी-60994	त्रिलोक चन्द शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-61029	विवेक गुप्ता, ईण्ट
आईसी-60995	विजय सिंह तनवर, इन्फैन्ट्री	आईसी-61030	बिश्वजीत कुमार कर, ईएमई
आईसी-60996	विकास कक्कर, एएससी	आईसी-61031	वरुण, आर्टी
आईसी-60997	एन नववेश, इन्फैन्ट्री	आईसी-61032	दीपनेश मोहन, आर्टी
आईसी-60998	पंकज नारायण, एसी	आईसी-61033	नीरज राणा, एसी
आईसी-60999	अनुराग मिश्रा, सिग्नल्स	आईसी-61034	विक्रम, एओसी
आईसी-61000	तपोश मुन्जाल, ईएमई	आईसी-61035	धर्म प्रताप सक्सेना, सिग्नल्स
आईसी-61001	रेड्डी हिमांशु, इंजीनियर्स	आईसी-61036	प्रभात कुमार, आर्टी
आईसी-61002	हर्ष, एडी आर्टी	आईसी-61038	हरमीत सिंह सामरा, इन्फैन्ट्री
आईसी-61003	सौरव सिंह गोसेन, इंजीनियर्स	आईसी-61040	प्रमेन्द्र सिंह यादव, इंजीनियर्स
आईसी-61004	विनय कुमार, एएससी	आईसी-61041	नीरज मिश्रा, आर्टी
आईसी-61005	दीपक कुमार, एओसी	आईसी-61042	दीपक जोशी, इन्फैन्ट्री
आईसी-61006	विवेक कुमार बलि, आर्टी	आईसी-61043	आनन्द कुमार शुक्ला, इन्फैन्ट्री
आईसी-61007	मीतेश कुमार सिन्हा, इन्फैन्ट्री	आईसी-61044	जितेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-61008	कपिल अवस्थी, ईएमई	आईसी-61045	कुनाल कृष्णा, इंजीनियर्स
आईसी-61009	प्रशान्त पाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-61046	ए रघुराम, सिग्नल्स
आईसी-61010	तुषार कौशिक, सिग्नल्स	आईसी-61047	रमन त्यागी, इंजीनियर्स
आईसी-61011	राजेश कोन्डल, इन्फैन्ट्री	आईसी-61048	रमन कुमार समनोत्रा, एएससी
आईसी-61012	विनीत सौरभ, एसी	आईसी-61049	मोहम्मद ईमरान खान, आर्टी
आईसी-61013	रविन्द्र सिंह जमवाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-61050	संजीव कुमार जसवाल, ईएमई
आईसी-61014	सुमीत कोहली, आर्टी	आईसी-61051	दीप मरवाह, इन्फैन्ट्री
आईसी-61016	अतुल कटोच, सिग्नल्स	आईसी-61052	अईश्वरे पाण्डे, इन्फैन्ट्री
आईसी-61017	आनन्द शंकर, आर्टी	आईसी-61053	अलोक ठाकुर, इन्फैन्ट्री
आईसी-61018	अनुराग महाजन, इन्फैन्ट्री	आईसी-61054	अभिनव सिंह, एसी
आईसी-61019	अतुल कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-61056	रणजीत सिंह, एडी आर्टी
आईसी-61020	एम पी बाहेकर, ईएमई	आईसी-61057	मानेश भादुरी, आर्टी
आईसी-61021	यश वर्धन पटेल, इन्फैन्ट्री	आईसी-61058	एस सैलेश, ईएमई
आईसी-61022	अलोक यादव, सिग्नल्स	आईसी-61060	प्रेम सिंह मेहता, सिग्नल्स
आईसी-61023	अलेक्सडर प्रसना कुमार, इंजीनियर्स	आईसी-61061	विपन वीरभान, इंजीनियर्स
आईसी-61024	तीमोती कची, इन्फैन्ट्री	आईसी-61062	पुनीत सक्सेना, एएससी
आईसी-61025	आमित गौर, ईएमई	आईसी-61064	पुष्कर नेगी, इन्फैन्ट्री

आईसी-61065 गौतम पटनायक, इंजीनियर्स	आईसी-61105 गौरव पाठक, एसी
आईसी-61066 अमित सैनी, एओसी	आईसी-61106 सुदीप डे, सिग्नल्स
आईसी-61067 बी रविन्द्र रेड्डी, ईएमई	आईसी-61107 बेनडांग सुनेप, इन्फैन्ट्री
आईसी-61068 रणजीत कुमार, एडी आर्टी	आईसी-61109 बोकिल मनधर मधुकर, इंजीनियर्स
आईसी-61069 मुशताक अहमद खान, इन्फैन्ट्री	आईसी-61110 अजय सहरावत, इन्फैन्ट्री
आईसी-61070 बैनजोय आर, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-61111 मुनीष कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-61071 संदीप सक्सेना, इंजीनियर्स	आईसी-61112 शक्ति कान्ता पाण्डा, सिग्नल्स
आईसी-61072 विवेक सक्सेना, आर्टी	आईसी-61113 अशुतोष नागपाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-61074 समीत कुमार दास, सिग्नल्स	आईसी-61114 गुरुप्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-61075 अमरीश कुमार, आर्टी	आईसी-61115 प्राकरन वर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-61076 देसाई सुभाष पान्डुरंग, सिग्नल्स	आईसी-61116 अनिश राय, आर्टी
आईसी-61078 मानवेन्द्र सिवाक, इन्फैन्ट्री	आईसी-61118 मोहम्मद ईरफान नकम, इंजीनियर्स
आईसी-61079 जसदीप सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-61119 अरविन्द कुमार जोशी, एएससी
आईसी-61081 राजा, एसी	आईसी-61121 मधु के सी अलेइस सोमना, इन्फैन्ट्री
आईसी-61082 राहुल जोशी, इन्फैन्ट्री	आईसी-61122 बिभूति प्रसाद पाण्डा, आर्टी
आईसी-61084 अर्जुन काईस्था, एसी	आईसी-61123 आशीष जौहरी, एडी आर्टी
आईसी-61085 विकास शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-61125 प्रवीन कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-61086 अभिजीत साध्ये, इन्फैन्ट्री	आईसी-61126 उमंग कुमार चौधरी, इन्फैन्ट्री
आईसी-61087 पालेश दत्ता, इंजीनियर्स	आईसी-61127 मोहम्मद सामवील नासरी, एएससी
आईसी-61089 रेशम सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-61128 बिक्रमजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-61091 माधवन पानीकर, आर्टी	आईसी-61129 अभिवेक शर्मा, ईएमई
आईसी-61092 राहुल सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-61130 हरिश कौशल, इन्फैन्ट्री
आईसी-61093 नीतिन शर्मा, आर्टी	आईसी-61131 गोविन्द सिंह डिल्लन, एसी
आईसी-61094 जितेन्द्र सिंह पनवर, आर्टी	आईसी-61132 अरोकीया राजन पाकीयानाथन, आर्टी
आईसी-61095 ईरविन्द्र सिंह, ईएमई	आईसी-61133 विक्रम सिंह रावत, इन्फैन्ट्री
आईसी-61096 सौरभ साहरन, एसी	आईसी-61134 सौरभ जैन चोपड़ा, एडी आर्टी
आईसी-61097 विक्रान्त वर्मा, इण्ट	आईसी-61135 रमनजीत सिंह चथा, एडी आर्टी
आईसी-61098 विष्णु प्रसाद नायर, ईएमई	आईसी-61136 संजीव कुमार दत्ता, इन्फैन्ट्री
आईसी-61099 विजय पाल सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-61137 अजय सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-61100 प्रदीप कृष्ण मैनन, ईएमई	आईसी-61140 सुरेश एम, इन्फैन्ट्री
आईसी-61101 जयशंकर के, इन्फैन्ट्री	आईसी-61141 अजय मेनन, एओसी
आईसी-61102 सन्तोष कुमार, एओसी	आईसी-61142 एस के निशका शेखर, आर्टी
आईसी-61103 विक्रमजीत सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-61143 अरविन्द मैदान, ईएमई
आईसी-61104 पारथा समाय, आर्टी	आईसी-61144 प्रवीन पदमानाभन, इंजीनियर्स

आईसी-61145	अमितवा दासगुप्ता, आर्टी	आईसी-63300	बिटूपन सेकिया, इंजीनियर्स
आईसी-61146	समीर अनदोत्रा, आर्टी	आईसी-63301	भारत भल्ला, इंजीनियर्स
आईसी-61147	सुधान्धु थपलियाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-63302	दीपक राठौर, ईएमई
आईसी-61148	विष्णु शर्मा, एसी	आईसी-63303	भीष्म भारद्वाज, सिग्नल्स
आईसी-61150	तपस नैथानी, इन्फैन्ट्री	आईसी-63304	सन्तोष कुमार भोला, ईएमई
आईसी-61151	अरिनदम घोष, इन्फैन्ट्री	आईसी-63305	नीतिन शर्मा, इंजीनियर्स
आईसी-61153	जार्ज सी डैनियल, आर्टी	आईसी-63306	सत्याजीत नायक, इंजीनियर्स
आईसी-61154	रमनदीप सिंह गिल, एसी	आईसी-63307	हेमन्त सिंह, ईएमई
आईसी-61155	कुलभूषण कक्कर, एएससी	आईसी-63308	अश्विन यादव, ईएमई
आईसी-61156	निखिल मधुकर कामटिकर, सिग्नल्स	आईसी-63309	डागरे सुषान्त जयावन्तराव, सिग्नल्स
आईसी-61158	अजातशत्रु नायक, इन्फैन्ट्री	आईसी-63310	तरुण सिंघल, ईएमई
आईसी-61160	अमित श्रीवास्तव, आर्टी	आईसी-63311	मोहित कुनतल, इंजीनियर्स
आईसी-61161	अन्जान बरुआ, आर्टी	आईसी-63313	सी एस पवन कुमार, इंजीनियर्स
आईसी-63277	राजिन्द्र सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-63314	गगनदीप मल्होत्रा, सिग्नल्स
आईसी-63278	सुप्रीत ग्रेवाल, इंजीनियर्स	आईसी-63315	मयंक शर्मा, ईएमई
आईसी-63279	प्रवीन एम खन्डोजे, आर्टी	आईसी-63316	शेर जंग डिल्लन, इंजीनियर्स
आईसी-63280	अनुराग, ईएमई	आईसी-63317	गीतेश दीप सिंह सन्धू, इंजीनियर्स
आईसी-63281	देविन्द्र सिंह, सिग्नल्स	आईसी-63318	जयन जोस, इंजीनियर्स
आईसी-63282	अभिषेक पत्रनिया, ईएमई	आईसी-63319	ओमेश यादव, ईएमई
आईसी-63283	मनगेश गाहिनीनाथ नीमगोनकर, इंजीनियर्स	आईसी-63320	सावन्त सम्राट विलास, इंजीनियर्स
आईसी-63284	सुनील एस फतेहपुर, इंजीनियर्स	आईसी-63321	हरप्रीत सिंह, ईएमई
आईसी-63285	विवेक एस पनवर, ईएमई	आईसी-63322	रविन्द्र सिंह, इंजीनियर्स
आईसी-63286	सन्दीप शर्मा, सिग्नल्स	आईसी-63323	विक्रान्त शर्मा, सिग्नल्स
आईसी-63288	ए वी प्राजीत, इंजीनियर्स	आईसी-63324	गौरव खरे, इंजीनियर्स
आईसी-63289	अभिषेक गोयल, इंजीनियर्स	आईसी-63325	आशुतोष कंवर, ईएमई
आईसी-63290	अतुल सिंह, सिग्नल्स	आईसी-63327	पी ए वेदनारायणन, ईएमई
आईसी-63292	कृपनेडू राहा, सिग्नल्स	आईसी-63328	विशाल कुमार श्रीवास्तव, इंजीनियर्स
आईसी-63293	गगनदीप सिंह, ईएमई	आईसी-63329	सचिन सदासीवन पिलई, ईएमई
आईसी-63294	अमित ठाकुर, ईएमई	आईसी-63330	दिपानकर चौधरी, ईएमई
आईसी-63295	जोयदीप मजुमदार, ईएमई	आईसी-63331	नैने विठ्ठक सुहास, इंजीनियर्स
आईसी-63296	अभिषेक सिंह, सिग्नल्स	आईसी-63332	उदय ठाकुर, इंजीनियर्स
आईसी-63297	सीजु चाको, इंजीनियर्स	आईसी-63333	अजय यादव, ईएमई
आईसी-63298	नीरज कालरा, सिग्नल्स	आईसी-63334	त्रिकास लाम्बा, सिग्नल्स
आईसी-63299	अजय विजयन नायर, इंजीनियर्स	आईसी-63335	देसीकन एस, सिग्नल्स

आईसी-63336 कारजगो जहीर अब्बास सब्बीर अहमद, इंजीनियर्स
 आईसी-63337 विक्रम नेहरा, इंजीनियर्स
 आईसी-63339 राकेश रामाचन्द्रन पिल्लई, सिग्नल्स
 आईसी-63340 हरमीत सिंह वजीर, इंजीनियर्स
 आईसी-63341 अजीत कुमार, ईएमई
 आईसी-63342 राजेश पिल्लई, सिग्नल्स
 आईसी-63343 अनिरोध सिंह बाईस, ईएमई
 आईसी-63344 बलराम सिंह गोपाल, इंजीनियर्स
 आईसी-63345 अमित दास, इंजीनियर्स
 आईसी-63346 संदीप भट्ट, सिग्नल्स
 आईसी-63347 गुरप्रताप सिंह टूर, सिग्नल्स
 आईसी-63348 जसपिन्द्र सिंह शेखन, ईएमई
 आईसी-63349 आशुतोष कुमार सुगन्धि, सिग्नल्स
 आईसी-63350 राहुल मिश्रा, इंजीनियर्स
 आईसी-63351 रोहित भण्डारी, सिग्नल्स
 आईसी-63352 जयमनदीप सिंह, सिग्नल्स
 आईसी-63353 पीनाकी चक्रवती, इंजीनियर्स
 आईसी-63354 बाधे दलित महादेव, ईएमई
 आईसी-63355 हिमांशु माथुर, ईएमई
 आईसी-63356 अरविन्द कोन्डल, ईएमई
 आईसी-63357 दीपक त्यागी, इंजीनियर्स
 आईसी-63358 प्रदान श्यामनारायणा कृष्णा, सिग्नल्स
 आईसी-63359 धन सिंह, इंजीनियर्स
 आईसी-63360 दिपेन्द्र मिश्रा, इंजीनियर्स
 आईसी-63361 जिवतेश सिंह कहलोन, आर्टी
 आईसी-63362 मनीष कुमार राणा, सिग्नल्स
 आईसी-63364 भारत उदय सेठ, ईएमई
 आईसी-63365 हरजिन्द सिंह, ईएमई
 आईसी-63366 मैथ्यू थॉमस, ईएमई

--16 दिसम्बर 2004

आईसी-61329 पवन नेहरा, ए सी
 आईसी-61330 नेपोलियन नायक, ए डी आर्टी
 आईसी-61331 मुकुन्द भारद्वाज, ए डी आर्टी
 आईसी-61332 अमोलजीत सिंह गिल, ए सी

आईसी-61333 अभिनंदन सरपुरे, आर्टी
 आईसी-61334 जी एच हसन नाथ, ए डी आर्टी
 आईसी-61335 अक्षय कुमार ओहरी, आर्टी
 आईसी-61336 तुषार जैकब आर्शिवादम, आर्टी
 आईसी-61337 सिद्धार्थ सिंह, ए सी
 आईसी-61338 प्रशांत कुकरेती, ए एस सी
 आईसी-61339 रोहित मुखर्जी, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-61340 शशि भूषण मिश्रा, ए ओ सी
 आईसी-61341 शिव नील गांगुली, आर्टी
 आईसी-61342 संजय सिंह काली, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61343 अजय सिंह, सिग्नल्स
 आईसी-61344 शान्तनु कुमार, ई एम ई
 आईसी-61345 वरुण दीक्षित, इंजी
 आईसी-61346 निशांत परमार, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61347 मोहित सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61348 प्रदुमन सिंह चांदे, इंजी
 आईसी-61349 विकास पांडे, ए एस सी
 आईसी-61350 अनिमेष झा, आर्टी
 आईसी-61351 आदित्य प्रताप सिंह, आर्टी
 आईसी-61352 सन्तोष कुमार सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-61353 आशीष कोइजम, ए सी
 आईसी-61354 मिलन पटनाईक, सिग्नल्स
 आईसी-61355 गौरव पांडे, ई एम ई
 आईसी-61356 वरिन्दर सिंह, आर्टी
 आईसी-61357 नेक्टर सन्जेन्बम, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61358 सिद्धरमेश एम रामपुर, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61359 धर्मेन्द्र सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61360 नवीन राजन, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61361 अजय पंडित, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61362 परविन्दर सिंह, आर्टी
 आईसी-61363 सन्दीप प्रकाश राव, आर्टी
 आईसी-61364 अजय राघव, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61365 जसजीत सिंह, इंजी
 आईसी-61366 प्रदीप कुमार गिल, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61367 सौरभ सक्सेना, सिग्नल्स

आईसी-61368 सुभासीस घोष, आर्टी	आईसी-61405 अमित कुमार, ए एस सी
आईसी-61369 अनूप सिंह खुटेल, सिग्नल्स	आईसी-61406 प्रीतम राबूल, इंजी
आईसी-61370 डी नवीन बेनजीत, इन्फैन्ट्री	आईसी-61407 हरीम राकेश ठाकुर, इंजी
आईसी-61371 राजेश शर्मा, इंजी	आईसी-61408 अभिषेक चावला, आर्टी
आईसी-61372 हितेन्द्र पार्ती, ए ओ सी	आईसी-61409 शैलेश कुमार राँय, इन्फैन्ट्री
आईसी-61373 रूपेन्द्र मल्होत्रा, ई एम ई	आईसी-61410 अभिषेक पटवर्धन, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-61374 मोहित साह, इन्फैन्ट्री	आईसी-61411 सुर्तिथो राँय, आर्टी
आईसी-61375 मैनक देव, आर्टी	आईसी-61412 आर विष्णु शंकर, आर्टी
आईसी-61376 मोहित मिश्रा, इन्फैन्ट्री	आईसी-61413 कश्यप ठक्कर, इन्फैन्ट्री
आईसी-61377 योगेश सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-61415 अजय कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-61378 बलजीत सिंह, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-61416 सुखजिन्दर पॉल सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-61379 दीपक तेवारी, ई एम ई	आईसी-61418 एम संजीव, इन्फैन्ट्री
आईसी-61380 सी विद्याधरन, ए सी	आईसी-61419 आशीष कुमार, ए ओ सी
आईसी-61382 आशीष लाल, ए सी	आईसी-61420 रणजीत सिंह हुंडल, ए सी
आईसी-61383 निपुन कृष्णन, इन्फैन्ट्री	आईसी-61421 रोशन सिंह बुटोला, इन्फैन्ट्री
आईसी-61384 विनीत तलूजा, आर्टी	आईसी-61422 सत्य कीर्ति, इन्फैन्ट्री
आईसी-61385 सुमीत कट्टी, इन्फैन्ट्री	आईसी-61423 विनोद कुमार अधिकारी, इन्फैन्ट्री
आईसी-61386 शेखर अत्री, इन्फैन्ट्री	आईसी-61424 हिमांशु बिजलवान, ए ओ सी
आईसी-61388 नीरज नैथानी, ई एम ई	आईसी-61425 वीरेन्द्र सिंह फोगट, इंजी
आईसी-61389 केदार मधुकर आराध्ये, इन्फैन्ट्री	आईसी-61426 करावदी श्रीकान्थ, सिग्नल्स
आईसी-61390 सुरेश सूरी, इन्फैन्ट्री	आईसी-61427 तथागत दत्ता, ए सी
आईसी-61391 प्रदीप सिंह मन्हास, सिग्नल्स	आईसी-61428 प्रशांत भारद्वाज, इन्फैन्ट्री
आईसी-61392 वी श्रीहरि, इंजी	आईसी-61429 कुलदीप सिंह राठी, ई एम ई
आईसी-61393 अंकुर विकास वैद्य, ए डी आर्टी	आईसी-61430 उम्मानिदि वेंकटेश्वर राव, आर्टी
आईसी-61394 विक्रम नेहरा, ए एस सी	आईसी-61431 राकेश कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-61395 गगनदीप सिंह नन्दा, इन्फैन्ट्री	आईसी-61432 गुरप्रीत सिंह बाली, ई एम ई
आईसी-61396 विनोद कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-61433 सुहेल वाय सौदागर, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-61397 रेक्ससन रोबर्टसन, इन्फैन्ट्री	आईसी-61435 रणजीत आर नायर, ए डी आर्टी
आईसी-61398 विशाल कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-61436 योग कृष्ण पाठक, इन्फैन्ट्री
आईसी-61399 अनिल मेहता, आर्टी	आईसी-61437 अमित कोटनाला, इन्फैन्ट्री
आईसी-61400 सन्तभोर प्रतीक गंगाधर, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-61438 राम पाल दहिया, ए सी
आईसी-61401 सन्जू मैथ्यू, इन्फैन्ट्री	आईसी-61439 ध्यान चन्द हीसनम, ए एस सी
आईसी-61402 समरजीत रे, इन्फैन्ट्री	आईसी-61440 पुष्पज कश्यप, आर्टी
आईसी-61403 अप्रतिम शर्मा, ए डी आर्टी	आईसी-61441 सत्य सुन्दर मिश्रा, इन्फैन्ट्री
आईसी-61404 जतिन्द्र सिंह रन्धावा, सिग्नल्स	आईसी-61442 प्रदीप कुमार दीक्षित, इन्फैन्ट्री

- आईसी-61443 विपिन चौहान, ए ओ सी
 आईसी-आईसी-61444 देवानन्द एम मथपति, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61445 शाम देव, ए ओ सी
 आईसी-61446 सौरव नारायण डे, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61447 शिखर चतुर्वेदी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61448 अनीश बाबू, आर्टी
 आईसी-61449 मयंक शर्मा, ए डी आर्टी
 आईसी-61450 संग्राम सिंह, इंजी
 आईसी-61451 सुनील कुमार, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61452 एम पी अप्पैया, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61453 अंकुर तिवारी, आर्टी
 आईसी-61454 आलोक मोहन्ती, इंजी
 आईसी-61455 रजनीश परमार, ए सी
 आईसी-61456 अनूप सिंह, आर्टी
 आईसी-61457 सूर्यजीत अहलावत, ई एम ई
 आईसी-61458 विशाल शर्मा, आर्टी
 आईसी-61459 अभिषेक बिष्ट, आर्टी
 आईसी-61460 सत्यजीत शिंदे अजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61461 सिद्धार्थ शुक्ला, सिग्नल्स
 आईसी-61462 दुर्गेश कुमार बन्सल, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61463 सुचेत कथूरिया, इंजी
 आईसी-61464 अक्षत आनंद, आर्टी
 आईसी-61465 दीपेन्द्र जसरोटिया, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61466 अमित काद्यान, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61467 सचिन कार्निक शाम, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61468 अन्जीत ओहरी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61469 मनदीप सिंह घुम्पन, आर्टी
 आईसी-61470 रजत पोखरियाल, ए सी
 आईसी-61471 थौडम आनन्द सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61472 सन्तोष रावत, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61473 राजन व्यास, आर्टी
 आईसी-61474 डी सूजा नेस्टर डेरिक, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61475 समीर अरोड़ा, आर्टी
 आईसी-61476 रितेश सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61477 अमित गुप्ता, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61478 अमित मैथ्यू, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61479 नमित राय, आर्टी
 आईसी-61480 कार्तिकेय कुकरेती, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61481 सुनील कुमार मोर, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61482 रजत साहनी, ए एस सी
 आईसी-61483 रोहित शर्मा, सिग्नल्स
 आईसी-61484 मनोज कुमार, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61485 राहुल स्लाथिया, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61486 प्रविन्दर सिंह नेगी, इंजी
 आईसी-61487 सुखदीप सिंह, ई एम ई
 आईसी-61488 गौरव जैन, इंजी
 आईसी-61490 प्रशांत एस अप्पाजी, सिग्नल्स
 आईसी-61491 अभिषेक मोहन, ए डी आर्टी
 आईसी-61492 राहुल सांगा, ए सी
 आईसी-61493 सचिन भाटिया, इंजी
 आईसी-61494 परमवीर सिंह बिष्ट, ई एम ई
 आईसी-61495 अमन अबरोल, आर्टी
 आईसी-61496 सुनील कुमार डोगरा, ए एस सी
 आईसी-61497 हर्षद एच डांडेकर, आर्टी
 आईसी-61498 समबित पारिजा, आर्टी
 आईसी-61500 अमित खन्ना, ए ओ सी
 आईसी-61501 सरबजीत सिंह, आर्टी
 आईसी-61502 के एस केविन, ए डी आर्टी
 आईसी-61503 अंकित सरीन, आर्टी
 आईसी-61504 राहुल बबनराव बन्नोरे, आर्टी
 आईसी-61505 अमरीक बडियाल, सिग्नल्स
 आईसी-61506 नसीर फौज़ल ज़िया, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61507 बी प्रवीन, ई एम ई
 आईसी-61508 विजेन्द्र कुमार सांगवान, ए एस सी
 आईसी-61509 ब्रिजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61510 शेहजर धर, सिग्नल्स
 आईसी-61511 यशोकीर्ति गौड़, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61512 आशीष शर्मा, आर्टी
 आईसी-61513 पुनीत प्रताप सिंह, तोमर, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61514 हरप्रीत सिंह कोहली, इन्फैन्ट्री

आईसी-61515 इन्दर पाल सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-61552 रमेश प्रकाश, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-61516 अमित कुमार, ए एस सी	आईसी-61553 पंकज सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-61517 कमल वेनु नायर, इन्फैन्ट्री	आईसी-61554 रमेन्द्र कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-61518 राहुल, ए सी	आईसी-61555 सुनील कुमार, सिग्नल्स
आईसी-61519 जयवीर सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री	आईसी-61556 स्नेहल राठौर, इन्फैन्ट्री
आईसी-61520 जोजो जैकब, इन्फैन्ट्री	आईसी-61557 अजय कुमार शर्मा, इंजी
आईसी-61521 अक्षय गार्ग, इन्फैन्ट्री	आईसी-61558 विकास कुमार बुद्धिराजा, ए एस सी
आईसी-61522 विमल कुमार खंडका, इन्फैन्ट्री	आईसी-61559 विक्रमजीत सिंह साही, आर्टी
आईसी-61523 राजेश कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-61560 सुनील शर्मा, ए डी आर्टी
आईसी-61524 सन्तोष कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-61562 विशाल भन्डराल, इन्फैन्ट्री
आईसी-61525 आंशु गुप्ता, ई एम ई	आईसी-61563 नितेश कुमार वसन्त सुतार, ए ओ सी
आईसी-61526 अनुराग बक्शी, ए सी	आईसी-61564 राकेश चन्दर, इन्फैन्ट्री
आईसी-61527 गोपाल सिंह, सिग्नल्स	आईसी-61565 गुरबीर सिंह कहलोन, इन्फैन्ट्री
आईसी-61528 विजय सिंह दिल्ली, ए ओ सी	आईसी-61566 रजत पल्लव, इन्फैन्ट्री
आईसी-61529 घनश्याम, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-61567 उदय भानु, ई एम ई
आईसी-61530 मानस खडंगा, ए डी आर्टी	आईसी-61568 अभिषेक सक्सेना, ए सी
आईसी-61531 विकास शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-61569 मनोज कुमार, आर्टी
आईसी-61532 जीतेन्द्र सिंह, इंजी	आईसी-61570 महाराणा प्रमोद लिंगराज, आर्टी
आईसी-61533 पार्थसारथी रॉय, इन्फैन्ट्री	आईसी-61571 सुमित पालीवाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-61534 संजय जादोन, ई एम ई	आईसी-61572 कंवरजीत सिंह, आर्टी
आईसी-आईसी-61535 विनय खंडेलवाल, इंजी	आईसी-61573 आशीष एडविन मोजिज, ई एम ई
आईसी-61536 ब्रह्म देव मलिक, ए ओ सी	आईसी-61574 सुप्रीत कुमार बासु, ए सी
आईसी-61537 प्रशांत कक्कड़, इन्फैन्ट्री	आईसी-61575 उदय मोहन तिवारी, इन्फैन्ट्री
आईसी-61538 दीपक जोशी, सिग्नल्स	आईसी-61576 आनन्द कुमार इंट
आईसी-61540 सचिन रस्तोगी, इन्फैन्ट्री	आईसी-61577 अमित कुमार शर्मा, इंजी
आईसी-61541 विमल जी नायर, इन्फैन्ट्री	आईसी-61578 चेतन तिवारी, इंजी
आईसी-61542 पंकज शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-61579 राम मोहन पुरोहित, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-61544 ए विजय कुमार, इंजी	आईसी-61580 पवेल रॉय, इन्फैन्ट्री
आईसी-61545 पी मधुसूदन राव, इन्फैन्ट्री	आईसी-61581 राहुल अरविंद पवार, इंजी
आईसी-61546 यतेन्द्र कुमार मगरिया, इन्फैन्ट्री	आईसी-61582 नरेश चन्द्र गैरोला, इन्फैन्ट्री
आईसी-आईसी-61547 परमोद सिंह, ई एम ई	आईसी-61583 पवन सिंह, ए एस सी
आईसी-61548 अंजुल ब्रह्मगुणा, इन्फैन्ट्री	आईसी-61584 विवेक कुमार द्विवेदी, आर्टी
आईसी-61549 विमल कुमार रे, आर्टी	आईसी-61585 अजय भट्ट, सिग्नल्स
आईसी-61550 बेबी पटनायक, आर्टी	आईसी-61586 सागर प्रकाश चौधरी, आर्टी
आईसी-61551 अर्थ कुकरेती, ए सी	आईसी-61587 तेजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री

- आईसी-61588 नवीन कुमार सी हीरेमठ, ई एम ई
 आईसी-61589 गौरव सिंह मनहास, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61590 अमित शुक्ला, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61591 चन्द्र शेखर सिंह, आर्टी
 आईसी-61592 राजेश पत्रनिया, ए एस सी
 आईसी-61593 अमित कुमार मिश्रा, सिग्नल्स
 आईसी-61594 सिद्धार्थ दिलीप देशमुख, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61595 अमित ठाकुर, ए डी आर्टी
 आईसी-61596 आशुतोष श्रीवास्तव, ए ओ सी
 आईसी-61597 अरुण पुष्कर, सिग्नल्स
 आईसी-61598 मुनीष गोयल, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-61599 आलोक कुमार, इंजी
 आईसी-61600 सुदीप दत्ता, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61601 एस प्रवीण, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61602 देवशीष नायक, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61603 सीजो एन्टेनी, इंजी
 आईसी-61604 गौरव थापा, आर्टी
 आईसी-61605 के वी विमल, आर्टी
 आईसी-61606 प्रियतोष गांगुली, आर्टी
 आईसी-61607 भरत सिंह, ए एस सी
 आईसी-61608 मिलिन्द शिंदे, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61609 अमनबीर सिंह गिल, ए डी आर्टी
 आईसी-61610 मनीष जोशी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61611 रजनीकांत उपाध्याय, ए सी
 आईसी-61612 सूर्य प्रकाश पांडे, सिग्नल्स
 आईसी-61613 प्रीतिन्दर सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61614 अभिषेक ठाकुर, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61615 टी एस नारायण, ई एम ई
 आईसी-61616 सारंग यशवंत केलपुरे, ए एस सी
 आईसी-61617 रणजीत श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61618 विनीत तोमर, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61619 मिशबहुद्दीन खान, इंजी
 आईसी-61620 अचलेश कुमार दहिया, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61621 हिमांशु मिश्रा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61622 हर्षवर्धन शर्मा, आर्टी
 आईसी-61623 सुधीर शर्मा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61624 पंकज प्रकाश जैन, ए एस सी
 आईसी-61625 शमीम मियां अन्सारी, ए ओ सी
 आईसी-61626 सुभ्रकांत मोहन्ती, आर्टी
 आईसी-61627 के अरुण प्रसाद, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61628 परमानंद दास, ए डी आर्टी
 आईसी-61629 अनुराग गुप्ता, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61630 अतुल शर्मा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61631 अमरदीप सिंह रावत, सिग्नल्स
 आईसी-61632 मितेश खाटी, आर्टी
 आईसी-61633 मयंक रस्तोगी, इंजी
 आईसी-61634 अमरीश मोगे, ए सी
 आईसी-61635 प्रशांत कुमार सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-61636 भूपेन्द्र सिंह चिकारा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61637 अजय कुमार पांडे, आर्टी
 आईसी-61638 नीरज कोहली, ई एम ई
 आईसी-61639 योगेश छेत्री, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61640 विवेक शर्मा, आर्टी
 आईसी-61641 विकास सुहाग, ए सी
 आईसी-61642 नीरज चौधरी, सिग्नल्स
 आईसी-61643 रवि कुमार, ए एस सी
 आईसी-61644 निखिल ठक्कड़, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61645 प्रणय सिंधू, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61646 राजेश कुमार झा, ई एम ई
 आईसी-61647 मनोज ढपोला, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61648 मनीष सुर्वसे, इंजी
 आईसी-61649 पंकज शर्मा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61650 सुभाष प्रधान, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61651 अपूर्व भटनागर, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61653 अनूप ए पी, ई एम ई
 आईसी-61654 अमोल शांताराम अवाटे, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-61655 मनोज गुरुंग, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61656 विनोद शर्मा, आर्टी
 आईसी-61657 पदम गौरू नायडू, ई एम ई
 आईसी-61658 अमित चन्द्र, आर्टी

आईसी-61659 सव्यसाची बांकुंडी, आर्टी
 आईसी-61660 रूबेन वर्धेस फिलिप, इंटर
 आईसी-61661 सुमन्त बी कदम, ई एम ई
 आईसी-61662 अंकुर दिल्ली, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61663 यतिन्द्र कुमार, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-61664 शैलेन्द्र यादव, आर्टी
 आईसी-61665 भूपेन्द्र रावत, ए डी आर्टी
 आईसी-61666 दीपक भट्ट, ई एम ई
 आईसी-61667 परिहल लायसराम, इंजी
 आईसी-61668 विक्रम सिंह भाटी, ए सी
 आईसी-61669 नीरज तिवारी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61670 गुणेंद्र कुमार समद, ए ओ सी
 आईसी-61671 रजनीश सिंह सकरवार, आर्टी
 आईसी-61672 पुष्पक मिश्रा, आर्टी
 आईसी-61673 हर्ष वर्धन पांडे, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61674 लक्ष्मण सिंह देओपा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61675 पी कलियप्पन, सिग्नल्स
 आईसी-61676 सिद्धार्थ, ए एस सी
 आईसी-61677 अनूप कुमार त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61678 अमित, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61679 रवि दुबे, ए सी
 आईसी-61680 एम सेल्वा कुमार, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61681 भगत प्रीत सिंह बेदी, ए ओ सी
 आईसी-61682 मयंक सेनगुप्ता, आर्टी
 आईसी-61683 सम्भव खगशाल, आर्टी
 आईसी-61684 प्रमोद सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61685 सुचित आर, इंजी
 आईसी-61686 श्रीकेश एस, ए एस सी
 आईसी-61687 दीपक पांडे, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61688 संदीप कौशिक, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61689 अनिल कुमार कश्यप, आर्टी
 आईसी-61690 नन्द कुमार कैमाल, सिग्नल्स
 आईसी-61691 अजय कांडपाल, ई एम ई
 आईसी-61692 संजीव कुमार संब्रिया, सिग्नल्स
 आईसी-61693 विमल मोहन नैथानी, इन्फैन्ट्री

आईसी-61694 प्रदीप कुमार द्विवेदी, आर्टी
 आईसी-61695 दिलावर सिंह ढाका, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61696 विजेन्द्र सिंह चौहान, सिग्नल्स
 आईसी-61697 सुशांत कुमार मोहपात्रा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61698 नवीन कुमार साह, इंजी
 आईसी-61699 राकेश कुमार सिंह, ए डी आर्टी
 आईसी-61700 संजय कुमार नरवाल, इंजी
 आईसी-61701 संदीप राणा, सिग्नल्स
 आईसी-61702 अरविन्द कुमार तिवारी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61703 जाधव मिलिन्द पांडुरंग, ई एम ई
 आईसी-61704 रमेश सिंह, आर्टी
 आईसी-61705 रितेश कुमार पांडे, ई एम ई
 आईसी-61706 संजीव कुमार नायन, ए ओ सी
 आईसी-61707 पीयूष कुमार शुक्ला, इंजी
 आईसी-61708 अभिनय गुप्ता, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61709 अभय सिंह राठौर, ए सी
 आईसी-61710 जेम्स सामुवेल ए, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61711 विराज गुरंग, आर्टी
 आईसी-61712 विपिन कुमार श्रीवास्तव, ए एस सी
 आईसी-61713 संजीव ठाकुर, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61714 राहुल सिंह, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61715 हिमांशु सभरवाल, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61716 जय विजय सिंह रावत, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61717 क्षितिज भाटिया, ए सी
 आईसी-61718 वैभव जोशी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61719 आरोन कांडपाल, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61720 अनिल कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-61721 राजीव भाटिया, ए ओ सी
 आईसी-61722 अजय पाल कौशल, आर्टी
 आईसी-61723 योगेश झा, ए एस सी
 आईसी-61724 शैलेन्द्र सिंह, आर्टी
 आईसी-61725 विजय सिंह बलहारा, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-61726 अरुण कुमार सिंह राघव, ई एम ई
 आईसी-61727 गुरजीत सिंह, ई एम ई
 आईसी-61728 राहुल गगनेजा, आर्टी

आईसी-61729 एम वी एस एन ए भगवान, ए डी आर्टी	आईसी-61767 एस परवीन कुमार, ई एम ई
आईसी-61730 तनिक सूद, आर्टी	आईसी-61768 मिधुन मुरलीधरन, ए सी
आईसी-61731 प्रशांत सिंह, आर्टी	आईसी-61769 उदित कौसल, ए डी आर्टी
आईसी-61732 रमन यादव, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-61770 हरि राम ओझा, इन्फैन्ट्री
आईसी-61733 रतनपाल सिंह आर्य, ए ओ सी	आईसी-61771 मनोज पठानिया, इन्फैन्ट्री
आईसी-61734 अमित कुमार, सिग्नल्स	आईसी-61772 हर्ष कुमार झा, इन्फैन्ट्री
आईसी-61735 पंकज कुमार उपाध्याय, इंजी	आईसी-61773 यशवंत सिंह राणावत, ए सी
आईसी-61736 सुरेन्द्र सिंह, इंजी	आईसी-61774 रोहिताश कुमार शेओरन, इन्फैन्ट्री
आईसी-61737 अंकुश पठानिया, इन्फैन्ट्री	आईसी-61775 मनीष पुनेठा, ए एस सी
आईसी-61738 तपजीत सिंह दुग्गल, ए सी	आईसी-61776 लुइस रोहन जोज़ेफ रॉबर्ट, इंजी
आईसी-61739 विक्रांत रंगराव मोरे, इन्फैन्ट्री	आईसी-61777 समीर सिंह कुशवाह, इन्फैन्ट्री
आईसी-61740 ए रिचर्ड देवदौस, इन्फैन्ट्री	आईसी-61778 पंकज सिरौही, ए ओ सी
आईसी-61741 हरप्रीत सिंह मनचन्दा, ए एस सी	आईसी-61779 धीरज कुमार, सिग्नल्स
आईसी-61742 विनीत कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-61780 अजय भारद्वाज, इन्फैन्ट्री
आईसी-61743 निर्भय गौतम, ए सी	आईसी-61781 विवेक पाल सिंह, आर्टी
आईसी-61744 अनिल झिंझेरिया, इन्फैन्ट्री	आईसी-61782 विनीत कमल गुप्ता, सिग्नल्स
आईसी-61745 इशान कपूर, इन्फैन्ट्री	आईसी-61783 देवेश वाही, इन्फैन्ट्री
आईसी-61746 अमित कुमार महादेव असवले, इंजी	आईसी-61784 धीरज कुमार त्यागी, ए ओ सी
आईसी-61747 अनुराग प्रकाश, ए सी	आईसी-61785 शिंदे सचिन बाबाजी, इंजी
आईसी-61748 धर्मेन्द्र सिंह, ए डी आर्टी	आईसी-61786 रविन्द्र सिंह, आर्टी
आईसी-61749 समीर मधवाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-61787 नवीन मसीह, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-61750 संजीव कुमार रॉय, इन्फैन्ट्री	आईसी-61788 कुमार शिवम दुबे, सिग्नल्स
आईसी-61751 अंकुर मेहरा, आर्टी	आईसी-61789 नोंगमैथम प्रीतिकुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-61752 बिदेश रंजन दासगुप्ता, इन्फैन्ट्री	आईसी-61790 समीर लांबा, इन्फैन्ट्री
आईसी-61754 गगनदीप गोगिया, आर्टी	आईसी-61791 अमलन चतुर्वेदी, आर्टी
आईसी-61755 सुधीर कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-61792 रितेश कोहली, ई एम ई
आईसी-61756 आशीष बाजपाई, इन्फैन्ट्री	आईसी-61793 मानव शर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-61757 अरुण बेलवाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-61794 संदीप कुमार, आर्टी
आईसी-61759 ए वी आर ए ज्योति भट्टाचारजी, ई एम ई	आईसी-61795 अमित त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री
आईसी-61760 कुलदीप सिंह, आर्टी	आईसी-61796 मुकेश कुमार वर्मा
आईसी-61761 अभिषेक सिंह गौतम, आर्टी	आईसी-61797 अनंजय सलढान्हा
आईसी-61762 ऋषि महाजन, ई एम ई	आईसी-61798 सब्यसाची दाश, आर्टी
आईसी-61763 दीपक बसकंडी, इंजी	आईसी-61799 भूपेन्द्र, इन्फैन्ट्री
आईसी-61765 अतिन टंडन, आर्टी	आईसी-61800 गौरव सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-61766 सरवन कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-61801 अभिनव वशिष्ठ, ए सी

आईसी-61802	विजय रावत, इन्फैन्ट्री	आईसी-61837	प्रवीन कुमार, ई एम ई
आईसी-61803	विशाल शर्मा, इंजी	आईसी-61838	गर्गा दास, आर्टी
आईसी-61804	पीयूष यादव, इंटर	आईसी-61839	रूपिन्दर जीत सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-61805	विजय राणा, इन्फैन्ट्री	आईसी-61840	राजेश चौधरी, इन्फैन्ट्री
आईसी-61806	के एस एच महेश्वर सिंह, ए डी आर्टी	आईसी-61841	ऋषि भनोट, इंजी
आईसी-61807	सावंत संग्राम अनिल, इन्फैन्ट्री	आईसी-61842	रोहित झा, ए डी आर्टी
आईसी-61808	चाप सिंह गहलावत, इन्फैन्ट्री	आईसी-61843	अमनप्रीत सिंह गिल, आर्टी
आईसी-61809	पीयूष बिष्ट, ए एस सी	आईसी-61844	रवि वैश, इन्फैन्ट्री
आईसी-61810	संजीव कुमार, सिग्नल्स	आईसी-61845	लांगोल्जम सुनिन्द्रो सिंह, आर्टी
आईसी-61811	सत्येन्द्र सिंह भोज, इंजी	आईसी-61846	पारितोष मिथल, इन्फैन्ट्री
आईसी-61812	प्रशांत वेलायुधन, आर्टी	आईसी-61847	सतीश कुमार, इंजी
आईसी-61813	अभिषेक खन्ना, इंजी	आईसी-61848	सुरेन्द्र कुमार कौते, इन्फैन्ट्री
आईसी-61814	नवीन चन्द्र जोशी, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-61849	कंवर शैलेन्द्र सिंह, ए ओ सी
आईसी-61815	नरेन्द्र पाल, ए एस सी	आईसी-61850	विवेक शर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-61816	सूर्य प्रकाश सिंह रावत, ई एम ई	आईसी-61851	सुमित शर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-61817	नितिन खजूरिया, इन्फैन्ट्री	आईसी-61852	आर जगथ नारायण, इन्फैन्ट्री
आईसी-61818	कुलविन्दर सिंह मुलतानी, ए ओ सी	आईसी-61853	हर्ष वर्धन पांडे, ए सी
आईसी-61819	पीयूष शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-61854	मनीष बिष्ट, आर्टी
आईसी-61820	विवेक कंडवाल, ई एम ई	आईसी-61855	संदीप दत्ता, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-61821	राहुल मोडिगल, सिग्नल्स	आईसी-61856	सोमबीर सिंह लांबा, इन्फैन्ट्री
आईसी-61822	आशीष कश्यप, आर्टी	आईसी-61857	मनु शुक्ला, आर्टी
आईसी-61823	कोस्तुब दासगुप्ता, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-61858	विपिन प्रधान, इन्फैन्ट्री
आईसी-61824	के के प्रेमदीप, इंजी	आईसी-61859	अनुराग तिवारी, ए डी आर्टी
आईसी-61825	सौरभ तिवारी, आर्टी	आईसी-61860	अमित तेवतिया, इन्फैन्ट्री
आईसी-61826	रोहित प्रकाश राय, सिग्नल्स	आईसी-61861	विक्रम बिष्ट, आर्टी
आईसी-61827	मनीष छेत्री, ए एस सी	आईसी-61862	राजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-61828	विशाल शरण, इंजी	आईसी-61863	मुकेश शर्मा, सिग्नल्स
आईसी-61829	सुमित पन्त, इन्फैन्ट्री	आईसी-61864	गगन शर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-61830	निशित मूरत सिंह ठाकुर, इन्फैन्ट्री	आईसी-61865	पंकज सैनी, इंटर
आईसी-61831	विन्दर सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री	आईसी-61866	मनोज कुमार पंडित, ई एम ई
आईसी-61832	ब्रजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-61867	मुकेश कुमार, इंजी
आईसी-61833	भावदीप कुमार मागो, ई एम ई	आईसी-61868	प्रह्लाद राणा, आर्टी
आईसी-61834	विक्रान्त मेहता, ए सी	आईसी-61869	उज्ज्वल पांचाल, सिग्नल्स
आईसी-61835	प्रवीन जनार्दन हरिदास, सिग्नल्स	आईसी-61870	रूडोल्फ जैकब, इन्फैन्ट्री
आईसी-61836	गौरव कपिला, आर्टी	आईसी-61871	कुणाल मुकर्जी, ए सी

- आईसी-61872 समीर गुंटे, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61873 तरणजीत सिंह, ए एस सी
- आईसी-61874 प्रसून पल्लव, ए डी आर्टी
- आईसी-61875 शशि गोपाल उपाध्याय, ए डी आर्टी
- आईसी-61876 शेलेन्द्र कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61877 सिक्कामा एस, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61878 विरम पाल, मैक इन्फैन्ट्री
- आईसी-61879 संदीप बाना, इंट
- आईसी-61880 जैकब फिलिप, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61881 भुवन कुकरेती, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61882 विकास बधानी, इंजी
- आईसी-61883 रोहित मेनन, आर्टी
- आईसी-61884 देसविंदर सिंह अहलुवालिया, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61885 अज्ञात मनु, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61886 रचित साहनी, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61887 मनीष कुमार सिंह, आर्टी
- आईसी-61888 हिम्मत सिंह ब्राइच, ए सी
- आईसी-61889 हिमांशु अरोड़ा, ए ओ सी
- आईसी-61891 राज कुमार सिंह सेंगर, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61892 दीपक, कुमार, इंजी
- आईसी-61893 इन्दर कुमार गोस्वामी, आर्टी
- आईसी-61894 महेश सूर्यनारायणन, आर्टी
- आईसी-61895 सुनील कुमार सरोज, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61896 निशांत सिंह, सिग्नल्स
- आईसी-61898 किरम कुमार एस मोरबले, ए एस सी
- आईसी-61899 सैलेन्द्र कुमार धीर, आर्टी
- आईसी-61900 मृदुल कांति सिन्हा, ई एम ई
- आईसी-61901 सुमित कुमार मुंशी, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61902 श्री कुमार, ई एम ई
- आईसी-61903 शशांक त्रिपाठी, इंजी
- आईसी-61904 विजय सिंह रावत, ए एस सी
- आईसी-61905 अर्शद जैड सिद्दिकी, आर्टी
- आईसी-61906 संपत कुमार, ए ओ सी
- आईसी-61907 कपिल शर्मा, ए एस सी
- आईसी-61908 विक्रमादित्य सिंह पाल, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61909 सचिit शर्मा, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61910 मनीष तिवारी, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61911 स्वामी सरन भटनागर, सिग्नल्स
- आईसी-61912 एस आनंद सिंह, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61913 मयंक गोयल, ए डी आर्टी
- आईसी-61914 जी वी रमेश कुमार, आर्टी
- आईसी-61915 नागेश ढौंडियाल, ए सी
- आईसी-61916 मुनीष शर्मा, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61917 प्रकाश चन्द्र सिसंगल, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61918 तरुण सिंह, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61919 सुरेश चन्द रमोला, इंजी
- आईसी-61920 डी वी एन रमाकांत, आर्टी
- आईसी-61921 दिलीप नन्दन अग्निहोत्री, मैक इन्फैन्ट्री
- आईसी-61922 नीरज गुप्ता, ए सी
- आईसी-61923 सिद्धार्थ उपाध्याय, सिग्नल्स
- आईसी-61924 रुचिर पांडे, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61925 जीथ राजू, ए ओ सी
- आईसी-61926 कपिल खुल्लर, ई एम ई
- आईसी-61927 शलभ पुलस्त्य, आर्टी
- आईसी-61928 रवीन्द्र कुमार पात्रो, आर्टी
- आईसी-61929 राजेश कुमार, ए एस सी
- आईसी-61930 महिधर धरनी, इंट
- आईसी-61931 राजुल श्रीवास्तव, इंजी
- आईसी-61932 विमल चन्द बौद्ध, ई एम ई
- आईसी-61933 पी वी एस सुधीर कुमार, सिग्नल्स
- आईसी-61934 भूपेन्द्र पाल सिंह, ए एस सी
- आईसी-61936 राज प्रवीण सिंह, ए डी आर्टी
- आईसी-61937 दिवाकर कपूर, आर्टी
- आईसी-61938 रुपिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61939 सोरव बनर्जी, ए ओ सी
- आईसी-61940 शौर्य वर्धन, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61941 अतुल श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61942 हर अगम पाल सिंह, आर्टी
- आईसी-61943 मौलिन बी मर्थक, इन्फैन्ट्री
- आईसी-61944 वृजेश शर्मा, इन्फैन्ट्री

आईसी-61945 बिजुमोनि कौवर, इन्फैन्ट्री	आईसी-63748 अनूप वी पिल्लै, ए डी आर्टी
आईसी-61946 नितिन तिवारी, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-63749 हरीश कुमार स्पोलिया, ए सी
आईसी-61947 जितेन्द्र कुमार सैनी, सिग्नल्स	आईसी-63750 दलिपार्ती श्रीकांथ, इंजी
आईसी-61948 प्रदीप सिंह, ए सी	आईसी-63751 अजय कुमार, इंट
आईसी-61949 प्रमोद कंड्याल, इन्फैन्ट्री	आईसी-63752 पी रद्वीप आर वी, सिग्नल्स
आईसी-61950 राहुल सक्सेना, इन्फैन्ट्री	आईसी-63753 अभिषेक कुमार, ए डी आर्टी
आईसी-61952 अनुपम राय, इन्फैन्ट्री	आईसी-63754 चिंताचूरी हनुमन्था राव, इंजी
आईसी-61953 अखिलेश कुमार पाल, इंजी	आईसी-63755 अंगशुमन चक्रवर्ती, सिग्नल्स
आईसी-61955 सौरभ कुमार भट्टाचार्य, इन्फैन्ट्री	आईसी-63756 सुरेश नारायण त्रिपाठी, ए डी आर्टी
आईसी-61956 रीत रे, आर्टी	आईसी-63757 सौरभ मोदी, ए सी
आईसी-61957 साहेल कोचर, ए सी	आईसी-63758 सिद्धार्थ आचार्य, आर्टी
आईसी-61958 मोहित पुरी, आर्टी	आईसी-63760 बसव राज, ई एम ई
आईसी-61959 अनन्त सौरभ, आर्टी	
आईसी-61960 भूपेन्द्र सिंह रावत, इन्फैन्ट्री	
आईसी-63724 अनुराग शर्मा, सिग्नल्स	
आईसी-63725 उमाशंकर, इंजी	
आईसी-63726 कंवरजीत सिंह, सिग्नल्स	
आईसी-63727 आशीष शोरण, ए डी आर्टी	
आईसी-63729 हरिंदर सिंह सुहाग, आर्टी	
आईसी-63730 विकास सिंह राणा, ई एम ई	
आईसी-63731 जसदीप सिंह, ई एम ई	
आईसी-63732 संजय कुमार पांडे, ए डी आर्टी	
आईसी-63733 अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, ए डी आर्टी	
आईसी-63734 आरु समीर, आर्टी	
आईसी-63735 रवि किरण तोमर, इंजी	
आईसी-63737 सी सैथिल कुमारन, सिग्नल्स	
आईसी-63738 विजय धनखड़, इंजी	
आईसी-63739 कुदाले अमित श्रीकांत, ई एम ई	
आईसी-63740 राघवेंद्र अग्रवाल, इंट	
आईसी-63741 मनोप, इंजी	
आईसी-63742 देवेन दत्ता, ए डी आर्टी	
आईसी-63743 सुनील कुमार, आर्टी	
आईसी-63744 के वी वी पी एस निर्बान, इंजी	
आईसी-63746 मयंक सोनी, ई एम ई	
आईसी-63747 सुरेश महलौत, इंजी	

--16 दिसम्बर 2004

चन्द्र प्रकाश
उपनिदेशक
एमएस 8-सी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 517, दिनांक 3 अक्टूबर 2005 -- राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नत करते हैं :--

निम्नलिखित वैज्ञानिक 'बी' को उनके नाम के सामने दर्शाये गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में वैज्ञानिक 'सी' के रूप में वेतनमान रु. 10,000-325-15,200 पर :--

नाम	स्थापना	दिनांक
श्री वीरेन्द्र कुमार महला	टी बी आर एल चण्डीगढ़	11 जुलाई 2005
श्री रजवन्त राय	-वही-	01 जुलाई 2005
श्री राज कुमार भारद्वाज	-वही-	-वही-
श्री इन्दरपाल सिंह सन्धु	-वही-	-वही-
श्रीमती शालू गुप्ता	-वही-	-वही-
डा. वन्दना पठानिया	-वही-	-वही-
मि. रीतू बेदी	-वही-	-वही-
मि. रेखा चन्द्र	लासटेक, दिल्ली	-वही-
श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता	-वही-	-वही-
मि. नीना सती	-वही-	-वही-
श्री सुधब्रदा मजूमदार	-वही-	-वही-
श्री भवानी सिंह सोलंकी	-वही-	-वही-

नाम	स्थापना	दिनांक
श्री संजीव कुमार	लासटेक, दिल्ली	01 जुलाई 2005
श्री अपूर्व धवन	-वही-	-वही-
श्री मनीश बंसल	-वही-	-वही-
डा. अमित प्रताप	-वही-	-वही-
श्री हरीशचन्द्र भगवन्त थिगाले	वी आर डी ई अहमदनगर	-वही-
श्री बिन्नीमी सिंह	-वही-	-वही-
श्री पिंजरी वनूर वल्ली	-वही-	-वही-
श्री सूर्यनारायण चल्ला	-वही-	-वही-
श्री विनोद कुमार	इनमास, दिल्ली	-वही-
डा. रश्मी अग्रवाल	-वही-	-वही-
श्री राकेश कुमार साहू	आर ए सी, दिल्ली	-वही-
श्री गुरजीत सिंह वालिया	एस ए जी, दिल्ली	-वही-
श्री आनन्द शर्मा	-वही-	-वही-
श्री राम आशीष चौक्से	एस एस पी एल दिल्ली	-वही-
श्री फाहिम	-वही-	04 जुलाई 2005
श्री पूर्णन्दु चतुर्वेदी	-वही-	01 जुलाई 2005
श्री शंकर दत्ता	-वही-	-वही-
मि. वन्या श्रीवास्तव	एस एस पी एल दिल्ली	01 जुलाई 2005
डा. (श्रीमती) प्रतिष्ठा टी पाण्डे	-वही-	-वही-
श्री नीरज कुमार	डी आर डी ओ मुख्यालय/ डी एन आर डी	-वही-
श्री गोपाल मीना	डी आर डी ओ मुख्यालय/ डी ई सी एस	-वही-
डा. एन.मोहन	सीफीस, दिल्ली	-वही-
श्री जग प्रवेश	-वही-	-वही-

जे के खडवाल
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

वायु सेना

सं. 518, दिनांक 04 अक्टूबर 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियों
मूल रैंक में करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

उड़ान पायलट शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टेन (टाईम स्केल) रैंक में

वी मल्ला (13791), के के कुरुविता (13929), एम मिश्रा
(13938), वी एस धर्मजीत (13942), वी टी देशमुख (14569).

पी सिंह (14694), बी एस दौलता (13915), दिनांक 16 दिसम्बर
2004 से।

वैमानिक अभियांत्रिकी (मेकेनिकल) शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टेन (टाईम स्केल) रैंक में

एन के कृष्णन (15258), आर एस सचदेव (15801), सी एस
नारायणामूर्ति (14631), एस एम कुलकर्णी (15483), डी मागोन
(14188), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

वैमानिक अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रिकल) शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टेन (टाईम स्केल) रैंक में

एस एस के मूर्ति (14134), जे एस मिन्हास (14162), एम बोस
(16150), एन पी सेवतकर (14331), वी एस गुप्ता (15291), बी जे
एस भाटी (13467), आर पण्डित (14127), एन एस चहल (14589),
ए पी ठाकुर (14791), सी एम सेठ (14181), सत्या प्रकाश (15112),
टी एस रन्धावा (14179), टी एस वेंकटरमन (15096), दिनांक 16 दिसम्बर
2004 से।

प्रशासनिक शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टेन (टाईम स्केल) रैंक में

एस एम हबले (13523), एस के घोस (13668), जी एस पाठक
(13883), के के सिन्हा (13663), जी पाण्डेय (15246), पी के बरारा
(13662) आर के रस्तोगी (13634), एस चक्रवर्ती (14033), एन पी
वर्मा (13642), एस पी सिन्हा (14044), के कृष्णामूर्ति (13687), यू के
डे (13239), एम आर एन राव (13869), एस बासु (14039), वी सी
सिराक (13669), ए चटर्जी (13868), पी पी शर्मा (14042), वी
जायसवाल (14037), एन सिंह (13238), पी सिंह (13644), दिनांक
16 दिसम्बर 2004 से।

परिभारिकी शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टेन (टाईम स्केल) रैंक में

जी एस दलाल (13431), पी के गोस्वामी (14059), डी दत्ता
(13435), जे एस कलसी (13416) दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

लेखा शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टेन (टाईम स्केल) रैंक में

डी सी राव (14072), ए पाल (13693), एस के शिन्दे (14067),
एम सी सिंघल (13682), आर पी जी नायडु (13692) दिनांक 16 दिसम्बर
2004 से।

मौसम शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टेन (टाईम स्केल) रैंक में

ए कुमार (13012), ए सी शर्मा (13014), ओ पी गुप्ता (13017),
अनूप जेरथ (12565) दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

उड़ान (नेवीगेशन) शाखा	प्रशासनिक शाखा
विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टेन (टाईम स्केल) रैंक में पी जे सिंह (15580) दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।	स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में जे सिंह (बीसी-19595), के एस पालिया (21301), के कुमार (बीसी-20409), ताराचन्द (बीसी-20412), जे तिवारी (बीसी-20405), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।
वैमानिक अभियांत्रिकी मैकेनिकल शाखा विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टेन (टाईम स्केल) रैंक में जी एस चड्ढा (15475), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।	एस शर्मा (बीसी-21698), जी आर ददेवाल (बीसी-21704), डी एस अत्री (बीसी-21705), एस एल कोजरा (बीसी-21692), दिनांक 01 फरवरी 2005 से।
वैमानिक अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रिकल) शाखा विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टेन (टाईम स्केल) रैंक में जे वी बोपारीकर (15651), बी आर दास (15974), पी वी सिंह (15621), एन एस प्रसाद (15814), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।	परिभारिकी शाखा स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में जी बरुआ (16853) दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।
प्रशासनिक शाखा विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टेन (टाईम स्केल) रैंक में आर एस आपटे (14372), डी पी वर्मा (14502) डी वर्मा (14571), के पी एस उपाध्याय (14932), एस पी सिन्हा (15235), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।	लेखा शाखा स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में के डी शर्मा (बीसी-21068) दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।
परिभारिकी शाखा विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टेन (टाईम स्केल) रैंक में आर कपूर (14050), डी के नागर (14520) दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।	शिक्षा शाखा स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में एस एस बानिक (बीसी-18994), दौलतराम (18993), एस चतुर्वेदी (19622), डी एन रॉय (19624), एस आई मुथु (20433), बी एस वालिया (बीसी-20430), के सिंह (17397), पी पी एस कृष्णामूर्ति (बीसी-20431), बी डी गुहा (20436), पी बी अकलकोट (बीसी-21074), आर डी राम (बीसी-21070), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।
वैमानिक अभियांत्रिकी मैकेनिकल शाखा स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में बिब सिंह (बीसी-18942), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।	मौसम शाखा स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में ए सिंह (बीसी-21715) दिनांक 01 फरवरी 2005 से।
वैमानिक अभियांत्रिकी इलेक्ट्रिकल शाखा स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में आर ई कुशवाह (बीसी-19302), बी एम केशरवानी (बीसी-20545), डी सी जालोडिया (बीसी-21062), एन सिंह (बीसी-19281), एस एस चटरथ (बीसी-19288), एस एन झा (बीसी-19783), डी सिंह (बीसी-19760), बी एस नायर (बीसी-19265), जी राम (बीसी-19287), एन चाँद (बीसी-19297), आर डी शर्मा (बीसी-19790), बी सिंह (बीसी-20537), एच एस डोगरा (बीसी-21061), बी नारायण (बीसी-19766), एम इकबाल (बीसी-19761), एम एम एन कृष्णन (बीसी-19764), पी के चक्रवर्ती (बीसी-19294), बी सिंह (बीसी-19296), एस एन पाण्डेय (बीसी-21054), बी एस चाहर (बीसी-19758), जी आर चुम्बर (बीसी-20535), टी जी भासी (बीसी-19286), रामलाल (बीसी-19781), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।	उड़ान पायलट शाखा फ्लाइंट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में ए विज (24173) दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।
एस जी मोहुदीन (बीसी-21679) दिनांक 02 फरवरी 2005 से।	वैमानिक अभियांत्रिकी मैकेनिकल शाखा फ्लाइंट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में एन आर दास (24861) दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।
	वैमानिक अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रिकल) शाखा फ्लाइंट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में एन नारायणन (24133), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।
	प्रशासनिक शाखा फ्लाइंट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में वी वेंकटधरी (23612) दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

पी के शर्मा (बीसी-22304), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

उड़ान पायलट शाखा

स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में

आर के भाटिया (17179), भाग चन्द (18286), एन डी कालरा (20148), यू कुण्डु (21010), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

प्रशासनिक शाखा

स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में

टी पी हरिप्रसाद (17036), एस एस जोशी (17382), आई एस एस राजु (17389), ए चाण्डला (17393), एस एस बिष्ट (17490), एम नारायणन (17502), एम सी पाण्डेय (17772), एस एन केदारीनाथ (17881), एम एस सोनरीवाल (18601), 16 दिसम्बर 2004 से।

परिभारिकी शाखा

स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में

टी पी एस अरोड़ा (16973), पी के डुडेजा (16991), ए भट्टाचार्या (17775), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

लेखा शाखा

स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में

एस दुग्गल (17918), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

संजीव श्रीवास्तव
विंग कमाण्डर
जेडीपीओ 3 (डी)

(थल सेना विभाग)

सं. 519, दिनांक 04 अक्टूबर, 2005--राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 15/79 के अधीन निम्नलिखित अधिकारियों को थल सेना से सेवा निवृत्त करते हैं :-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

निवृत्ति

डीएस-11855एच मेजर (मिसेज) चेतना मोहन, 25 दिसम्बर 2004(अप)

डीएस-11854ए मेजर (मिसेज) के एस राय, 21 जनवरी 2005 (पूर्वा.)

डीएस-12005एल मेजर ऋषि कुमार सिंघल, 28 फरवरी 2005 (अप.)

डीएस-12007डब्ल्यू मेजर (मिस) रितू कौशल, 07 मार्च 2005 (अप.)

डीएस-12008वाई मेजर जनार्धना प्रताप आर, 09 मार्च 2005 (अप.)

डीएस-12009एफ मेजर (मिस) सोनाली सहाय, 10 मार्च 2005 (अप.)

डीएस-12013के मेजर विक्रान्त वालिया, 17 अप्रैल 2005 (पूर्वा.)

डीएस-12016एक्स मेजर अभिनव मिसूरिया, 14 मई 2005 (अप.)

डीएस-11862वाई मेजर (मिस) शशी कटोच, 29 मई 2005 (अप.)

परमजीत सिंह
मेजर जनरल
ए डी जी डी एस

थल सेना विभाग

शुद्धि पत्र

सं. 520 दिनांक 28 सितम्बर 2005--भारत के राजपत्र संख्या 19 दिनांक 07 मई 2005, में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 231 दिनांक 04 अप्रैल 2005, [भाग 1 अनुभाग 4], शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक रक्षा तथा सुरक्षा कोर, सबस्टेंटिव सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में :-

के स्थान पर --नायब सूबेदार भास्करन नम्बियार कुञ्जुकुनोन ओथायोथ (जेसी-141605एल), 01 अगस्त 2004

पढ़ा जाय-- सूबेदार भास्करन नम्बियार कुञ्जुकुनोन ओथायोथ (जेसी-141605एल), 01 अगस्त 2004

टी के एम पिल्लै
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 29th October 2005

ARMY BRANCH

No. 508, dated 3rd October 2005.—The President is pleased to make the following appointments under the provisions of SAI 7/S/66 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned SSCOs are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 04 Mar 05 with seniority for promotion and increments of pay from 08 May 98 on relinquishing their SSC wef 04 Mar 05. Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain same as allocated in GN for grant SSC.

SS No., IC No., Name & Arm/Service

SS38280 IC-64811M Mahadik Jayandra Suresh, Engrs
 SS38287 IC-64812P Brajesh Niranjani, Sigs
 SS38278 IC-64813X Sandeep Totlani, Engrs
 SS38290 IC-64814A Anand Prakash Gupta, EME
 SS38277 IC-64815H Devender Singh Rohilla, EME
 SS38288 IC-64816L Harjeet Singh Sethi, Sigs
 SS38279 IC-64817N Roshan B Appanna, Sigs
 SS38284 IC-64818W Om Hazela, Sigs

The President is pleased to make the following appointments under the provision of AI 3/S/70 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned SSCOs are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 04 Sep 2004 with seniority for promotion from 04 May 2000 but for increments of pay from 04 Sep 1999 on relinquishing their SSC wef 04 Sep 2004. Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in GN for grant of SSC.

SS No., IC No., Name & Arm/Service

SS37974 IC-56320F Vishal Mundhar, AC
 SS37975 IC-56321K Krishnadas TR, Inf
 SS37976 IC-56322M Manjeer Katoch, Inf
 SS37977 IC-56323P Sanjay Bhatia, Engrs
 SS37978 IC-56324X Dhanraj Singh Cheema, Arty
 SS37979 IC-56325A Rajendra Khattri, Engrs
 SS37980 IC-56326H Vikas Sadhotra, AD Arty
 SS37981 IC-56327L Sangram Singh Rathore, ASC
 SS37982 IC-56328N Charan Preet Singh, Inf
 SS37984 IC-56329W Lalit Kumar, Inf

SS37987 IC-56330L Vikramjeet Singh, Inf

SS37988 IC-56331N Sartaa Singh Sidhu, Arty

SS37989 IC-56332W Arun Kumar Singh, Mech

SS37990 IC-56333Y Ajay Kumar, Inf

SS37993 IC-56334F Rajagopal Chakraborty, Inf

SS37994 IC-56335K Rahul Singh, Arty

SS37995 IC-56336M Saurabh Ramachandran, AD Arty

SS37996 IC-56337P Praveen Jain, EME

SS37997 IC-56338X Mritunjay Upadhyaya, Inf

SS38001 IC-56339A Ashish Mohan Agarwal, AC

SS38002 IC-56340P Digvijay Singh Hada, Arty

SS38003 IC-56341X Anup Thapa, Inf

SS38005 IC-56342A Ranjeet Kumar, AOC

SS38006 IC-56343H Padala Chandra Shekhar, Inf

SS38008 IC-56344L Harish Semwal, Int

SS38009 IC-56345N Himanshu Rawat, Inf

SS38010 IC-56346W Vinay Chand, Sigs

SS38011 IC-56347Y Ritesh Sharma, Inf

SS38012 IC-56348F Deepak Kataria, Inf

SS38014 IC-56350Y Bal Bahadur Pun, Inf

SS38015 IC-56351F Malay Saurav Choudhary, Mech

SS38018 IC-56353H Rajesh Grover, Inf

SS38021 IC-56354P Ajay Singh Yadav, AD Arty

SS38022 IC-56355X Maninder Deep Singh, AC

SS38025 IC-56357H Vikas Vashista, Inf

SS38026 IC-56358L Vineet Kumar Gupta, Inf

SS38027 IC-56359N Nirmal Bhatnagar, ASC

SS38028 IC-56360H Dilip Kumar Pradhan, AD Arty

SS38030 IC-56361L Raj Kumar Panda, Arty

SS38031 IC-56362N Ranjit Mathew, Inf

SS38032 IC-56363W Sameir Raina, Inf

SS38033 IC-56364Y Rajeev Bharwan, Inf

SS38034 IC-56365F Vishesh Kumar Sharma, EME

SS38038 IC-56366K Paonam Romesh Singh, Inf

SS38040 IC-56368P Chandr Shekhar, Inf

SS38041 IC-56369X Meetesh Khajuria, Inf

SS38042 IC-56370M Sunil Kumar Singh, AC

SS38043 IC-56371P Sanjay Khan, Arty

SS38044 IC-56372X Radhakrishnan Rajah, Inf

SS38045 IC-56373A Prashant Mishra, Inf	SS38105 IC-56416K Sanjay Jain, AC
SS38046 IC-56374H Rajpal Singh, Inf	SS38109 IC-56417M Samrat Sengupta, Inf
SS38047 IC-56375L Umeshwar Singh, AD Arty	SS38110 IC-56418P Ashutosh Sinha, ASC
SS38048 IC-56376N Kelkar Pushpak Sudhir, Arty	SS38114 IC-56419X Praveen Kumar, Inf
SS38049 IC-56377W Gurminder Pal Singh, EME	SS38115 IC-56420M Ravi Patney, Engrs
SS38052 IC-56378Y Akoijam Jayanta, Arty	SS38117 IC-56421P K Sanath, Sigs
SS38053 IC-56379F Sanjay Patil, Arty	SS38118 IC-56422X Deepak Kumar Joshi, Inf
SS38054 IC-56380W Venkatesh Prasad, Arty	SS38120 IC-56424H Sourav Pal, Inf
SS38055 IC-56381Y Bulbul Bhuyan, Inf	SS38122 IC-56425L Rahul Arya, Inf
SS38056 IC-56382F Ashish Panwar, AC	SS38123 IC-56426N Digvijay Singh Bisht, Arty
SS38058 IC-56383K Varendra Paul Singh, AC	SS38125 IC-56428Y Mohinder Kumar Shan, Inf
SS38060 IC-56384M Vinod PK, Sigs	SS38128 IC-56431Y Kanwaljit Singh Bajwa, Int
SS38062 IC-56385P Hardeep Singh Grewal, Inf	SS38130 IC-56432F Arvind Saini, Inf
SS38063 IC-56386X Umrao Singh Tanwar, Arty	SS38134 IC-56436X Mehinder Kumar, Arty
SS38064 IC-56387A Shailesh Sharma, Engrs	SS38135 IC-56437A Neelotpal Tyagi, Inf
SS38066 IC-56388H Mrityunjay Kumar Upadhyay, Mech	SS38136 IC-56438H Rajesh Kumar Singh, Inf
SS38067 IC-56389L Pushpender Singh Ranawat, Inf	SS38137 IC-56439L Puneet Sharma, AC
SS38068 IC-56390A Prabhat Kumar Mishra, Inf	SS38138 IC-56440A Pushpendra Gohil, Inf
SS38069 IC-56391H Surjeet Lakra, ASC	SS38139 IC-56441H Imon Mukerjee, Inf
SS38070 IC-56392L Sanjay Kumar, Inf	SS38140 IC-56442L Vishal Chaudhary, Inf
SS38071 IC-56393N Praveen Kumar Sharma, AD Arty	SS38141 IC-56443N Nitin Mudgal, Inf
SS38072 IC-56394W Sanjeev Bajpai, Inf	SS38143 IC-56444W Vikram Raje Bhosale, Mech
SS38073 IC-56395Y Shantanu Dey, Inf	SS38146 IC-56445Y Pankaj Shukla, Arty
SS38075 IC-56396F Amit Rathi, AC	SS38148 IC-56446F Hari K Nair, Arty
SS38076 IC-56397K Varun Bhartiya, Arty	SS38149 IC-56447K Anand Kumar Singh, Inf
SS38077 IC-56398M Gaurav Singh Thakur, Arty	SS38150 IC-56448M Devendra Kumar, Inf
SS38078 IC-56399P Deepak Kumar Pandey, EME	SS38151 IC-56449P Sanjay Arya, Inf
SS38079 IC-56400Y Birinder Singh Kular, AC	SS38153 IC-56450K Ravi Kumar, Inf
SS38081 IC-56402K Sultan Singh, Engrs	SS38156 IC-56452P Clinton Reuben, Inf
SS38083 IC-56404P Abhishek Koushik, Mech	SS38158 IC-56454A Baljit Singh, ASC
SS38086 IC-56406A D'Souza Xavier Diogo, Arty	SS38160 IC-56456L Rupinder Singh, Arty
SS38087 IC-56407H Praveen Singh Bisht, Engrs	SS38161 IC-56457N Darshan Sachdeva, Inf
SS38091 IC-56408L Bhartinder Singh Mann, Inf	SS38162 IC-56458W Niren Sudhir Deshpande, Arty
SS38092 IC-56409N Pramod Kumar Chaudhary, Inf	SS38165 IC-56460N Gautam Jha, AC
SS38095 IC-56410H Navdeep Goswami, Inf	SS38168 IC-56462Y Abhimanyu S Rathore, Inf
SS38096 IC-56411L C Sabrinath, Arty	SS38174 IC-56464K Vinit Narayan, Inf
SS38097 IC-56412N Narinder Pal Singh, AD Arty	SS38175 IC-56465M Debashish Datta, Sigs
SS38098 IC-56413W Akash Singh, Inf	SS38176 IC-56466P Rachit Rawat, Inf
SS38101 IC-56415F Dhruv Singh Upahia, EME	SS38178 IC-56467X Pranav Aukta, AC

SS38180 IC-56469H Rakesh Kumar, AD Arty	SS38320 IC-64841K Mukesh Kumar Panjiyar, AD Arty
SS38181 IC-56470X Imon Samanta, Inf	SS38321 IC-64842M Digvijay Singh Chauhan, AC
SS38186 IC-56472H Amresh Singh Khangarot, Inf	SS38322 IC-64843P Rajnish Dey, EME
SS38187 IC-56473L Rajni Kant, ASC	SS38323 IC-64844X Shakun Kamboj, EME
SS38188 IC-56474N Manik Pathania, EME	SS38325 IC-64845A Rahul Sethi, Arty
SS38189 IC-56475W Gaurav Kumar Mishra, Arty	SS38326 IC-64846H Shailendra Gurung, Arty
SS38190 IC-56476Y P Anand Thampi, Arty	SS38329 IC-64847L Vishal Rai, Inf
SS38193 IC-56477F Vineet Kumar Sharma, AOC	SS38330 IC-64848N Sovan Dutta, Mech
SS38194 IC-56478K Suraj Subba, Inf	SS38332 IC-64850L Sudhir K. Chhikara, Inf
SS38197 IC-56481K Abhijit Mukherjee, AD Arty	SS38333 IC-64851N TG Rajesh, AD Arty
SS38198 IC-56482M Akash Khanna, AC	SS38334 IC-64852W Harish Chand Gupta, AC
SS38201 IC-56484X Neeraj Kumar, Sigs	SS38335 IC-64853Y Sangi Reddy Hemanth Nath, Inf
SS38204 IC-56487L Rohit Rasaily, Arty	SS38340 IC-64856M Ravinder Bhatt, Arty
SS38209 IC-56490L Ashish Krishna, Arty	SS38341 IC-64857P Vivek Nepane, Int
	SS38342 IC-64858X Kamal Kishore Mahajan, Engrs
	SS38344 IC-64859A Vishal Singh, Inf
	SS38345 IC-64860P Swaraj Bhattacharya, Inf
	SS38346 IC-64861X Prachetan Gahatraj, Inf
	SS38350 IC-64862A Vikram, Inf
	SS38353 IC-64864L Nikhil B Pandey, Engrs
	SS38354 IC-64865N Vijay Kumar Barala, Inf
	SS38355 IC-64866W Vinay Rajan, Arty
	SS38356 IC-64867Y Jaideep Krishan, AC
	SS38357 IC-64868F Rajeev Dhingra, Engrs
	SS38358 IC-64869K Anthony Selvakumar, Engrs
	SS38359 IC-64870Y Amit Bhagi, Inf
	SS38360 IC-64871F Johnson Joseph, AD Arty
	SS38361 IC-64872K Deepesh Sable, Inf
	SS38362 IC-64873M Vishal Saxena, Arty
	SS38364 IC-64875X John Philip, Arty
	SS38367 IC-64877H Akash Jyoti Gogoi, ASC
	SS38368 IC-64878L Tusheir Parey, Inf
	SS38372 IC-64881L Rajat Sood, Inf
	SS38374 IC-64882N Deshpande Pankaj Harish, AD Arty
	SS38377 IC-64883W Rajeev Kumar, Inf
	SS38378 IC-64884Y DV Santosh Meher, Arty
	SS38380 IC-64885F Glenn Pereira, Arty
	SS38381 IC-64886K Mayank Bahuguna, Engrs
	SS38383 IC-64887M Charanjit Singh Chaudhary, Inf

The undermentioned SSCOs are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 04 Mar 05 with seniority for promotion from 04 Nov 2000 but for increments of pay from 04 Mar 2000 on relinquishing their SSC wef 04 Mar 05. Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in GN for grant of SSC.

SS No., IC No., Name & Arm/Service

SS38291 IC-64821W Anurag, AD Arty
SS38293 IC-64822Y Utpal Shridhar More, Arty
SS38294 IC-64823F Jagdeep Singh Kapur, Mech
SS38296 IC-64824K Kuldip Kumar, Inf
SS38298 IC-64826P Harmandeep Singh Grewal, Inf
SS38299 IC-64827X Manish Sanga, Inf
SS38300 IC-64828A Ajay Pal Singh, Inf
SS38302 IC-64829H Manoj Rathee, AC
SS38304 IC-64830X Ramesh Kumar Ranwa, Arty
SS38305 IC-64831A Bhoraskar Rahul Vasant, Inf
SS38306 IC-64832H Anand SV, Engrs
SS38307 IC-64833L Sanjay Kumar, Engrs
SS38310 IC-64834N Chaudhari Amol Ajeya, Inf
SS38311 IC-64835W Sanjeev Sharma, Inf
SS38312 IC-64836Y Dharmendra Tyagi, Inf
SS38313 IC-64837F Rajesh Parmar, Inf
SS38316 IC-64838K Kishore Srivastava, Arty
SS38317 IC-64839M Kuneek Faujdar, Arty
SS38319 IC-64840F Alok Shukla, Arty

SS38384 IC-64888P Rajesh Kumar Tripathi, Arty
 SS38385 IC-64889X Arjun Rao, Inf
 SS38386 IC-64890M R Chandrakanth, Engrs
 SS38391 IC-64893A Amitendra Kant Singh, Arty
 SS38392 IC-64894H Sandeep Singh, Inf
 SS38394 IC-64896N Krishnakanth P, Inf
 SS38395 IC-64897W Archiev Thapa, Inf
 SS38396 IC-64898Y Yogesh Sharma, Sigs
 SS38399 IC-64900L Mohd Tabrez, Mech
 SS38401 IC-64902W Adarsh Kumar Singh, Inf
 SS38402 IC-64903Y Karandeep Singh Badalia, Inf
 SS38403 IC-64904F Prabhat Sharma, AD Arty
 SS38406 IC-64906M Harshvir Singh, Inf
 SS38410 IC-64909A Suresh P, Arty
 SS38411 IC-64910P K Vijaykumar Nair, AC
 SS38412 IC-64911X Ravi Vyas, Inf
 SS38414 IC-64913H Nagendra Prasad, EME
 SS38415 IC-64914L Vir Vikram Singh, Arty
 SS38416 IC-64915N Sumeet Sharma, Arty
 SS38417 IC-64916W Rudra Narayan Singh, AD Arty
 SS38418 IC-64917Y Ajai Grewal, AC
 SS38419 IC-64918F Kundan Thakuri, Inf
 SS38420 IC-64919K Siddharth Singh Viridi, Inf
 SS38422 IC-64920Y Siddharth Mukherji, Inf
 SS38424 IC-64921F Anubhav Sharma, ASC
 SS38425 IC-64922K Mohan Kumar, Sigs
 SS38429 IC-64925X Rohit Negi, Inf
 SS38431 IC-64926A Prashant Kumar, Arty
 SS38432 IC-64927H Ganesh Natarajan, Inf
 SS38433 IC-64928L Dig Vijay Singh Pathania, Inf
 SS38434 IC-64929N Navdeep Singh Bedi, Inf
 SS38436 IC-64930H Sharma Tarun Kuldeepak, Arty
 SS38437 IC-64931L Prasad Santosh Krishna, Arty
 SS38445 IC-64933W Girish P, Mech

The under mentioned SSCOs are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 05 Sep 03 with seniority for promotion from 05 May 99 but for increments of pay from 05 Sep 98 on relinquishing their SSC wef 05 Sep 03. Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in GN for grant of SSC.

SS No., IC No., Name & Arm/Service

SS37464 IC-56061K Hari Bahadur Thapa, Inf
 SS37547 IC-56124F Vivek Bhandari, Inf

The under mentioned SSCOs are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 05 Sep 03 with seniority for promotion from 05 May 99 but for increments of pay from 05 Sep 98 on relinquishing their SSC wef 05 Sep 03. Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in GN for grant of SSC.

SS No., IC No., Name & Arm/Service

SS37517 IC-56103L Narendar Singh Rautela, Inf
 SS37566 IC-56138F Ashok Kumar Maharana, AD Arty

The President is pleased to make the following appointments under the provisions of SAI 3/S/70 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The under mentioned SSCOs are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 05 Sep 02 with seniority for promotion from 05 May 98 but for increments of pay from 05 Sep 97 on relinquishing their SSC wef 05 Sep 02. Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in GN for grant of SSC.

SS No., IC No., Name & Arm/Service

SS37071 IC-55845Y Mohite Samir Narayan, AOC
 SS37090 IC-55949A Arun Bara, Inf
 SS37108 IC-55874N Manish Kumar Gosain, Inf
 SS37132 IC-55891N Rakesh Hamdard, Inf
 SS37147 IC-55900K Amit Vikram Singh, Arty
 SS37189 IC-55924N Lakshman Singh Chauhan, Inf

The President is pleased to make the following appointments under the provisions of SAI 3/S/70 as amended and AI 12/2001 :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The under mentioned SSCOs are granted Permanent Commission wef 26 May 04 in the rank of Lt under the provision of SAI 3/S/70 as amended; but for increments of pay from 24 Aug 96, on relinquishing their SSC wef 26 May 04. The date of seniority for promotion is 24 Apr 98 under the provision of AI 12/2001 after giving the loss of seniority for one year with respect to the seniority granted to the batch, due to their opting for grant of permanent commission in the seventh year of their service. Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in GN for grant of SSC.

SS No., IC No., Name & Arm/Service

SS36746 IC-55743H Dhirender Malik, Inf

SS36785 IC-55744L Vikas Sharma, Sigs

SS36825 IC-55745N Asit Kumar Mohanty, Mech

SS36867 IC-55746W Rajesh Rawat, Inf

The undermentioned SSCO/SSCOs is/are granted Permanent Commission wef 24 Nov 2003 in the rank of Lt under the provision of SAI 3/S/70 as amended; but for increments of pay from 09 Mar 96, on relinquished his SSC wef 24 Nov 2003. The date of seniority for promotion is 09 Nov 97 under the provision of AI 12/2001 after giving the loss of seniority for one year with respect to the seniority granted to the batch, due to his/their opting for grant of permanent commission in the seventh year of his service. His/Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in GN for grant of SSC.

SS No., IC No., Name & Arm/Service

SS-36595 IC-55628H Rajeev Sharma, Inf

SS-36617 IC-55630A Ashoo Khosla, AC

SS-36683 IC-55631H Arun Pal Singh, AC

MLN SRAVAN KUMAR
Col
Col MS (R&PR)

No. 509, dated 4th October 2005.—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt

The undermentioned officers of SSC (Tech)-21 Course were granted Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the terms and conditions of AI 1/93. Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of five years wef 17 Sep 2004. They have also been granted two year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 17 Sep 2002 under SAI 1/S/94 as amended :—

Joydipta Bose (SS-40826W), Sigs with seniority next below Lt Shaikh Akram Mujeeb (SS-40825N), Engrs, Agashe Bipin Vinay (SS-40840H), Engrs with seniority next below Lt Karthik P (SS-40839N), Sigs and Vinay Kumar Sharma (SS-40846K), Sigs with seniority next below Lt Shanmughanathan V B (SS-40845F), Sigs whose names appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 02 Jul 2005.

The undermentioned Lady Cadets of WSES(O)-24 Course have completed Special Short Service Commission (on

probation) for six months commencing from 17 Sep 2004. They are granted Short Service Commission in the rank of Lt for a period of five years wef 17 Sep 2004 under the provisions of SAI 1/S/92 as amended :—

Babita (WS-00939W), AEC with seniority next below to Lt Sapna Rathi (WS-00938N), Engrs, Sujata Mandotra (WS-00964P), ADA with seniority next below to Lt Divya Garg (WS-00963M), EME, Jagtap Saily Nandkumar (WS-00966A), Engrs with seniority next below to Lt Neha Bhatia (WS-00965X), Engrs, Rajshri (WS-00976K), JAG with seniority next below to Lt Dolly (WS-00975F), ASC and Himani Thapliyal (WS-00955N), Engrs with seniority next below to Lt Romana Khan (WS-00954L), AOC whose names are published in the Gazette of India on 16 Jul 2005.

The undermentioned Lady Officers are granted Special Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the provisions of AI 10/96 (Corrigendum 9 dt 01 Jun 96 to SAI 1/S/92) wef 05 Apr 2004. On successful completion of their training, their Special Short Service Commission (on probation) is confirmed, ie, they are granted Short Service Commission for five years wef 17 Sep 2004. They are also granted two years ante-date seniority for promotion and increments of pay wef 17 Sep 2002 for possession of technical qualification under the above AI :—

Girija CH (WS-00952A), Engrs with seniority next below to Lt Meenal Chauhan (WS-00951X), Engrs and Binita Poonam (WS-00969N), Sigs with seniority next below to Lt Pushwinder Kaur (WS-00968L), AOC whose names are published in the Gazette of India on 16 Jul 2005.

CHANDER SHEIKHAR
Lt Col
DAMS 8B

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 510, dated 3rd October 2005.—The President is pleased to make the following appointments :—

Shri Bir Singh Yasdav, to be temporary Senior Administrative Officer Grade-I (Gazetted Group 'A' Post) in Defence Research & Development Organisation at CFEES, Delhi on probation for a period of one year w.e.f. 24 Mar 2004 in the pay scale of Rs. 10000-325-15200.

J. K. KHADWAL
Jt. Dir (Pers)

DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL
QUALITY ASSURANCE

No. 511, dated 30th September 2005.—The President is pleased to make the following appointments in DGAQA, Ministry of Defence :—

Shri R Padmanabhan, as temporary Junior Scientific Officer, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, PO HAL,

Korwa, Sultanpur-227412, on probation for a period of two years with effect from 31 May 2001 (FN).

Smt SP Vishalakshi, as temporary Junior Scientific Officer, in ALISDA, DGAQA, Ministry of Defence, Jalahalli Camp Road, Yeshwantpur Post, Bangalore-22, on probation for a period of two years with effect from 11 Jan 2001 (FN).

Shri Nallanuthu Kandasamy, as temporary Junior Scientific Officer, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, Vimanpura, Post Box No. 1782, Bangalore-17, on probation for a period of two years with effect from 19 Jan 2001 (FN).

Shri Vinay Ganeshrao Tayade, as temporary Junior Scientific Officer, in AAIW, (Det) DGAQA, Ministry of Defence, PO Chandrapur Ordnance Factory, Chanda-442501, on probation for a period of two years with effect from 04 Jan 2001 (FN).

Shri Ata-ur Rahman, as temporary Junior Scientific Officer, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, C/o HAL, Nasik Division, Ojhar, on probation for a period of two years with effect from 20 Nov 2000 (FN).

Shri Sanjeev Dewan, as temporary Junior Scientific Officer, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, C/o HAL, Nasik Division, Ojhar, on probation for a period of two years with effect from 21 Dec 2000 (FN).

Shri G Ravi Kumar, as temporary Junior Scientific Officer, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, Vimanpura, Post Box No. 1782, Bangalore-17, on probation for a period of two years with effect from 30 Nov 2000 (FN).

Shri N Puttaraju, as temporary Junior Scientific Officer, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, Vimanpura, Post Box No. 1782, Bangalore-17, on probation for a period of two years with effect from 30 Nov 2000 (FN).

Shri Rajveer Taank, as temporary Junior Scientific Officer, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, Khadki, Pune-03, on probation for a period of two years with effect from 17 Nov 2000 (FN).

Shri S Desingu, as temporary Junior Scientific Officer, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, Vimanpura, Post Box No. 1782, Bangalore-17, on probation for a period of two years with effect from 03 Nov 2000 (FN).

Shri Tushar Shriram Bhatt, as temporary Junior Scientific Officer, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, Khadki, Pune-03, on probation for a period of two years with effect from 29 Nov 2004 (FN).

Shri BS Sandeep, as temporary Junior Scientific Officer, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, Post Box No. 06, Sunabeda, Koraput District, Orissa-763002, on probation for a period of two years with effect from 30 Oct 2000 (FN).

RAMJILAL
Jt. Director (Adm)
For DG, AQA

(ARMY BRANCH)

No. 512, dated 28th September 2005.—The President is pleased to re-employ the undermentioned JCOs on the active list in the rank and date specified :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Subedar Major (GD)

Subedar Major Brij Lal Bhargarh (JC-478053Y) Formerly The Rajput Regt, 10 Jul 2004

Subedar Major Shakti Chand (JC-201085X) Formerly The Dograt Regt, 02 Oct 2004

In the rank of Subedar (GD)

Subedar Fateh Singh Gurjar (JC-478270P) Formerly The Rajpur Regt, 02 May 2004

Subedar Gaj Raj Singh (JC-168824W) Formerly Grenadiers, 10 May 2004

Subedar Joginder Singh (JC-185190F) Formerly Sikh Regt, 10 Jul 2004

Subedar Kunja Bihari Singha (JC-548253P) Formerly Assam Regt, 10 Jul 2004

Subedar Chandra Bhusan Singh (JC-184240P) Formerly Bde of the Guards, 10 Jul 2004

Subedar Karan Singh (JC-211555L) Formerly Armd Corps, 10 Jul 2004

Subedar Nand Lal (JC-518744W) Formerly The Dogra Regt, 10 Jul 2004

Subedar Sohan Singh (JC-205139L) Formerly The Sikh Regt, 10 Jul 2004

Subedar Satya Pal Singh (JC-468139K) Formerly Raj Rif, 02 Oct 2004

Subedar Narain Datt Basliyal (JC-528078K) Formerly Garh Rif, 02 Oct 2004

Subedar Asha Singh Rana (JC-174116A) Formerly The Dogra Regt, 02 Oct 2004

Subedar Nanda Prasad Pun (JC-612089F) Formerly 4 GR, 05 Oct 2004

In the rank of Naib Subedar (GD)

Naib Subedar Gopal Singh (JC-201114F) Formerly Kumaon Regt, 01 May 2004

Naib Subedar Basant Ram (JC-428137W) Formerly ASC (MT), 01 May 2004

Naib Subedar Sudhir Kumar (JC-841636X) Formerly Indian Navy, 01 May 2004

Naib Subedar Tarjinder Singh (JC-498033M) Formerly The Sikh Regt, 01 May 2004

Naib Subedar Surindra Singh (JC-528169N) Formerly Garh Rif, 01 May 2004

Naib Subedar Krishna Pada Ghosh (JC-297851X) Formerly Arty, 01 May 2004

Naib Subedar Nirmal Singh Parmar (JC-221948P)
Formerly EME, 01 May 2004

Naib Subedar Jagdamba Prasad Singh (JC-225939L)
Formerly Arty, 01 May 2004

Naib Subedar Trilok Singh (JC-208417Y) Formerly
Kumaon Regt, 03 May 2004

Naib Subedar Om Prakash Yadav (JC-841669H) Formerly
Indian Navy, 10 Jul 2004

Naib Subedar Azad Singh Malik (JC-211079X) Formerly
The Jat Regt, 10 Jul 2004

Naib Subedar Faqir Singh (JC-578615A) Formerly Jak Rifle,
10 Jul 2004

Naib Subedar Kali Dass (JC-578499H) Formerly Jak Rif, 10
Jul 2004

Naib Subedar Radhey Singh (JC-590014F) Formerly Kumaon
Regt, 11 Jul 2004

Naib Subedar Erwin Samyal (JC-841704A) Formerly Indian
Navy, 03 Oct 2004

T. K. M. PILLAI
Under Secy.

No. 513, dated 29th September 2005.—The President is
pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Nb Sub

Hav Mahadik Pratap Shriram (No. 14362794N now JC-
267588H), 10 Dec 2004/07 Jun 2004*

Hav Daryai Lal (No. 14474095K now JC-267589L), 07 Nov
2004/01 Aug 2004*

Hav Sant Lal (No. 14475272L now JC-267590A), 23 Nov
2004/01 Aug 2004*

BHM Gunamani Singha (No. 14470693K now JC-267591H),
16 Dec 2004/18 Aug 2004*

Hav Tej Prakash (No. 14479859F now JC-267592L), 11 Oct
2004/20 Aug 2004*

Hav Sandeep Sharma (No. 14360297L now JC-267593N),
27 Dec 2004/30 Aug 2004*

Hav Dinesh Kumar (No. 14365584Y now JC-267594W),
11 Dec 2004/30 Aug 2004*

Hav Govind Singh Rathore (No. 14389786Y now JC-
267595Y), 20 Nov 2004/31 Aug 2004*

Hav Lila Kanta Baruah (No. 14491748W now JC-
267596F), 03 Dec 2004/01 Oct 2004*

BHM Narayan Bhosale (No. 14372727W now JC-
267597K), 17 Jan 2005/01 Oct 2004*

Hav Bhamar Singh Jadon (No. 14397762K now JC-
267598M), 10 Nov 2004/05 Oct 2004*

Hav Ram Prakash (No. 14393431L now JC-267599P),
15 Dec 2004/01 Nov 2004*

Hav Hiren Kumar Sarkar (No. 14471103M now JC-
267600Y), 20 Dec 2004/01 Nov 2004*

Hav Chandan Bahadur (No. 14360299W now JC-
267601F), 04 Jan 2005/01 Nov 2004*

Hav Ramani Sinha (No. 14355643M now JC-267602K),
19 Dec 2004/01 Nov 2004*

RHM Mahabir Prasad (No. 14487658X now JC-
267603M), 05 Dec 2004/18 Nov 2004*

Hav Rajpal (No. 14485624L now JC-267640A), 14 Dec
2004/01 Aug 2004*

Hav Krishnan NM (No. 14476154K now JC-267641H),
21 Nov 2004/10 Aug 2004*

Hav Bipin Singh (No. 14463306F now JC-267642L), 16
Nov 2004/16 Aug 2004*

Hav Zala Vadan Sinh Shiv Sinh (No. 14361010P now JC-
267643N), 07 Dec 2004/01 Oct 2004*

Hav Udaivir Singh (No. 14479697F now JC-267644W),
20 Nov 2004/01 Oct 2004*

BHM Harbir Singh Yadav (No. 14465767K now JC-
267645Y), 08 Dec 2004/11 Nov 2004*

Hav M Selladuri (No. 14487993F now JC-267646F),
10 Jan 2005/15 Nov 2004*

Hav Prasanta Kumar Das (No. 14403726X now JC-
267647K), 21 Jan 2005/26 Nov 2004*

RHM Daya Ram (No. 14344950K now JC-267648M),
07 Jan 2005/01 Dec 2004*

Hav Rattan Singh (No. 14368080W now JC-267649P),
08 Jan 2005/01 Dec 2004*

BHM Shankar Singh (No. 14361632W now JC-
267650K), 10 Jan 2005/01 Jan 2005*

Hav Ghemud Dhanaji Kashinath (No. 14482557A now
JC-267651M), 08 Feb 2005/01 Jan 2005*

RHM Ratna Ram Jat (No. 14373932K now JC-
267652P), 07 Feb 2005/01 Jan 2005*

Hav Jaybir Singh (No. 14460304L now JC-267653X),
07 Feb 2005/01 Jan 2005*

BHM Jaswant Singh (No. 14473078X now JC-267654A),
18 Jan 2005/01 Jan 2005*

BHM Nirmal Kumar Singh (No. 14465287A now JC-
267655H), 01 Feb 2005

*(Gtd seniority wef)

M. M. SINGH
Under Secy.

No. 514, dated 4th October, 2005.—The President is pleased to make the following promotion (DPC) under AI 37/78 as amended vide AI 4/96:—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(PERMANENT COMMISSION)

To be Sqn Ldr

DR-10511X (AF-26053) Parul Sharma, 01st May 2002

The President is pleased to make the following promotion (SSC) under AI 15/79 as amended vide AI 5/96 :—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(SHORT SERVICE COMMISSION)

Flg Officer to be Flt Lt

DR-10555P (26942L) Sheleen Airon, 17th November 2003

PARAMJIT SINGH
Maj Gen
Addl DGDS

No. 515, dated 30th September 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
(ARMY MEDICAL CORPS)

Gp Capt (& equivalent) to be Air Cmde (& equivalent)

RK Ganjoo (MR-03225-N) (AF-13362), 01st March 2005 with notional seniority without effect on pay and pension from 01st December 2004.

R KAMRAN
Brig
Dy DGAFMS(P)

No. 516, dated 29th September 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

IC-53301 Arvind Singh, ASC, 10th December 2004

IC-53369 Navneet Mediratta, ASC, 10th December 2004

IC-55046 Leo Jonas Muthu, AOC, 01st November 2004

IC-55153 Dilip Kumar Rao, SIGS, 03rd November 2004

IC-55431 Kulvir Gill, EME, 26th October 2004

IC-54629 V Balaganesan, Arty, 06th November 2002

IC-51972 Sanjeev Singh, AOC, 12th Jun 2003

IC-52197 Sanjay Kumar Jarial, Arty, 12th Jun 2003

IC-52916 Umesh Singh Rawat, ASC, 01st November 2004

IC-56916 Harshardhan Singh Bisht, EME, 10th December 2004

IC-52653 Ajay Bafila, AC, 01st November 2004

IC-52944 Nitin Negi, Inf, 01st November 2004

IC-55009 Amit Anil Bendre, Arty, 01st November 2004

IC-55080 Kamaljit Singh, AC, 01st November 2004

IC-55630 Ashoo Khosla, AC

IC-55631 Arun Pal Singh, AC

IC-55648 Lokesh Kumar, Inf

IC-55649 Manmohan Singh, ADA

IC-55650 Sangram Singh Cheema, AC

IC-55651 Mayank Tripathi, ADA

IC-55652 Pranay Subba, Inf

IC-55653 Naorem Gajendra Singh, Inf

IC-55654 Vikram Chandel, Inf

IC-55655 Jaspreet Singh Brar, ASC

IC-55657 Bhupinder Singh Rai, Arty

IC-55658 Meetendra Kumar, Arty

IC-55659 Inder Pal Singh, Inf

IC-55661 Anil Kumar, Inf

IC-55662 Sunil Kumar Tripathi, AOC

IC-55663 Kaushalendra Praksh Mishra, Inf

IC-55664 Rohit Narula, M/Inf

IC-55665 Hamir Singh Rathore, Inf

IC-55666 Anil Thakur, ASC

IC-55667 Vishal Bahl, Inf

IC-55668 Gurmeet Singh, ASC

IC-55669 Rajesh Deswal, Arty

IC-55670 Narayan Singh, Arty

IC-55671 Virender Mohan Singh, Arty

IC-55672 Amit Sarkar, Inf

IC-55674 Arun Awasthy, Inf

IC-55677 Rajesh Kumar Choudhary, AC

IC-55678 G Kamesh, AOC

IC-55681 Vineet Magdum, ASC	IC-55732 Rahul Sharma, Inf
IC-55682 Sandeep Singh Rathee, M/Inf	IC-55733 Shantanu Chakrabarty, Arty
IC-55683 Bhagat Singh Adhana, Inf	IC-55734 Alok Kumar Tiwari, ADA
IC-55684 Satya Prakash Yadav, Inf	IC-55736 Nabi Ahmed, Inf
IC-55685 Sudeep Misra, Arty	IC-55737 Anil Kumar Chauhan, AOC
IC-55687 Sumit Kadian, AC	IC-55739 KS Jayandhan, ADA
IC-55689 Kailash Ghale, Inf	IC-55740 Farooque Raza, Inf
IC-55690 Gopal Singh Chundawat, Inf	IC-55741 Randhir Kumar Dwivedi, Arty
IC-55691 Sanjay Ojha, ASC	IC-55742 Abhishek Das, Inf
IC-55692 Atul Suri, Inf	IC-55753 Amandeep Singh Herr, AC
IC-55693 Harnek Singh, AOC	IC-55754 Rakesh Kundlas, Arty
IC-55694 Md. Shahid Ahmed, Inf	IC-55755 Supradip Benjamin Lulam Rai, Inf
IC-55695 Vinod Singh Shekhawat, Arty	IC-55756 Amar Singh Chandel, Inf
IC-55697 Abhayjit Himmat Singh Sandhu, AC	IC-55757 Vipin Kaushal, Inf
IC-55698 Servesh Dhadwal, Int	IC-55758 Narinder Pal Singh, Engrs
IC-55700 Emmanuel Tamang, Arty	IC-55759 Avinash Gaur, ASC
IC-55701 Prasenjit Sert, ASC	IC-55760 Sandeep Patwal, Inf
IC-55702 Jitendra Bhadur Singh Parihar, M/Inf	IC-55761 Mohd Sahid Khan, EME
IC-55703 Rahul Dutta, ADA	IC-55762 Anmol Nevelle David, Inf
IC-55704 Sukhbir Singh, Inf	IC-55764 Vikram Singh, ASC
IC-55705 Sandeep Kumar Batish, AC	IC-55765 Vishal Atri, M/Inf
IC-55707 Jagdeep Pratap, Inf	IC-55767 Sudip Chatterjee, Arty
IC-55708 Bhavay Sood, AOC	IC-55768 Rakesh Upadhyay, Inf
IC-55709 Deepankar Zinta, AC	IC-55769 Prasoon Joshi, Inf
IC-55710 Abhishek Uniyal, AC	IC-55773 Dalmeet Singh, Inf
IC-55712 Bharat Mitter Singh Parmar, Arty	IC-55774 Amit Sharma, Arty
IC-55713 Vishal Sharma, Arty	IC-56929 Raman Gupta, AC
IC-55714 Piyush Bhardwaj, Inf	IC-56932 Arvind Kumar, ADA
IC-55715 Rajnish Dhar, ASC	IC-56933 Udaybir Singh Dhillon, AC
IC-55716 Rajdeep Singh Lehal, Inf	IC-56938 Sarit Prakash, AC
IC-55717 Shashi Kumar Rana, Arty	IC-56939 Mohite Ketan Arun, Inf
IC-55718 Bal Yogeshwar Sharma, AC	IC-56940 Lokesh Kandpal, Inf
IC-55719 Ajay Nandal, ASC	IC-56942 Paresh Chandra Gupta, Inf
IC-55723 Janmeet Singh, ADA	IC-56943 Kamaljeet Singh Multani, Inf
IC-55725 Surya Mukherji, Inf	IC-56944 Amit Yadav, M/Inf
IC-55726 Sharanjeet Singh, Inf	IC-56945 Aabhas Avasthi, Inf
IC-55729 J Peter Celestine, M/Inf	IC-56947 Atul Watts, ASC
IC-55730 Shailender Singh Bhatyal, AC	IC-56948 Sarvinder Singh, Inf
IC-55731 Robin Mathew, ASC	IC-56949 Vishal Ranjan, Inf
	IC-56950 Dhiraj Ramanand, Arty

IC-56953 MK Surender Mouli, Arty	IC-57006 Sujit Upadhyay, EME
IC-56954 Nipoon Sood, EME	IC-57007 Puneet Prabhank Bhalla, EME
IC-56956 Dushyant Jolly, Inf	IC-57008 Mandeep Singh, Inf
IC-56957 Ajit Singh, Arty	IC-57009 Sandeep Singh, EME
IC-56958 Atul Bhatia, Inf	IC-57010 Partha Pratim Pal, Arty
IC-56960 Yogpal Singh, ASC	IC-57011 Gurjyot Singh, Shergill, EME
IC-56961 Santosh Atmaram Naugan, M/Inf	IC-57013 Vivek Tripathi, Arty
IC-56964 Rohit Kaundinya, AC	IC-57014 Himanshu Hatkar, Inf
IC-56965 Mummadi Jayaram, EME	IC-57015 Vivek Puri, Inf
IC-56968 Dhiraj Thapa, Inf	IC-57016 Avin Uthaiya, AC
IC-56969 Neeraj Singh, ASC	IC-57017 Kapil Agarwal, ADA
IC-56971 Sanjay Kumar Thakur, ASC	IC-57018 Ravindra R Joshi, ASC
IC-56972 Anil Kumar Joshi, Inf	IC-57020 Gautam Kapoor, Arty
IC-56974 A Rajesh, Inf	IC-57021 Sachin Annarao Nimbalkar, Inf
IC-56975 Govindraj Sharma, Inf	IC-57024 Satish Kumar Shrivastava, ADA
IC-56976 Harmish Desai, Inf	IC-57026 Udit Joshi, EME
IC-56977 Ramit Kapoor, Arty	IC-57027 Sanjeev Singh, ASC
IC-56979 Yallanagouda D Mallur, Inf	IC-57028 Sandeep Walia, Arty
IC-56981 Bhanu Pratap Sharma, Arty	IC-57029 Tribhuvan Swapnil Vijayanand, Inf
IC-56982 Rakesh Kumar, Arty	IC-57031 Sushil Kumar Pandey, Inf
IC-56983 Kiran Narayan Kulkarni, Int	IC-57032 Bobby RP Singh, ASC
IC-56984 Dillbagh Singh, ADA	IC-57033 Bawa Pradeep Singh Thakur, Inf
IC-56985 Ranju Kuriance, Arty	IC-57034 Arjun Uppal, AC
IC-56986 Chiter Sain, Inf	IC-57035 A Sandhan Mishra, Arty
IC-56987 Sanjoy Kumar Bhadra, ASC	IC-57036 Sanjeev Tyagi, EME
IC-56988 Ashish Pundir, EME	IC-57037 Ajay Dogra, ASC
IC-56989 Rajesh Bisht, AOC	IC-57038 Deepak Mohan, Inf
IC-56990 Sumit Sharma, Arty	IC-57039 Tarun Pathak, Inf
IC-56991 Aashish Dikshit, Inf	IC-57040 K Varun Singh Tanwar, Arty
IC-56992 Anshuman Narang, Arty	IC-57042 Anirban Chatterjee, AOC
IC-56993 Ajay Singh Chauhan, Inf	IC-57043 Ajay Verma, ADA
IC-56994 Vipin Sharma, M/Inf	IC-57044 Abhijit Joshi, AC
IC-56995 Sumeet Abrol, Inf	IC-57045 VL Murali Mohan, Arty
IC-56996 Ganesh Kapahi, Arty	IC-57046 Gurtej Singh Grewal, Arty
IC-56997 Navrattan Sibia, Arty	IC-57047 Monoj Tripathi, Arty
IC-56999 Akshay Kapoor, Arty	IC-57048 Manoj Kumar Patel, Inf
IC-57002 Deep Chandra Sati, Inf	IC-57049 Revety Bhandari, Inf
IC-57004 Ajay Pal Singh, Arty	

IC-57050 Rakesh Sharma, Inf	IC-57110 Akash Mishra, Arty
IC-57051 Ajay Thakur, AOC	IC-57112 Ivaturi Raman Rao, AOC
IC-57052 Abhishek Sharma, M/Inf	IC-57113 Ravi Koul, Inf
IC-57054 Manav Sabharwal, Arty	IC-57114 Navneet Kumar, Arty
IC-57057 Peeush Kumar, ADA	IC-57116 Anil Kumar G, ASC
IC-57058 Jitender Harjai, Arty	IC-57117 Rajeev Kumar Mishra, Inf
IC-57059 Prashant Joshi, AC	IC-57118 Sudhir Nohwar, ADA
IC-57060 Rakesh Kumar, AOC	IC-57119 Subhash Mahato, Arty
IC-57061 Jai Parkash Chahal, EME	IC-57120 Kulkarni Ninad Ramesh, Inf
IC-57062 Imtiaz Ahmed Khan, Arty	IC-57121 Sudhanshu Dube, AC
IC-57063 Ashwani Sinha, Inf	IC-57123 Anil Kumar, EME
IC-57065 V Shankar, Int	IC-57124 Rajesh Radhakrishnan, Inf
IC-57067 Aditya Srivastava, Inf	IC-57125 Ram Asarey Patel, Arty
IC-57068 Vinay Siddineni, Arty	IC-57127 Harmeeek Singh Walia, ASC
IC-57069 Premanku Ghosh, Inf	IC-57128 L Shyam Kumar, Arty
IC-57070 Ankush Thakur, M/Inf	IC-57129 Alok Singh Rawat, Inf
IC-57074 Uttam Chand, EME	IC-57130 Vipul Singh Rajput, Inf
IC-57075 Vivek Ahlawat, Arty	IC-57131 Salil MP, Inf
IC-57076 Kamaldeep Singh, Inf	IC-57132 Peeyush Kumar Vyas, Inf
IC-57078 Guru Prasad R, Inf	IC-57133 Pawan Pal Singh, Inf
IC-57080 Manjeet Singh Pathania, Inf	IC-57134 Gagan Arora, ADA
IC-57081 Jagjyot Singh Dhody, Inf	IC-57135 Rajat Bisht, Arty
IC-57082 Sunil Kumar Pandey, ASC	IC-57136 Nirinder Kumar, ASC
IC-57083 Rajesh Kumar, AC	IC-57138 Rohitash Sharma, Inf
IC-57084 Suresh Babu AB, EME	IC-57140 Jeet Bhadur Gurung, AOC
IC-57085 Desai Rajan Dileep, Arty	IC-57142 Raman Preet Singh, Inf
IC-57086 Rahul Josan, Inf	IC-57143 Rakesh Kumar, Arty
IC-57087 Rippon Bhalla, Arty	IC-57144 GS Saikumar, EME
IC-57090 Jitendar Singh, AC	IC-57145 Dattatray Bansidh Tingre, Inf
IC-57091 Ram Das Verma, Inf	IC-57146 Anirudh Chauhan, AOC
IC-57092 Karamjit, Singh, M/Inf	IC-57147 Soumen Kumar Badu, AC
IC-57093 M Suresh Kumar, ADA	IC-57148 Shashank Shekhar, Inf
IC-57094 Sandeep Pratap, Inf	IC-57150 Patwardhan S Sanjeev Parshuram, Inf
IC-57096 Maneesh Kumar Singh, AC	IC-57151 Surendra Singh, Arty
IC-57097 Vishal Saxena, Arty	IC-57153 Jagbhan Singh, EME
IC-57098 Vishal Dev, M/Inf	IC-57154 GC Vinod, Inf
IC-57099 Sanjay Teckchandani, Arty	IC-57155 Surinder Kumar, ASC
IC-57100 Himanshu Bisht, Arty	IC-57156 G Rajasekhar, ASC
IC-57101 Sumeshwar Singh, M/Inf	IC-57157 Sunder Bisht, Inf
IC-57104 Dinesh Singh Parmar, Inf	IC-57159 Pankaj Kumar Singh, Arty
IC-57107 Vishal Thapa, AOC	IC-57160 Paramjit Singh, AOC
IC-57108 Kaustubh Chattopadhyaya, AC	

- IC-57161 Gurdeep Singh, Arty
IC-57162 Saurabh K Sharma, Arty
IC-57163 Arirban Saha, Inf
IC-57164 Aditya Verma, Arty
IC-57165 Sagar Singh Bhisora, AOC
IC-57166 Parkar Rahul Diwakar, ADA
IC-57167 Shiva Kant Shukla, Inf
IC-57169 Ashish Kumar Pande, Inf
IC-57170 Sachit Mahindroo, ASC
IC-57173 Kanwar Shailenrra Thakur, Arty
IC-57174 Jagminder Singh Gill, AC
IC-57176 Upinder Pal Singh Sidhu, Inf
IC-57177 Yogendra Chaudhary, Arty
IC-57178 Mohammad Imtiaz Khan, Inf
IC-57179 P Kumar, M/Inf
IC-57180 P Shyam Sundar, Inf
IC-57181 Deepak Induraj, Arty
IC-57182 Ravinder Pal Singh, EME
IC-57184 Avdesh Kumar, Inf
IC-57185 Navtej Singh Grewal, Arty
IC-57186 Rupesh Awasthi, EME
IC-57187 Sanjeev Chopra, Inf
IC-57188 Mukesh Singh Bish, Inf
IC-57189 Vijay Kumar Singhal, AC
IC-57191 Paramjit Singh, Arty
IC-57192 Jatinder Singh Gandhi, Inf
IC-57193 Rohit Yadav, Inf
IC-57195 Jiju SG., ADA
IC-57196 Dharamvir Singh, Int
IC-57197 Pankaj Kumar Sinha, EME
IC-57198 Nitin Bhatia, Inf
IC-57199 Thomas Oommen, ASC
IC-57200 Anadi Atreya, Inf
IC-57201 Venkatesh G Kulkarni, Arty
IC-57203 Parminder Tewatia, ASC
IC-57206 Sandeep Sharma, AOC
IC-57208 Rajesh Kumar Awasthi, Arty
IC-57209 Jitender Kumar, Arty
IC-57211 Sachit Suri, Inf
IC-57212 Rajinder Pal Singh, Arty
IC-57213 Satinder Dahiya, Inf
IC-57214 Dogra Bikranjeet Singh B, Inf
IC-57215 Brij Pal Singh, ASC
IC-57216 Pawan Rawat, AOC
IC-57217 Sukhdev Singh Chaudhary, ADA
IC-57218 Ashok Kumar Yadav, ASC
IC-57220 Sorokhaibam Dinesh Singh, M/Inf
IC-57221 Sangram Singh, Arty
IC-57222 Menezes Ajay Bosco Joseoh Frankie, Arty
IC-57225 Rajesh Kumar Naithani, Inf
IC-57226 Smarajit Ganguly, Inf
IC-57227 Rizwanulrafia Khan, Inf
IC-57229 Sonu Taluja, Inf
IC-57230 Ashok Kumar K, AC
IC-57231 Puneet Gupta, AOC
IC-57232 Sunil Bhatt, ASC
IC-57233 Kanwal Preet Singh Rekhi, Inf
IC-57234 Vikramjeet Singh Virk, Inf
IC-57240 Anurag Trivedi, AOC
IC-57241 Vinod Kumar, Inf
IC-57242 AV Kiren Kumar, Arty
IC-57244 Prakhar Sinha, Arty
IC-57245 K Salil Kumar, Inf
IC-57246 Nitin Chauhan, M/Inf
IC-57247 Vikas Singh, AC
IC-57248 Umesh a Parab, Inf
IC-57251 Chinmays Kumar Nayak, Arty
IC-57253 Jagdish Chandra Pandey, Arty
IC-57255 Kumar Ankur, Inf
IC-57256 Sana Venkata Sudheer, ADA
IC-57257 Rajeev Joshi, Arty
IC-57259 Lakshmi Raj Rathore, Inf
IC-57263 Deepak Jindal, AOC
IC-57264 Sanjay Kumar Ray, Inf
IC-57265 Vikram Jit, ASC
IC-57266 Rishi Raj Singh, Inf
IC-57267 Amit Kumar Deoli, Inf

IC-57269 Upendra Nath Pandey, ASC	IC-57356 Prateek Prashar, Inf
IC-57270 Sandeep Toor, Inf	IC-57358 Vikram Vasantrag Lawand, Inf
IC-57272 Preythush Pillai, Inf	IC-57359 Shiv Nagendra Singh Chauhan, Arty
IC-57273 Patange Sachin Dattatray, Arty	IC-57360 Sanjay Kannothe, Inf
IC-57274 Gunjan Chowdhary, Arty	IC-57361 Saurabh Kapoor, ADA
IC-57276 Himanshu Bohra, Inf	IC-57362 Binesh Kumar Panda, Arty
IC-57277 Sarvendra Nath Rai, AC	IC-57363 P Rajan, ASC
IC-57278 Shivanand B Sutagatti, Arty	IC-57364 Guriqbal Singh Gill, M/Inf
IC-57280 Pradeep G ASC	IC-57367 Brijesh Pathania, Arty
IC-57282 Jaswinder Singh, Inf	IC-57370 Brijeshwar Singh Bhandari, M/Inf
IC-57284 Ajay Dharni, AOC	IC-57371 Devvrat Shaktawat, Inf
IC-57285 Jitendra Kumar Bisht, Inf	IC-57372 Vikram Chatrath, ADA
IC-57288 Priyadarshi Amit, Inf	IC-57376 Ajay Kumar Yadav, Arty
IC-57289 Shailendra Puri, Inf	IC-57380 Suneel Kataria, Inf
IC-57290 Aditya Mohan Sharma, Arty	IC-57381 Jitender Singh, ASC
IC-57291 Shinde Girish Bapurao, Inf	IC-57382 Karamveer Singh, AOC
IC-57293 Bikram Ajit Singh, ADA	IC-57385 Hitesh Kumar Dhankhar, Inf
IC-57294 Devinder Singh Rawat, Inf	IC-57386 Bhide Kedar Chandrashekhar, Arty
IC-57295 Vikram Prasanna, Arty	IC-57387 Rishi Yadava, AOC
IC-57297 Rajneesh Sharma, Inf	IC-57388 Brajesh Kumar Singh, Arty
IC-57298 Pijush De, Arty	IC-57389 Satyender Singh, Inf
IC-57299 Avik Chatterjee, Inf	IC-57391 Kanwaljit Singh, Inf
IC-57302 BL Krishna Kishore, Inf	IC-57393 Rakesh Pachora, AC
IC-57303 Anand Sidharth Koura, ASC	IC-57394 Gurnarinder Singh, ASC
IC-57305 Saurabh Jacob, ASC	IC-57398 Anupam Ashish, Arty
IC-57307 Kanwaljit Singh, AC	IC-57400 Ankur Banga, M/Inf
IC-57308 Rajesh Katoch, AEC	IC-57402 Koshy Abu Abraham Varikad, Inf
IC-57309 Vikas Chandna, Arty	IC-57403 Chinmay Shesasayee Satpathy, ASC
IC-57310 Barve Abhijit Vidyadhar, Arty	IC-57405 Manjunath Pai G, ADA
IC-57341 Haarminder Singh, AC	IC-57408 Chiv Mehta, Arty
IC-57342 Niraj Nath, Inf	IC-57409 Himanshu, Arty
IC-57343 Shamsher Singh, AOC	IC-57410 MD Ahdul Wahas, AOC
IC-57344 Ravinder Talashi, AC	IC-57412 Vidwansa Pradyumna Shrikrishna, Arty
IC-57345 Dev Mohan Govil, AC	IC-57413 Yash Raj Gulia, ASC
IC-57349 V Karthik, AC	IC-57415 Vivek Verma, Arty
IC-57350 Hemant Hoshrangdel Rana, ASC	IC-57416 Pankaj Bhagwati, Inf
IC-57352 Arif Mahmood, Inf	IC-57417 Jondhale Vishal Vasanjt, Inf
IC-57354 Amitosh Kumar, Arty	IC-57418 Akashya Chandran, Inf
IC-57355 Ashok Kumar Thakur, Inf	IC-57419 S Vijay Kumar, Inf
	IC-57420 Kanwar Vikram Singh, Inf

IC-57422 Sanjay Barshilia, Arty	IC-57494 Bhaskar Pant, AOC
IC-57424 Harpal Singh Yadav, ASC	IC-57495 Akshay Mankotia, Int
IC-57429 Rohit Pant, Inf	IC-57496 Mohit Thapa, Inf
IC-57430 Upendra Nath Rai, Arty	IC-57502 Sharawat Deepankar Kapoor Singh, Inf
IC-57431 Hemant Kumar, AOC	IC-57505 Ravi Roshan Singh, AOC
IC-57432 Aveek Mookharjea, Inf	IC-57506 Dilcharanjit Singh, ASC
IC-57433 B Keshan Kumar Vamsi, Inf	IC-57507 S Sriram, Inf
IC-57434 Samar Pratao Singh Chouhan, M/Inf	IC-57508 Gurjinder Singh Gill, EME
IC-57438 Praveen G, Inf	IC-57514 Abhilash Sahoo, Arty
IC-57439 Pramod Kumar Mishra, Arty	IC-57516 Atul Kumar Singh, Inf
IC-57440 Bir Bikram, Inf	IC-57518 Manish Kumar Asthana, ADA
IC-57441 Pramod Ramesh Bhai Ambasana, AOC	IC-57519 Bhola Shankar Singh, Arty
IC-57442 Randolph Ivo Vaz, Arty	IC-57521 Upender Paul Kanwar, AC
IC-57444 Preet Mohan Singh Kohli, ADA	IC-57522 Ajinkya Anil Jadhav, Inf
IC-57445 Arjun K, Arty	IC-57523 V Vidyasankar, Inf
IC-57446 Rajith CY, Inf	IC-57524 K Jayashankar, Inf
IC-57447 Nirmal Kumar, ASC	IC-57527 Anoop Birmhan, Arty
IC-57448 Vinod Kumar, ASC	IC-57529 Sandeep Jaspal, Inf
IC-57452 Mate Suhas Balaram, Inf	IC-57530 Prasanna Venkatesh S, ADA
IC-57457 Nitesh Kumar Malik, M/Inf	IC-57531 Aditya Pratap Singh, ASC
IC-57459 Maneesh Kumar Dubey, Arty	IC-57532 Amit Shukla, AOC
IC-57462 Shshir Bhardwaj, Inf	IC-57533 Sushil Kumar Tanwar, Int
IC-57463 MC Muthanna, Inf	IC-57534 Navin Yadav, ASC
IC-57465 Ruchir Bajpai, Inf	IC-57535 Amandeep Singh, AC
IC-57466 Balak Singh Verma, ADA	IC-57536 Pazhanivelu R, Inf
IC-57468 Amarjit Singh, Arty	IC-57537 Deependra Gurung, M/Inf
IC-57470 Niraj Shrikant Karan Josaonkar, Inf	IC-57541 Hajarnis Jaydip Chandrakant, Inf
IC-57471 Gaurav Bose, Inf	IC-57543 Gurdeep Singh, AOC
IC-57472 Yogbir Singh, AC	IC-57546 Ravi Prakash Singh, ADA
IC-57473 Jit Bhadur Chhetri, Inf	IC-57549 Mohit Kumar Sharma, Inf
IC-57474 Hmmat Verma, Arty	IC-57550 Manmohan Singh, Inf
IC-57475 Rajesh Arora, Arty	IC-57552 Subodh Chaudhary, Arty
IC-57477 Anand Manwal, Inf	IC-57553 Rajeev Kumar, AOC
IC-57478 Ajit Singh, AOC	IC-57554 Rajender Singh Chouhan, ASC
IC-57480 Param Puneet Singh Rawat, ASC	IC-57555 Avishek Sinha, Arty
IC-57482 Baljit Singh Chahal, Inf	IC-57558 Virender Singh, Arty
IC-57484 Puneet Raina, ADA	IC-57559 Gawde Vinod Krishna, Arty
✓ IC-57486 Deepak Mann, Arty	IC-57563 Ajay Mathur, ADA
IC-57490 Amit Verma, Inf	IC-57564 Manjeet Singh Kooner, Inf
IC-57492 G Arun Kumar, M/Inf	IC-57566 Harinder Singh Manik, Inf
IC-57493 Gurvinder Pal Singh Johal, Arty	IC-57569 Rajeev Singh, Arty
	IC-57570 Barry Dhillon, Inf

IC-57571 Vinod Kumar VK, Inf	IC-57646 Sanjeev Kumar Bhati, Inf
IC-57572 Ranchandra Kshetri, Arty	IC-57647 KK Venkatraman, Inf
IC-57574 Rakesh Kumar Bhardwaj, Inf	IC-57648 Virendra Pant, Inf
IC-57575 Manpreet Singh Bhinder, ADA	IC-57649 Vivek Kumar Sunikari, Inf
IC-57578 Vikram Iyengar, Inf	IC-57652 Ajay Pratab Hamir, Inf
IC-57579 Sanjeev Miglani, ASC	IC-57653 Vipul Tyagi, Inf
IC-57585 Prithvi Raj Chauhan, Inf	IC-57654 Swatantra Deep, AC
IC-57586 Naveen Kumar Singh, Inf	IC-57658 Praveen Kumar S, Inf
IC-57591 Ranjit Singh Dhillon, Arty	IC-57660 Rajesh Kumar Das, Arty
IC-57592 Rajiv Kumar Nanda, M/Inf	IC-57662 Laxman Singh Rathore, AC
IC-57593 Harpreet Singh, Arty	IC-57663 Bipul Kumar, ADA
IC-57595 Amit Sharma, ASC	IC-57664 Manish Kashyap, ADA
IC-57597 Pandey Pramod Kumar AN, Arty	IC-57665 Rajesh Sharma, Inf
IC-57600 Gulshan Mongia, ADA	IC-57666 Ajay Kumar Sharma, Arty
IC-57602 Vikramjit Singh Kahlon, AC	IC-57667 Shri Prakash Shukla, Arty
IC-57604 Saikat Kumar Bose, Inf	IC-57668 Shisher Kumar, AOC
IC-57605 Vivek Guleria, ASC	IC-57669 Samarjit Singh Boparae, Arty
IC-57606 R. Sethumadhavan, Arty	IC-57671 Pawan Deep Singh Bal, Inf
IC-57607 Rajesh Blowria, M/Inf	IC-57676 Kapil Vinayak, ASC
IC-57608 Praveen Kumar Sharma, AOC	IC-57677 Sandeep Mukherjee, AOC
IC-57611 Avneet Singh Kapoor, Inf	IC-57678 Gautam Rajrishi, Inf
IC-57612 Ganesh Raman, Arty	IC-57681 Manish Kumar Dogra, ASC
IC-57613 Raj Kumar Chachra, Inf	IC-57682 Promit Gangadharan, Inf
IC-57615 Abhinandan Singh, Inf	IC-57683 Manoj Singh, AOC
IC-57620 Devender Pal Singh, AOC	IC-57684 Kul Bhushan Upreti, Inf
IC-57621 Amitabh Srivastava, Arty	IC-57685 KL Roy, Inf
IC-57622 Viresh Sharma, Arty	IC-57686 Schil Mehta, Arty
IC-57624 Jeevender Singh, Inf	IC-57687 Prabhat Pande, Arty
IC-57626 Dinesh Sharma, Arty	IC-57688 Ajay Deep Singh Dali, Arty
IC-57629 Dheeraj Kumar Basel, M/Inf	IC-57690 Vikas, AC
IC-57630 Abhash K Simba, Inf	IC-57691 Rajesh Mishra, Arty
IC-57631 Dusyant Kulshrestha, ASC	IC-57692 Charanjit Singh Sidhu, Inf
IC-57632 Rohit Benjamin Sathiraj Titus, AOC	IC-57693 Harsh Kulshrestha, Int
IC-57634 Mahendra Singh, Inf	IC-57694 Sankal P Jain, M/Inf
IC-57635 Maddu Chandra Sekhara Rao, Arty	IC-57695 Rajesh Babu Mantena, AC
IC-57638 Anand Singh Sajwan, Inf	IC-57697 Sukhdarshan Singh Brar, Inf
IC-57639 Manoj Kumar Singh, ASC	IC-57699 Kulkarni Shashank Chandrakant, Inf
IC-57642 Awasthi Amit Rameshchandra, ADA	IC-57701 Vishvanath A Gokhale, Arty
IC-57643 Shardool Sharma, AC	IC-58936 Rohit Kapoor, Engrs
IC-57644 Jarnail Singh, M/Inf	

IC-58938 Vikas Pandey, EME	IC-58981 Gummalla Suri B, EME
IC-58939 Sunil Yadav, ADA	IC-58982 Pradeep Raj, Engrs
IC-58940 Sachin Kalia, EME	IC-58983 Karmendra Kumar, ADA
IC-58941 Anurag Bhardwaj, EME	IC-58984 Yaladalu Keshavanada Chandan, Engrs
IC-58942 Umesh Kumar Mehta, EME	IC-58985 Rahul Devrani, Sigs
IC-58943 Padir Vivek Shankarrao, Engrs	IC-58986 Shankar Singh Gautam, Sigs
IC-58944 Harpreet Singh, Engrs	IC-58987 Munish Kural, Sigs
IC-58945 Gavhane Sachin Suryakant, Engrs	IC-58989 Vijay Prakash Chaturvedi, Sigs
IC-58946 Rajeev Kumar Bakshi, Engrs	IC-58990 Sivapurapu Sridhara Rao, Engrs
IC-58947 Dharam Vir Singh, Engrs	IC-58991 Devender Singh, Sigs
IC-58949 Shashi Kumar Nair, EME	IC-58992 Jiju Jooohnson Thomas, EME
IC-58950 Sanjeev Kumar, EME	IC-58993 Parminder Singh, Engrs
IC-58951 Vikram Mahajan, EME	IC-58994 Harinder Pal Singh Sidhu, EME
IC-58952 Mayank Goel, EME	IC-58995 Dine Soibam, Engrs
IC-58953 Maninder Singh Gill, Sigs	IC-58996 Sajjan Singh, EME
IC-58954 Amit Kumar Gaur, ADA	IC-58997 Ningthoujam Birendra Singh, Engrs
IC-58955 Saurabh Dubey, Sigs	IC-58998 Rajinder Singh Sidhu, EME
IC-58956 Sunil Sharma, Sigs	IC-58999 Rajeev Sanan, EME
IC-58957 Arun Kumar, Sigs	IC-59001 Rakesh Verma, Sigs
IC-58958 Miranda Prabhakar Bryan, Engrs	IC-59002 Viswanathan R, EME
IC-58959 Santosh Prasad, Sigs	IC-59003 Deshpande Amit Arvind, Engrs
IC-58960 Parminder Singh Bal, Engrs	IC-59004 A Joji Paul, Engrs
IC-58961 Ravindra Pratap, EME	IC-59005 Yogesh Bhardwaj, Sigs
IC-58962 Gurvinder Singh Gill, Engrs	IC-59006 Belose Sachin Nathuram, Sigs
IC-58963 R Sahayaraj, EME	IC-59007 Saurabh Sachar, Engrs
IC-58964 Gopendra, Sigs	IC-59008 Amit Lakhanpal, EME
IC-58966 Naveen Sawhney, Engrs	IC-59009 Rohit Tugnait, Sigs
IC-58967 Nitin Sharma, EME	IC-59010 Umesh Marwaha, EME
IC-58968 Ramendra Singh Jhinkwan, Engrs	IC-59012 Ashwani Tyagi, Engrs
IC-58969 Nishant Sonlanki, Sigs	IC-59013 Sudeep Kumar Mishra, Engrs
IC-58970 Rakesh Zutshi, ADA	IC-59014 Deshpande Anil Anantrao, EME
IC-58971 Prem Kumar Yadev, EME	IC-59016 Arun Kumar D, Engrs
IC-58972 Gaikwad Vivek Uttamro, ADA	IC-59017 Khedekar Yogesh Govindrao, EME
IC-58973 Vijay Maurya, EME	IC-59018 Mritunjay Kumar, EME
IC-58974 Nitin Yadav, ADA	IC-59019 Kulvinder Singh, Engrs
IC-58975 Vineet Sharma, EME	IC-59021 Bandhil Sareer Chander, Engrs
IC-58976 Rahul Tayal, Sigs	IC-59024 Rohit Nandan Prasad, Sigs
IC-58977 Sharma Vishal Om Prakash, Engrs	IC-59025 Gurmeet Singh, EME
IC-58979 Sameer Bodas, Sigs	IC-59026 Bhupinder Singh Mann, Sigs
IC-58980 Kirti Pratap Singh, Sigs	IC-59027 Akhilesh Singh, Sigs

IC-59028 Dilraj Singh, Engrs	IC-59556 Yogesh N Garhwal, Engrs
IC-59029 Chandra Vanu Das, EME	IC-59557 Iyeer Vaidyanathan S, Engrs
IC-59030 Praveen S, Engrs	IC-59558 Gaurav Bidani, Sigs
IC-59032 Mahesh Kumar KS, Engrs	IC-59559 Rahul Jayant, Sigs
IC-59033 John Kodankandath, Engrs	IC-59560 Deepak Raj Masangatta, Engrs
IC-59034 Ashok Kumar Shripralhad Prasad, ADA	IC-59561 Ramneek Dadhwal, Sigs
IC-59035 Ashwini Bhardwaj, Sigs	IC-59562 Mohendra Katiyar, EME
IC-59036 Amit Chander, Engrs	IC-59563 Udayan Basu, Engrs
IC-59037 Shreejit S, EME	IC-59564 Manoj Sharma, Engrs
IC-59038 Tyagi Alok Kumar, ADA	IC-59565 Shyam, Engrs
IC-59039 Manoj Kumar Yadav, EME	IC-59566 Vinay Rao, Engrs
IC-59040 Siva Subramani R, Engrs	IC-59567 Jatinder Paul Singh, EME
IC-59041 Ajay Singh Bargouti, Engrs	IC-59568 Govindareddy Talavandi, Sigs
IC-59043 SR Suresh Kannan, EME	IC-59569 Neetin Sehgal, Engrs
IC-59044 Butala Devendra Manohar, EME	IC-59570 Harkamal Singh, Sigs
IC-59045 Amit Kumar, EME	IC-59571 Vikram Singh Bhadoria, Engrs
IC-59047 Arvind Kumar, EME	IC-59572 Neeraj Kumar Bisht, Sigs
IC-59049 Premanand K, Engrs	IC-59573 Dani Yogesh Sharad, Engrs
IC-59534 Sudesh Kumar Dhillon, Sigs	IC-59574 Rupvinder Singh, Engrs
IC-59535 Gireesh Nagpal, EME	IC-59575 Kulbir Singh, Engrs
IC-59536 Updesh Kumar Sharma, EME	IC-59576 Sanjeev Kumar Gupta, Engrs
IC-59537 Amarpreet Nayyar, Engrs	IC-59578 Deepak Sharma, Engrs
IC-59538 Kanwaljit Singh, EME	IC-59579 Akkula Balkrishna, Engrs
IC-59539 P Ravi Rajendran, Engrs	IC-59581 Manu Bharat Chaudhary, Sigs
IC-59540 Sanjeev Sardana, Sigs	IC-59582 Ajay Loomba, Sigs
IC-59541 Harmeet Singh, EME	IC-59583 Dhiraj Joshi, Engrs
IC-59542 Sushil Chandwani, Sigs	IC-59584 Saru Kapur, Engrs
IC-59543 Ashok Kumar, Engrs	IC-59585 Rahul Garg, Engrs
IC-59544 Rohit Sharma, EME	IC-59586 Yadvendra Singh, EME
IC-59545 Sansar Singh, Sigs	IC-59587 L Subramanya, EME
IC-59546 Kamal Pasha Khan, Sigs	IC-59588 Renju Abraham, Sigs
IC-59548 Sunil Kapoor, EME	IC-59589 Pankaj Pareek, Sigs
IC-59549 Vivek Bajpai, Sigs	IC-59591 Bagwan Tanveer Ismaili, Engrs
IC-59550 Gaurav Jain, Engrs	IC-59592 Ajay Kumar Gupta, EME
IC-59551 Samant Dhondiraj Shamrao, Engrs	IC-59593 Deepak Kumar Gupta, Sigs
IC-59552 Vishal Sharma, EME	IC-59594 Varun Malhotra, EME
IC-59553 Satish Kumar Tyagi, Engrs	IC-59595 Ranjit Ravindran, Engrs
IC-59554 Anil Raj TA, Engrs	IC-59597 B Kannan, EME
IC-59555 Amitabh Nishit Gottlieb, EME	IC-59598 Samrat Mohanta, EME

IC-58590 Vijayant Singh, AC	IC-58634 Saurabh Batta, Inf
IC-58591 Harmanjeet Lidder, Inf	IC-58636 Rishi Singh, Inf
IC-58592 Siddharth Chopra, AC	IC-58637 Thongam Joten Singh, Inf
IC-58593 Vishwas Kumar, Engrs	IC-58638 Shiv Pal Singh, Arty
IC-58594 Praveen Kumar, Ad Arty	IC-58639 Anshuman Vivek, M/Inf
IC-58595 Gaurav Singh Hamal, AC	IC-58640 Amit Sharma, Arty
IC-58596 Robeen Chatterjee, Inf	IC-58641 Devashish Dikshit, AOC
IC-58597 Vishal Sood, Engrs	IC-58642 Narender Singh, ASC
IC-58598 Abhishek Verma, Inf	IC-58643 Kaustubh Ulhas Kekre, Inf
IC-58600 Dayanand Sharma, Inf	IC-58645 Navneet Singh, ASC
IC-58601 Anjan Kumar Basumatari, Arty	IC-58647 Shailendra Jaswal, Ad/Arty
IC-58602 Sameer Vasishta, Arty	IC-58648 Shiwain Kaul, Inf
IC-58603 Pritam, AC	IC-58650 Ganesan S, Arty
IC-58604 Abhishek Dhasmana, Inf	IC-58651 Sarvesh Yadav, Inf
IC-58605 Dheeraj Kotwal, Inf	IC-58652 Gaganjit Singh, AC
IC-58606 Luve, M/Inf	IC-58653 Malkiat Singh, Arty
IC-58607 Vivek Arya, Arty	IC-58654 Biswajit Dash, M/Inf
IC-58608 Navdeep Singh Saran, AOC	IC-58655 Ram Narayan Singh, ASC
IC-58609 Shatru Jeet Kotwal, Inf	IC-58656 Satyakam Dabas, Inf
IC-58610 Nishant Sharma, Inf	IC-58657 Anurag Chandrashekar Telang, Arty
IC-58611 Presanth Kumar PV, ASC	IC-58658 Oinam Keirungba, ASC
IC-58612 Virender Singh Salaria, Inf	IC-58659 Satheesan R, Arty
IC-58614 Rohitash Kumar, Arty	IC-58660 Sandeep U, Inf
IC-58615 Neeraj Bisen, Arty	IC-58662 Binesh Nair, Inf
IC-58617 Richard Fernandes, Inf	IC-58663 S Prashanth, Inf
IC-58618 Pratyush Atri, Inf	IC-58665 Amit Kumar Uniy, Arty
IC-58619 Navin Kumar Dhyani, Engrs	IC-58666 Virender Singh, AOC
IC-58620 Pavan Rai, Arty	IC-58667 Ashutosh Mishra, Inf
IC-58622 Vikas Gupta, Inf	IC-58668 Prashant Pathak, Inf
IC-58624 Tushar, ASC	IC-58669 Ajay Singh Rathore, M/Inf
IC-58625 Amit Kirti, ASC	IC-58670 Surinder Singh Guliani, Inf
IC-58626 Navinder Singh Belvi, Arty	IC-58672 Ashish Kumar Karir, Engrs
IC-58628 Kapil Yadav, Inf	IC-58673 Ankush Sharma, Ad Arty
IC-58629 Amit Kabdwal, Inf	IC-58674 Piyush Ranjan Trivedi, Arty
IC-58630 Shouvik Sen, Arty	IC-58675 R Shankar, Inf
IC-58631 Satyan Sundaram, Engrs	IC-58676 Munish Matta, Arty
IC-58632 Arun Kalia, Arty	IC-58677 Jitender Singh, Arty
IC-58633 Gaurav Prasad, Inf	IC-58678 Amarbir Singh Riar, AC
	IC-58679 Suvrat Chaturvedi, AOC

IC-58680 Nitin Sharma, Engrs	IC-58727 Deepak Yadav, ASC
IC-58681 Simit Sharma, Engrs	IC-58728 Ajay Kumar Sharma, Engrs
IC-58682 Suchisnata Pradosh Dash, Arty	IC-58729 Shakeeb Ahmed Khan, Arty
IC-58683 Aditya Kanwal, Inf	IC-58730 Sushil Kumar Baperia, Inf
IC-58684 Ghuge Mahadeo Sheshrao, Arty	IC-58731 Vikram Saini, Inf
IC-58688 Bhupal Singh, Inf	IC-58732 Pankaj Dhama, Arty
IC-58689 Jaspreet Singh, Inf	IC-58735 Saurabh Bhatt, Arty
IC-58690 Ghorpade Sachin Shukaracharya, M/Inf	IC-58736 Rahul Ghosh, Arty
IC-58691 Rahul Sahni, Ad Arty	IC-58737 Sushant Singh, Inf
IC-58692 Anurag Pandey, Arty	IC-58738 Vikramjeet Singh Sambyal, ASC
IC-58693 Ambadekar Ananta Ashok, Arty	IC-58740 Anil Kumar Mor, Inf
IC-58694 Manuj Kumar Garg, Arty	IC-58741 Shyam Bhadur Paudyal, Inf
IC-58695 Vinimay Thapa, Inf	IC-58742 Vijay Kumar, Inf
IC-58696 Subhaji Basu, ASC	IC-58743 Subhanjan Chatterjee, Inf
IC-58697 Manoj Kumar Nayak, Arty	IC-58744 Vishwajeet Singh, AOC
IC-58698 Umang Trehan, AOC	IC-58745 Saurabh Kalgaonkar, Inf
IC-58699 Shashank Bajaj, ASC	IC-58746 Mane Namadev Shrimant, Inf
IC-58700 Arun Nain, ASC	IC-58747 Mohit Thapa, Inf
IC-58701 Ravi Kumar Maney, Inf	IC-58749 Vikas Pandey, Arty
IC-58702 Anurag Kshitij Bishwas, AC	IC-58750 Ranjan Jee, Int
IC-58704 Mukesh Sharma, Inf	IC-58751 Gaurav Shukla, Inf
IC-58705 Jaidev Singh Aswal, Inf	IC-58752 Bedarkar Samir Suresh, Arty
IC-58707 Puneet Karol, Arty	IC-58754 Rakesh Singh Punia, Inf
IC-58708 Dinesh Kumar, Inf	IC-58755 Ashutosh Badola, Arty
IC-58709 Iqbal Hussain Rather, Ad Arty	IC-58756 Maneesh Bhola, Mech Inf
IC-58710 Ansar M, AC	IC-58758 Manish Sharma, ASC
IC-58711 Dilpreet Singh, Inf	IC-58759 Sharad Kumar Misra, AD Arty
IC-58712 Manish Chauhan, AC	IC-58760 Ani John Alex, Arty
IC-58713 Vivek Gupta, Inf	IC-58761 Hemant Tiwari, Arty
IC-58714 Manik Mohan Jolly, Inf	IC-58762 Uday Singh Mankotia, Inf
IC-58715 Rinchen Dorje, Inf	IC-58764 Penukonda Feroz Ali Khan, ASC
IC-58716 Rahul Harchand, AOC	IC-58765 Sudhir Kumar Singh, Inf
IC-58718 Arun Devgan, Inf	IC-58766 Nasir Naim, Arty
IC-58719 Jadhav Devdatta Ramkrishna, Arty	IC-58768 Deepak Kumar, AC
IC-58720 Kuldip Mohan Sharma, Arty	IC-58769 D Lakshmana Kumar, Inf
IC-58722 Ashish Kumar Yadav, Arty	IC-58770 Surya Prakash, Arty
IC-58724 Pushpinder Singh Chaudhary, Inf	IC-58771 Khanka Devinder Singh Narayam Singh, Engrs
IC-58725 Gagan Pandey, Mech Inf	IC-58772 Sanjay Rawat, Inf
IC-58726 Ajay Prakash Sharma, AOC	IC-58773 Atul Kumar, Engrs

IC-58774 Vichar Mago, ASC	IC-58814 Nimesh Kumar, AOC
IC-58775 Ashok Kumar Singh, Inf	IC-58815 Sukhdev Singh, Inf
IC-58776 Avinash Tripathi, ASC	IC-58816 Tushar Sapru, ASC
IC-58777 Deep Chandra Pant, Inf	IC-58817 Simanta Pathak, Inf
IC-58778 Rohit Gupta, M/Inf	IC-58819 Adeetya Singh, Inf
IC-58779 Harsh Mohan Vardhan, AOC	IC-58820 Shrotriya Rashmin Shrikant, Arty
IC-58780 Vetri Velu S, Arty	IC-58822 Shailender Singh, AOC
IC-58781 V Balaram, Inf	IC-58823 Hemant Kumar Belwal, Arty
IC-58782 Bhave Vijay Sudhakar, Inf	IC-58824 Lav Joshi, M/Inf
IC-58784 Kushwinder Singh, Inf	IC-58825 Rajeev Bhola, Inf
IC-58785 Gaurav Bhandari, Arty	IC-58826 Rishi Singh, Inf
IC-58786 Pushpender Singh Sangwan, Arty	IC-58827 Sachin Vasdev, Inf
IC-58787 Hirendra Kumar Sharma, AC	IC-58828 Shaleen Singh, Arty
IC-58788 Vijay Hooda, Inf	IC-58829 Vinay Kumar Jain, Arty
IC-58789 Elvin Jacob, Engrs	IC-58830 Sujeet Kumar, AC
IC-58790 Neeraj Pant, Inf	IC-58831 Abhishek Bhakat, Inf
IC-58791 Jamesh Jerry Issac, Inf	IC-58832 Deepak Yadav, ASC
IC-58792 Deshmukh Vikram Sambhajirao, Arty	IC-58833 Mayuresh Dilip Bal, Inf
IC-58793 KP Vinay, Arty	IC-58835 Mandeep Goswani, Inf
IC-58794 Sourjya Chakrabarty, Inf	IC-58836 Nitin Bhawar, Inf
IC-58795 Suchit Puri, ASC	IC-58837 Deepak Sharma, Inf
IC-58796 Amit Berwal, AC	IC-58838 Priyank Mishra, Inf
IC-58797 Rohit Uniyal, Arty	IC-58839 Bal Bahadur Reshmi, M/Inf
IC-58798 Somesh Bhatnagar, M/Inf	IC-58840 Saurab Sirohi, Inf
IC-58799 Rajendra Singh Kadwasara, Arty	IC-58841 Kaushik Ghosh, Inf
IC-58800 Tejendara Singh, Inf	IC-58842 Rajesh Kumar Singh, AD Arty
IC-58801 Ashish Kumar Jha, Arty	IC-58843 Ajay Dabur, Arty
IC-58802 Parvinder Singh Dhanda, Arty	IC-58844 Siddhartha Dhankar, Inf
IC-58803 Benke Vikram Sudhir, ASC	IC-58845 Saurabh Khanna, Inf
IC-58804 Amit Sharma, EME	IC-58846 S Jaya Prakash, ASC
IC-58805 Bharat Sirohi, AC	IC-58848 Alok Singh Kondal, AC
IC-58806 Vikas Saini, AOC	IC-58849 Pendase Abhay Jayant, Inf
IC-58807 Navneet Singh, Arty	IC-58850 Pir Jagjot Singh Sidhu, ASC
IC-58809 Shalabh Pun, Inf	IC-58851 Amit Samant, Engrs
IC-58810 Digvijay Madameme, AD Arty	IC-58852 Vishv Pal Singh, ASC
IC-58811 Vijay K Tanwar, Inf	IC-58853 Sandeep Kukreti, AC
IC-58812 Siddharth Parmar, Engrs	IC-58854 Madhukar Jha, Inf
IC-58813 S Dinny, Inf	IC-58855 Ravinder Pal Singh, Arty
	IC-58856 Chandar Dev Singh Sambyal, Inf

IC-58857 Ashok Yadav, AOC	IC-58901 Amit Sharma, Arty
IC-58858 Manoj Kumar Sahu, Inf	IC-58902 Munish Mehrotra, ASC
IC-58859 Anand Sharma, Arty	IC-58903 Suprajit Chowdhury, AOC
IC-58860 Amarbir Singh Guram, Arty	IC-58904 Sudhir Khandka, Inf
IC-58861 Anurag Upadhyaya, Inf	IC-58905 Harjinder Singh Baidwan, Inf
IC-58862 Sudipto Mukhopadhyay, M/Inf	IC-58906 Manoj Kumar, AC
IC-58864 Sundaram Ganesh Ganapathi, Inf	IC-58907 Vikram Danyal, ASC
IC-58865 Samaresh Chatterjee, Inf	IC-58909 Anshuman Srivastava, AOC
IC-58866 Anup S Nair, Ad/Arty	IC-58910 Kulmeet Singh Kataria, Inf
IC-58867 Sarinwantu Chatterjee, Arty	IC-58911 Ramesh Chandra, Arty
IC-58869 Prasad J, Arty	IC-58912 Sanjay Kapoor, AC
IC-58870 Chiranjit Medhi, Arty	IC-58913 Ritesh Mohan, Inf
IC-58871 Ashish Appanna NM, Inf	IC-58914 Sumit Saxena, Engrs
IC-58872 Dev Sharma, AOC	IC-58915 Tanay Kothiyal, Inf
IC-58873 Nitin, Inf	IC-58917 Korimilli Venkata Prasanna, Arty
IC-58874 Chandra Shekhar Addya, AC	IC-58918 Sankalp Kumar, Inf
IC-58875 Sudeep Bose, Inf	IC-58919 Dushyant Sharma, Inf
IC-58876 Rajesh Kumar Singh, Arty	IC-58920 Shashi Kumar Rai, Inf
IC-58877 Jay Gaurav Manhas, ASC	IC-58922 Deepanshu Thapliyal, Arty
IC-58878 Laipubam Ulen Sharma, Arty	IC-58923 Vijay Sati, AC
IC-58880 Manoj Kumar Singh, Engrs	IC-58924 Ajay Bhardwaj, Arty
IC-58881 Rajesh Makkar, AC	IC-58925 Vivek Sharma, Inf
IC-58882 C Biju, Ad/Arty	IC-58926 Raj Kumar, M/Inf
IC-58883 Rupesh Sharma, Arty	IC-58927 Atul Kumar Tyagi, Inf
IC-58884 Anuj Gupta, Inf	IC-58928 Samir Kumar Kar, Inf
IC-58885 Manoj Kumar, ASC	IC-58929 Gaurav Kanwal, Inf
IC-58886 Nashim Akhtar, ASC	IC-58931 Phatak Mandar Yashwant, Arty
IC-58887 Ritesh Kumar, M/Inf	IC-58932 Himanshu Thakur, Inf
IC-58888 Ashish Agarwal, AC	IC-58934 Saurbh Chaturvedi, Arty
IC-58889 Krishna Keshav Singh, Inf	IC-59050 Rajeev Sharma, EME
IC-58890 Ashwini Kumar Singh, Inf	IC-59051 Talewar Samir Jai Kumar, Engrs
IC-58892 Vijay Kumar Saha, Arty	IC-59052 Harpreet Singh, Sigs
IC-58893 Thambi Vargheese PB, AOC	IC-59053 Manoj Kumar Singh, Engrs
IC-58894 Rupesh Kumar Mishra, ASC	IC-59055 Bharat Bhushan Kapoor, Sigs
IC-58895 Parkaj Verma, Inf	IC-61224 Gurjeet Singh, Sigs
IC-58896 Nishant Kumar Pathak, Inf	IC-61225 Munish Shashikant Rane, EME
IC-58897 Bharat Kumar, Arty	IC-61226 Nitin Bhatia, EME
IC-58898 Praveen Kumar, Inf	IC-61227 Sarabjit Singh Walia, EME
IC-58899 Aniya Tripathy, Inf	IC-61228 Simarjeet Singh, EME

IC-61229 Simant Upadhyay, Sigs	IC-61268 Uday Nain Singh, Engrs
IC-61230 Avinash Baban Bhandare, Sigs	IC-61269 Goparaju Sharath Prasad, Engrs
IC-61231 Raskar Prasad Dhyaneswar, Engrs	IC-61270 Tushar Pandey, EME
IC-61232 Manoj Singh Silot, Sigs	IC-61271 Dipendra Paul, Engrs
IC-61233 Bhuvad Mander Sruesh, EME	IC-61272 Mukesh Kumar, Engrs
IC-61234 Sandeep Singh Sambyal, Engrs	IC-61273 Nitin Suresh Khairmode, Engrs
IC-61235 Gaurav Dhawan, Sigs	IC-61274 Supratim Datta, Engrs
IC-61236 Deep Singh Rawat, Engrs	IC-61275 Nand Kishore, Sigs
IC-61237 Aditya Kaushal, EME	IC-61276 Manbir Singh, Sigs
IC-61238 Aman Mehta, EME	IC-61277 Bhoopendra Singh Chadrawat, Sigs
IC-61239 Sachin Chaudhary, Sigs	IC-61278 NV Vigil, Engrs
IC-61240 Manvendra Nagaich, Sigs	IC-61279 MD Gopinath, Sigs
IC-61241 Gagan Nagpal, Sigs	IC-61280 Vikram Khajuria, EME
IC-61242 Vineet Dhanotia, EME	IC-61281 Dhananjay Kumar, Engrs
IC-61243 Iyer Venkatraman Subramanian, Engrs	IC-61282 Prashant Jassal, Engrs
IC-61244 Gaurav Bakshi, Engrs	IC-61283 Hariharan S, Sigs
IC-61245 Karan Dhawan, Sigs	IC-61284 Soumendra Banerjee, Engrs
IC-61246 Anterpreet Singh, Engrs	IC-61285 Nitin Khanna, Sigs
IC-61247 Sukhdev Arora, EME	IC-61286 Ranjith G Nair, Engrs
IC-61248 Ankur Amul Jayakar, EME	IC-61287 Bharat Singh Shekhawat, EME
IC-61249 Suraj Bhan Singh, Engrs	IC-61288 Manish Goswami, Sigs
IC-61250 Sidharth Jandial, EME	IC-61289 Jitendra Tiwari, EME
IC-61251 Samarjit Singh, EME	IC-61290 Diwakar Kumar Gupta, Engrs
IC-61252 Manoj Alexander, Engrs	IC-61291 Amit Bector, Sigs
IC-61253 Sanjay Malik, Engrs	IC-61292 Soumya Prakash Otta, Sigs
IC-61254 Om Pratap Singh, Engrs	IC-61293 Sumil Kumar Kashyap, Sigs
IC-61255 Amit Agarwal, Engrs	IC-61295 Vipin Kumar Saxena, EME
IC-61256 Digvijay Singh Chauhan, Engrs	IC-61296 N Vinod Kumar, Engrs
IC-61257 Manish Jain, Engrs	IC-61297 Munish Kumar Khullar, Engrs
IC-61258 Nishant Upadhyay, EME	IC-61299 Manish Kaushik, EME
IC-61259 Vikas Surendra Upadhyay, Sigs	IC-61300 Kirtidev Kasaksint Jadeja, Engrs
IC-61260 Mantej Singh Grewal, Engrs	IC-61301 Bharat Bhushan, Sigs
IC-61261 Mahip Singh, Engrs	IC-61302 Vishal Kaushik, EME
IC-61262 Tarun Kalia, EME	IC-61304 Vikas Jain, Engrs
IC-61263 Sonindhar Dip Singh, Sigs	IC-61305 Nasir Dhruv Eric, EME
IC-61264 Saptarshi Chakrabarty, Sigs	IC-61306 Paruekar Sagar Dinesh, EME
IC-61265 Dusheria Ranjit Kumar, EME	IC-61309 Durgesh Kumar Parihar, EME
IC-61266 Raj Singh, Sigs	IC-61310 Misall Yashawant Shyamrao, EME
IC-61267 Tushar Tathangat, EME	IC-61311 Vikram Neekhra, EME

IC-61312 Sureel Srivastava, Sigs	IC-60106 GV Anshu, Arty
IC-61313 Prashant Ramchandra Rane, EME	IC-60107 Nayanjyoti Bura Gohain, Inf
IC-61314 Praveen Kumar Singh, Sigs	IC-60108 Pankaj Joshi, Arty
IC-61315 Puhokrol Pusa, EME	IC-60110 Samrat Singh, Engrs
IC-61316 Sunil Kumar Suhag, Engrs	IC-60112 Dinesh Tewari, Sigs
IC-61317 Vikram Singh, Engrs	IC-60113 Vijay Anand Rao Shinde, Int
IC-61318 Anupam Tiwari, EME	IC-60114 Mridul Verma, Inf
IC-61319 Abhay Kumar, EME	IC-60115 K Kiran, Inf
IC-61320 Nitin, Sigs	IC-60116 Romil Chandra, EME
IC-61321 Dhiren Kumar Verma, Engrs	IC-60117 Neeraj Sharma, AD Arty
IC-61322 Deepak Mohan Padhi, Engrs	IC-60119 Amit Dhand, Engrs
IC-61325 Rakesh Kamra, EME	IC-60120 Naresh Chauhan, Arty
IC-61326 Tarandeep Singh Arora, Engrs	IC-60121 Vikrant S Shinde, Inf
IC-61327 Rajan Bhatt, Engrs	IC-60122 Smar Singh Chauhan, AC
IC-61328 Devashish De, Engrs	IC-60123 Abhishck Yadav, AOC
	IC-60124 Gaurav Dalal, EME
	IC-60125 Arun Varughese, Inf
	IC-60126 Sudhanshu Dwivedi, Inf
	IC-60127 Kumar Gaurav, Arty
	IC-60128 Lalit Kumar, Jain, Inf
	IC-60129 Virender Kumar Thakur, Inf
	IC-60130 Ahhishek Singh, Inf
	IC-60131 Vikram Singh, Sigs
	IC-60132 Ananda Chandra Boity, EME
	IC-60133 Akash Karwal, Inf
	IC-60135 Sunil Kumar, Engrs
	IC-60136 Abhinav Thakur, EME
	IC-60138 Shailendra Pratap Singh, Sigs
	IC-60139 Manoj Kumar Rana, Int
	IC-60140 Girish Kumar Gandhi, Engrs
	IC-60141 Mukund MG, Inf
	IC-60142 Arjun Dube, AC
	IC-60143 KM Nithin Kuttappa, Inf
	IC-60144 Rajeew Chauhan, Arty
	IC-60145 Gaurav Kumar Pande, ASC
	IC-60146 Harish Joshi, Inf
	IC-60147 Maneesh Ahluwalia, Arty
	IC-60148 Punar Preet Singh Mann, Mech. Inf
	IC-60150 Armit Samanta, Arty

13 Jun 2005

Lt. To be Capt

IC No, Name and Arm

IC-60085 Vikram Singh Rai, AC
IC-60086 Virender Singh Salaria, AC
IC-60087 Piyush Kumar, Jain, Engrs
IC-60088 Amit Sethi, AD Arty
IC-60089 Deepak, EME
IC-60090 Sandeep Kalra, Arty
IC-60091 Piyush Shukla, Inf
IC-60092 Dharmendra Yadav, Inf
IC-60093 Khwaja Sultan Ahmed Khan, Inf
IC-60095 Ratnesh, Inf
IC-60096 Vivek Kanwar, Inf
IC-60097 Amit Bakshi, M/Inf
IC-60098 Vaibhav Rana, Arty
IC-60099 Kamaldeep Singh Sandhu, Inf
IC-60100 Neil Katoch, Inf
IC-60101 Amit Mahendra Sharma, EME
IC-60102 Piyush Bisht, Arty
IC-60103 Kuldeep Singh, AC
IC-60104 Bibhuti Kumar Jha, Sigs
IC-60105 Jai Inder Singh Hassanwalia, AC

IC-60151 Gurinder Singh Klair, AC	IC-60192 Punit Srivastava, ASC
IC-60152 Kunal Sinha, Inf	IC-60193 Rajeev Kumar Nair, Arty
IC-60153 Narain Dass, Inf	IC-60194 CS Jayaram, Sigs
IC-60154 Gaurav Sarvapriya Juneja, Arty	IC-60195 Sumu John, ASC
IC-60155 Kapil Chandrakant Jodh, Arty	IC-60196 Suneel Kumar, Arty
IC-60156 Ajit Kumar Reddy, EME	IC-60197 L Sonamani Meetei, Sigs
IC-60157 Sanjay Joshi, Engrs	IC-60198 Sourabh Inamdar, Engrs
IC-60158 Puneet Chauhan, Engrs	IC-60199 Vasant Gurav, Inf
IC-60159 Ankur Sorick, Inf	IC-60200 Nalin Durgapal, Inf
IC-60160 Praveen Kumar, Inf	IC-60201 Devender Singh, Inf
IC-60162 Saif Naseem, Arty	IC-60202 Pracheesh Tiwari, Arty
IC-60163 Gaurav Mehra, Mech. Inf	IC-60203 Ujjwal Khaitiwada, AOC
IC-60164 Himanshu Kumar Tripathi, Inf	IC-60204 Narender Singh, Inf
IC-60165 Waibhav Anil Kale, Inf	IC-60205 Padmaticona Govardhan Reddy, Engrs
IC-60166 Gaurav Kumar Mahindra, AC	IC-60206 Saurabh Kapoor, Engrs
IC-60167 Pawan Chaswal, Inf	IC-60207 Amit Chaudhari, AOC
IC-60168 Rajesh Dwivedi, Engrs	IC-60208 Mridul M Nair, EME
IC-60169 Saurabh Rathee, Inf	IC-60209 Narendra Tripathi, EME
IC-60170 Amninder Singh Bains, Inf	IC-60210 Jitender Singh Bhalla, EME
IC-60171 Salem Satyajit Singh, Arty	IC-60211 Akshay Kanwar, Inf
IC-60172 Ram Murty, AD Arty	IC-60212 Nikhileshwar, Mech. Inf
IC-60173 Rajat Kumar Tripathy, Inf	IC-60213 Hari Prasad, Inf
IC-60174 Sambit Kumar Nayak, Sigs	IC-60214 Pramod Kumar Gahlot, Inf
IC-60175 Akshay Pande, Sigs	IC-60215 Arun Menon, Arty
IC-60176 N Nikhil, EME	IC-60216 Prabhat Bist, EME
IC-60177 Aswini Kumar Sharma, Engrs	IC-60217 Jagbir Singh Dalal, AD Arty
IC-60178 Ravi Zachariah, AD Arty	IC-60218 Samir Srivastava, Mech. Inf
IC-60179 Rajendra Jagdish Rane, Inf	IC-60219 Pramod Kumar, Engrs
IC-60180 Sagat Singh Rathore, EME	IC-60220 Yogendra Kushwaha, Arty
IC-60181 Vishwajeet Singh, Inf	IC-60221 Shamit Thakur, Engrs
IC-60183 Vishal Sharad Chinchkar, Inf	IC-60222 Manish Kumar, Inf
IC-60184 Kishalaya Dubey, Inf	IC-60223 Vishwas Pradeep Paranjpe, Inf
IC-60185 Sushil Minhas, Inf	IC-60224 Sachin Deepak Wakankar, Arty
IC-60186 Puneet Attri, AC	IC-60226 Aman Luthra, Inf
IC-60187 Anshuman Handa, Arty	IC-60227 Vidya Bhushan Tewari, EME
IC-60188 KJ Saju, AD Arty	IC-60228 Rahul Gaur, AOC
IC-60189 Bobby Jasrotia, Inf	IC-60229 Abhimanyu Shekhawat, AC
IC-60190 CR Dheeraj, Arty	IC-60230 Pawan Kumar, Sigs
IC-60191 Inderjit Singh, Inf	IC-60231 Rajeev Kaushik, Inf

IC-60232 Manmohan Thakur, Arty	IC-60273 Vikram Vinayak Kelkar, Arty
IC-60233 Sharang Pun, Inf	IC-60274 Sandeep Kumar, ASC
IC-60234 Ripjeet Singh Rai, Inf	IC-60275 Aninda Mandal, AC
IC-60235 Akshay Bahl, Inf	IC-60276 Ram Rattan, EME
IC-60236 Suresh Gurav, Engrs	IC-60277 Surendra Singh, Sigs
IC-60237 Vishal Ashokrao Aher, Inf	IC-60278 Rup Kumar Singh, EME
IC-60238 Shailender Singh Katoch, AD Arty	IC-60279 Neeraj Kumar, Arty
IC-60239 Avishek Mukherjee, Inf	IC-60280 Nikhil Pandey, AD Arty
IC-60240 Anirudh Bhushan Agarwal, Engrs	IC-60281 Nitin Kumar, Engrs
IC-60241 Shalu Raja, EME	IC-60282 Arijit Narayan Mukhopadhyay, Inf
IC-60242 Raakesh Vasanth Thayyil, Sigs	IC-60283 Amit Dogra, Inf
IC-60243 Kuldip Singh, AOC	IC-60284 Rajeshwar Jamwal, Inf
IC-60245 Vikas Gautam, Sigs	IC-60285 Amrut Kulkarni, Sigs
IC-60246 Jitesh R Dixit, Inf	IC-60286 NS Viveka Murthy, Arty
IC-60247 Sameer Balwantrao Gujar, Inf	IC-60287 Rajdeep Singh Jamwal, ASC
IC-60248 Manoj Kumar Upadhyay, Inf	IC-60288 Vikas Kumar, Sigs
IC-60249 Anup Agrawal, Inf	IC-60289 Paresh Bhaskar Deshpande, Inf
IC-60250 Harpreet Sandhu, Inf	IC-60290 Rajnish Singh Parmar, Engr
IC-60251 Tanmay Pathak, Inf	IC-60291 Subhashish Chakarvarty, Inf
IC-60252 V Girish, AOC	IC-60292 Ashutosh Srivastava, Arty
IC-60253 Kamal Nauriyal, Inf	IC-60293 Sarang Manohar Chavan, Inf
IC-60254 Saurabh Chaudhary, Engrs	IC-60294 Nishkam Puri, Engrs
IC-60255 Rajender Singh, Inf	IC-60295 Rochak Bakshi, Arty
IC-60256 SV Shyaam Prashanth Namas, Arty	IC-60296 Kanishk Singh, AC
IC-60257 Rajeshwar Singh, AD Arty	IC-60297 Vinay Kumar Pathak, Arty
IC-60259 Saket Suman, Inf	IC-60298 Santosh Kumar Tripathi, Inf
IC-60260 Sushant Govil, Inf	IC-60299 Vishal Sharma, Arty
IC-60261 Patil Rohit Ramesh, Inf	IC-60300 Arvind Kumar Thakur, AOC
IC-60262 Chinna Dasari Srinivas, Arty	IC-60301 Sudhir Singh Bisht, Inf
IC-60263 Anurag Singh, Arty	IC-60302 Manu Sooden, Inf
IC-60264 Mandar Madhav Bhalerao, Sigs	IC-60303 Rahul Shukla, EME
IC-60265 Kumar Gaurav, Engrs	IC-60304 Shelley K Das, AD Arty
IC-60266 Gurinder Singh, Int	IC-60305 Rajender Pal Singh Sandhu, ASC
IC-60267 Paresh Singhal, Inf	IC-60306 Ramneek Singh Bhabra, Inf
IC-60268 Nigel Charles D Costa, Arty	IC-60307 Abhay Acharya, Mech. Inf
IC-60269 Puneet Sharma, Engrs	IC-60308 Amey Ashok Kale, EME
IC-60270 Chalamala Setti Linesh Kumar, Arty	IC-60309 Suresh Kumar, Sig
IC-60271 Pankaj Kumar Singh Kushwaha, EME	IC-60310 Rajiv Kumar Singh, EME
IC-60272 Ajay Rawat, AOC	IC-60312 Gourishankar A Pillai, Int

- IC-60313 Ravindra Rananavare, Inf
 IC-60314 Krishan Kant Giri, Arty
 IC-60315 Chetan Kumar, Engrs
 IC-60316 Bhavneet Singh, Arty
 IC-60317 Abhinav Batra, EME
 IC-60318 Amit Nath, AOC
 IC-60319 Rajesh Mehta, Inf
 IC-60320 Vinay Sharma, Engr
 IC-60321 Ashish Misra, Inf
 IC-60323 Avneesh Singh, Inf
 IC-60324 Chendil Kumar J, Mech. Inf
 IC-60325 Manish Khatri, EME
 IC-60326 H Gopala Krishnan, Sigs
 IC-60327 Rajesh Vilas Hankare, Inf
 IC-60328 Digamber Singh, Inf
 IC-60329 Tarun Dua, Arty
 IC-60330 Mahesh Taneja, Inf
 IC-60331 KM Santhosh, EME
 IC-60332 Vinod Singh, Inf
 IC-60333 Ompal Singh, AC
 IC-60334 Cyril Anthony Satur, AC
 IC-60335 Kunwar Anuraag Singh, Arty
 IC-60336 Satvinder Singh Sidhu, Engrs
 IC-60337 Nitin Sharma, Arty
 IC-60338 Jaswinder Singh, Sigs
 IC-60339 Ashish Prakash Kandwal, Inf
 IC-60340 Tribhuvan Narain Singh, Inf
 IC-60341 Pawan Anil Joshi, AOC
 IC-60342 Gurcharan Singh, Arty
 IC-60343 Sanjay Sandye, AD Arty
 IC-60345 Ajeet Baswan, Mech.. Inf
 IC-60346 Ratnakar Gouda, Engrs
 IC-60347 Amit Ranjan, AOC
 IC-60348 Beerendra Singh Waldiya, Arty
 IC-60349 Sundeep Singh Walia, Arty
 IC-60350 Abhishek Mall, Inf
 IC-60351 Jaswinder Singh Gill, Inf
 IC-60352 Kamlesh Singh Rathore, Arty
 IC-60353 Satpal Singh Negi, Inf
 IC-60354 Ashu Suri, Inf
 IC-60355 Sanjeev Kumar, AOC
 IC-60356 Shikharesh Vatsa, EME
 IC-60357 Nimbalkar Parag Sambhaji, Arty
 IC-60358 Sandeep Singh, Arty
 IC-60359 Dushyant Kumar, Arty
 IC-60360 Kuldeep Singh Shekhawat, Inf
 IC-60362 Rajendra Prasad, Sigs
 IC-60363 Kamal Bachani, Arty
 IC-60365 Parag Doval, Engrs
 IC-60366 Dhiraj Suhas Joshi, EME
 IC-60368 Harpreet Singh, Inf
 IC-60369 Himanshu Panwar, Inf
 IC-60370 Amit Rana, AC
 IC-60371 Abhishek Kumar Verma, Sigs
 IC-60372 Bhate Amol Arvindrao, ADArty
 IC-60373 Anil Venkataramani, EME
 IC-60374 Jitesh Arora, Engrs
 IC-60375 Sanjog Singh Thapa, Engrs
 IC-60376 T Joy Kumar, Sigs
 IC-60377 Anirudh Shekhawat, AC
 IC-60378 Abhijit Singh, Arty
 IC-60379 Ranyodh Singh, Inf
 IC-60380 MK Sushant, AC
 IC-60381 Aveek Konar, Inf
 IC-60382 Laitonjam Rockson, Inf
 IC-60383 Deepak Singhal, Inf
 IC-60385 Pankaj Kumar Sinha, Inf
 IC-60386 Manish Singh, Inf
 IC-60387 Ashish S Borgaonkar, Arty
 IC-60388 Ashutosh Sahai, ASC
 IC-60389 Vipul Menon, Mech. Inf
 IC-60390 Lalit Mohan Mishra, Inf
 IC-60391 Rishi Mohan, Inf
 IC-60392 Bharat Pratap Singh Tomar, Engrs
 IC-60393 Akash Sharma, Engr
 IC-60394 Mahendra Singh Rawat, Inf
 IC-60395 Rahul Sharma, ASC
 IC-60396 Ravindra Pratap Singh, EME

IC-60397 Sunil Kumar, Inf	IC-60436 Sandeep Kumar Singh, AC
IC-60398 Vinod Atri, AC	IC-60437 Vikas Bhomia, Engr
IC-60399 Sandeep Singh Thakur, EME	IC-60438 Rishi Pal Singh, Sigs
IC-60400 Jasraj Singh, Arty	IC-60439 Chirag Singh Barak, Mech. Inf
IC-60401 Gaurav Narang, Engrs	IC-60440 Deeraj Arora, Inf
IC-60402 Sanjeev Kumar Thakur, ASC	IC-60441 Partha Pratim Dubey, Inf
IC-60403 Vijay Kishore Jha, Sigs	IC-60442 Vinod Kumar Sheoran, Inf
IC-60404 Narendra Prasad Semalti, Inf	IC-60443 Davender, Arty
IC-60405 Amandeep Singh, Inf	IC-60444 K Chandra Mohan Reddey, Sigs
IC-60406 Vishal Mudre, Inf	IC-60446 Navinder Singh Mann, Inf
IC-60407 Sandesh Kumar, AD Arty	IC-60447 Binish CT, EME
IC-60408 Amit Jakhar, EME	IC-60448 Nirmalenda Pande, Inf
IC-60409 Ranjeet Duggal, AOC	IC-60450 Piyush Sood, Inf
IC-60410 Mandar Ulhas Bhandekar, Arty	IC-60451 Abishek Tomer, Arty
IC-60411 Shashank Parmar, Inf	IC-60452 Kanwar Deep Singh Bajwa, Inf
IC-60412 Rajnish Mehta, EME	IC-60453 Harish Ramchandran, Inf
IC-60413 Anmol Taneja, AD Arty	IC-60454 Salil Puri, Sigs
IC-60414 Dhiraj Khanna, Arty	IC-60455 Kesari Singh Rathore, AD Arty
IC-60415 Dharmesh Dalal, Inf	IC-60456 Sachin Pandey, Engr
IC-60416 Arjun Andotra, AOC	IC-60457 Rahul Banerjee, Engr
IC-60417 Aman Vashisht, Engr	IC-60458 Wagle Vishal Raghunandan, EME
IC-60418 Sunil Kumar Singh, Engr	IC-60459 Ashok Kumar Sharma, Arty
IC-60419 Pramod Singh Chauhan, Inf	IC-60460 Nitin Mishra, Engrs
IC-60420 Sapanesh Kishor Sahu, Sigs	IC-60461 Manat Hussain, Inf
IC-60421 Amit Mohan, ASC	IC-60463 Abhishek Bachchan, AOC
IC-60422 Lejy Jacob John, Inf	IC-60465 Gagan Deep Singh, ASC
IC-60423 Shubhankar Mishra, Inf	IC-60466 Lekh Raj, Mech. Inf
IC-60424 Pratap Sandhibigraha, Arty	IC-60467 Himmat Singh Dhillon, Inf
IC-60425 Stephen Dcosta, Arty	IC-60469 Hanamant Patil, Inf
IC-60426 Avinash D Hemmady, Inf	IC-60470 Rajneesh Tyagi, Inf
IC-60427 Prasenjit Kar, Inf	IC-60471 Arnab Kumar Deb, AOC
IC-60428 Upendra Kumar Srivastava, Arty	IC-60472 Soumasish Goswami, Inf
IC-60429 Pratheesh G, EME	IC-60473 Sachin Saxena, Sigs
IC-60430 Kulkarni Abhijit Mukund, Sigs	IC-60474 Shailendra Rawat, Arty
IC-60431 Shaik Mastan Vali, ASC	IC-60475 Ranjeev Kumar Sharma, Arty
IC-60432 Sandeep Singh Chauhan, Arty	IC-60476 Sunil Kumar Singh, Arty
IC-60433 Anurag Bahl, Inf	IC-60477 Virinder Sidhu, Inf
IC-60434 Vijay Kumar Chaubey, Arty	IC-60478 Kanchan Kumar, EME
IC-60435 Akhilesh Thapa, Inf	IC-60479 K Srikant, Arty

IC-60480 Devender Tehlan, Inf
 IC-60481 Vineet Chopra, Mech. Inf
 IC-60482 Amit Kumar, Inf
 IC-60483 Ashish Chauhan, EME
 IC-60484 Syed Tabrez Shamshad, Engr
 IC-60485 Manish Kumar Singh, Sigs
 IC-60486 Ratnadeep Khan, Arty
 IC-60487 Umang Kohli, AC
 IC-60488 Arun Kumar Sahu, ASC
 IC-60490 Akhilesh Mohan Tiwari, EME
 IC-60491 Pankaj Sharma, AOC
 IC-60492 Sukhdev Singh Nagiyal, AD Arty
 IC-60493 Tuhin Chaudhary, AC
 IC-60494 Mohd Shabbir Jariwala, AC
 IC-60495 Siddharth Hiremant, Engr
 IC-60496 Sidhartha Mukherjee, AD Arty
 IC-60500 V Mahesh, AC
 IC-60501 Bhaskar Kataria, Inf

—09 Dec 2004—

IC-62928 Admuthe Shashikiran Bacchappa, EME
 IC-62929 Sukhjeet Singh, Sigs
 IC-62930 Manish Singh, Sigs
 IC-62931 Gurinder Pal Singh Sandhu, EME
 IC-62932 Manoj Kumar Ghosh, Engr
 IC-62933 Parvinder Singh Saini, Engr
 IC-62934 Prahlad Oinam, EME
 IC-62935 T Prashant, EME
 IC-62936 Mandar Chandrashekar Kodnikar, Engr
 IC-62937 Rajneesh Shukla, Sigs
 IC-62938 Sanjay Kumar, Engr
 IC-62939 Gaurav Mishra, EME
 IC-62940 Ranjan Negi, Engr
 IC-62941 Bhagwat Mukund Keshav, Sigs
 IC-62943 V Raju, Engr
 IC-62944 Rohit Ramachandra Patted, Engr
 IC-62945 Mohit Bisht, Engrs
 IC-62947 Abhijit Kotasthane, EME
 IC-62948 Ashish Goyal, Engr
 IC-62949 Anshu, EME

IC-62950 Kulbhushan Sharma, Sigs
 IC-62951 Yaameer Tewari, Engr
 IC-62952 Mukesh Srivastava, Sigs
 IC-62953 Nitin Kumar, Engr
 IC-62955 Alexander Ian Dornnic, EME
 IC-62956 Patil Manadar Raosaheb, EME

—10 Dec 2004—

IC-60506 Vishal Singh, AC
 IC-60507 Surendra Vikram Singh, Sigs
 IC-60508 Nachhattar Singh, Engrs
 IC-60509 Sunil Singh Sengar, EME
 IC-60510 Kumar Amit, Mech. Inf
 IC-60511 Nisith Ranjan Choudhury, Inf
 IC-60512 Somen Parida, Arty
 IC-60513 Bimidi Aravind Santosh, Engrs
 IC-60514 Sandeep Singh, EME
 IC-60515 Abhishek Saxena, Arty
 IC-60516 Vimal Tikoo, Inf
 IC-60517 Sunil George Thomas, Inf
 IC-60518 Suvendu Padhy, Arty
 IC-60520 Krishan Yadav, ASC
 IC-60521 Ankur Sharma, Inf
 IC-60522 Vikram Shahancy, Inf
 IC-60523 Arpit Yadav, Sigs
 IC-60524 Rohit Kumar Dhawan, Arty
 IC-60525 Kumar Gaurav Mehta, AOC
 IC-60526 Ravjeet Singh, AC
 IC-60527 Vijay Singh Mehta, Inf
 IC-60528 Sajal Shukla, Inf
 IC-60529 Ravi Kumar, Inf
 IC-60530 Amit Kanodia, Inf
 IC-60531 Vikas Gautam, Sigs
 IC-60532 Chetan Masoan, ASC
 IC-60533 Gaurav Jindal, Inf
 IC-60534 Aaditya Chaitanya, AD Arty
 IC-60535 Arunashish Sanyal, Arty
 IC-60536 Amit Chaudhary, Arty
 IC-60537 Kapil Dev Pangotra, Mech. Inf
 IC-60538 Mridul Kamal Gaiind, Inf

IC-60539 Gaurav Kapur, Engrs	IC-60579 Amitabh Bhardwaj, Sigs
IC-60540 Sachin Kaushik, EME	IC-60580 Modi Manishkumar Madhusudan, AD Arty
IC-60541 Gagandep Singh Chimni, Arty	IC-60581 S Muralidharan, EME
IC-60542 Harpreet Singh, Sigs	IC-60582 Brinder Singh, Sigs
IC-60543 Ranjeet Singh, EME	IC-60583 Sudhendra Singh Lamba, Inf
IC-60544 Jawaharlal B Sharma, Inf	IC-60584 Sandeep Rawat, Inf
IC-60545 Naval Joshi, Engrs	IC-60585 Harmeet Singh, Inf
IC-60546 Samarendra Singh, Arty	IC-60586 Ranjith AP, Arty
IC-60547 Ashish Upreti, Engrs	IC-60587 Abhishek Joshi, Engrs
IC-60548 Pawanjeet Singh Bhullar, AC	IC-60588 Jaideep Singh Patial, Inf
IC-60549 Vikrant Sharma, Inf	IC-60589 Rahul Tyagi, Inf
IC-60550 Kapil Kumar, Arty	IC-60590 Ajay Kushwaha, Arty
IC-60551 Kapil Gaur, Inf	IC-60591 Naresh Kumar, Arty
IC-60552 Mayank Farwaha, Mech. Inf	IC-60592 Vaibhav V Kurundwadkar, EME
IC-60553 Jitender Kumar, AC	IC-60593 Bikram Singh, ASC
IC-60554 Sanjeev Y Kodathe, Sigs	IC-60594 Suraj Bisht, Inf
IC-60555 Sagar Rana, EME	IC-60595 R Richardson, Inf
IC-60556 Anoop Kumar Yadav, Inf	IC-60596 Gurpreet Singh, Inf
IC-60557 Anoop Kunwar, Inf	IC-60597 Sachin Jain, Inf
IC-60558 Shri Krishan, Arty	IC-60598 Punyadeep Singh Paul, Engrs
IC-60560 Aman Mohan, Inf	IC-60599 Deepak Taluja, AD Arty
IC-60561 Rajesh Kumar Jha, Inf	IC-60600 Siddartha Basu, AC
IC-60562 Mandar Joglekar, Inf	IC-60601 Harsh Chandra Rastogi, EME
IC-60563 Satish Nagar, ASC	IC-60602 Ashwani Dangwal, Sigs
IC-60564 Akshay Bhaurao Daine, Inf	IC-60603 Kamal Mishra, Inf
IC-60565 Niraj Srivastava, Inf	IC-60604 Niren Chaudhary, Mech. Inf
IC-60566 Ravinder Kumar, AOC	IC-60605 Satpal Bishnoi, Arty
IC-60567 Amit Ranjan, EME	IC-60606 Satish Kumar Misra, Arty
IC-60568 Sharanabasaweshwara C Murangundi, Engrs	IC-60608 Keisham Debendra, Inf
IC-60569 Brijesh Pant, Arty	IC-60609 Ambuj Kumar Sachan, Arty
IC-60570 Shashwat Sahotra, Arty	IC-60610 Surya Prakash Yadav, Engrs
IC-60571 Harshal Dixit, Int	IC-60611 Karan Chadha, Mech. Inf
IC-60572 C Karthik, Inf	IC-60612 Divya Vivek Kaushal, AD Arty
IC-60573 Gaurav Rathaur, Arty	IC-60613 Amit Kumar Singh, Arty
IC-60574 Sandeep Kumar, ASC	IC-60614 Nisheeth Khanna, Sigs
IC-60575 Brahm Kishore, AC	IC-60615 Prem Chand, Arty
IC-60576 Pramod Kumar Mishra, AOC	IC-60617 Avinash Bist, AC
IC-60577 Khan Saad, AD Arty	IC-60618 Pawandeep Singh Bajwa, AD Arty
IC-60578 Bajjit Singh, Engrs	IC-60619 Vishal Puri, Arty

- IC-60620 Hans Raj Bhagat, ASC
IC-60621 Vidya Sagar Gurung, Inf
IC-60622 Saurabh Agrawal, Sigs
IC-60623 Kunal Bhat, Engr
IC-60624 Rajarshi Das, Inf
IC-60625 Pankaj Singhai, Inf
IC-60626 Manabendra Karmakar, Inf
IC-60627 Tabva Ramesh Kumar, EME
IC-60628 Amit Gupta, Inf
IC-60629 Nikhil Agarwal, Engrs
IC-60630 Raj Kumar Thapa, Arty
IC-60631 Sajid Ahmed Khan, AC
IC-60632 Saurabh Charan, Inf
IC-60633 R Venkat Varaha Narasimha Rao, EME
IC-60634 Sachin Dev Ranyal, Sigs
IC-60635 Sumit Dhasmana, AOC
IC-60636 Prashant Misra, Inf
IC-60637 Manish Kumar, Engrs
IC-60638 Sangram Balkrishna Yadav, Inf
IC-60639 Prajnan Bhattacharya, Inf
IC-60640 Vivek Kumar Singh, Arty
IC-60641 Devendra Kumar, Inf
IC-60642 Dhirender Yadav, Inf
IC-60643 Yodhvir Singh Lehl, Arty
IC-60644 Amit Shetty, EME
IC-60645 Bhupinder Singh Katal, Engrs
IC-60646 M Radha Krishnan, Inf
IC-60647 Ashwin A Yakkundi, Sigs
IC-60648 Vikrant Mehta, AC
IC-60650 B Chakrabarti, Inf
IC-60651 Sutikshan Rana, ASC
IC-60652 Ranjit Ramachandra Patil, AOC
IC-60653 Surindra Jeet Singh, EME
IC-60654 Kingshook Biswas, Arty
IC-60655 Sumeet Sawankumar Manchanda, Sigs
IC-60656 Anuj Singh, Inf
IC-60657 Cheethirala Ashok, Inf
IC-60658 M Ravi Chandran, Arty
IC-60659 Deepak Singh Patwal, Inf
IC-60660 Narendra Kumar Kapse, Inf
IC-60661 Nalinesh Kumar Singh, AD Arty
IC-60662 Pushkar Anand, Inf
IC-60663 Gaurav K Chopra, Engrs
IC-60664 Vivek Gopal, EME
IC-60665 Sunil Tamang, Arty
IC-60666 Kamaldeep Singh Salaria, Inf
IC-60667 Vikas Girdhar, EME
IC-60668 Vinay Kumar Gautam, Arty
IC-60669 Navneet Dahiya, Inf
IC-60670 Rahul Chauhan, Inf
IC-60671 Amit Agarwal, ASC
IC-60673 Kuldeep Saiwal, Sigs
IC-60674 Subhendu Das, Engrs
IC-60675 Khum Bahadur Chand, Inf
IC-60676 Snigdha Chandan Ray Burman, Engrs
IC-60677 Ramesh Prasad, Inf
IC-60678 Priyavrat Singh Tomar, AD Arty
IC-60679 Devendra Singh, Arty
IC-60680 Rohit Dagar, AC
IC-60681 Lokendra Singh, Inf
IC-60682 Asit Ranjan Sahoo, Inf
IC-60683 Badsha Ghosh, Inf
IC-60684 Ambar Kumar, AD Arty
IC-60685 Manish Dalal, Sigs
IC-60686 Muralee Gopal, Arty
IC-60687 Pradeep Singh Sidhu, AC
IC-60688 Ajay Mathew, Sigs
IC-60689 Bhaskar Rautela, Engrs
IC-60690 Kumar Vikram Singh, Inf
IC-60691 Anurag Mohapatra, Mech. Inf
IC-60692 K Jaypal, EME
IC-60693 Ravindra Kumar, AOC
IC-60694 Nitin Joshi, Int
IC-60696 Shivendar Kumar, Inf
IC-60697 Rakesh Sharma, Mech. Inf
IC-60698 Alok Dua, Engrs
IC-60699 Tushar Kumar, Arty
IC-60700 Davinder Singh Gill, Engrs

IC-60701 Gyaneshwar Jadli, EME	IC-60746 Harkanwal Singh, Sigs
IC-60702 Kapil Jauhari, Arty	IC-60747 S Vengatesan, Sigs
IC-60703 Vikram J Meioor, Inf	IC-60748 Gурpal Singh Chahal, Inf
IC-60704 Belliappa CS, Inf	IC-60749 Vivek Garg, Inf
IC-60705 Manu R Mahesh, Arty	IC-60750 Manish Tewari, AC
IC-60707 Prosenjit Chakraborty, Inf	IC-60751 Gurminder Singh, Sigs
IC-60708 Vivek Mishra, Inf	IC-60752 Amarjeet Dass, AD Arty
IC-60709 Ankur Sharma, EME	IC-60753 James Stephen, Inf
IC-60711 Manish Singh, Arty	IC-60754 Nishant Chaturvedi, Sigs
IC-60712 Uttam Kumar Singh, Inf	IC-60755 Rahul Sankhyan, Inf
IC-60713 Sabyasachi Rath, Arty	IC-60756 T Raja Perianan, AD Arty
IC-60714 Ashish Singh Pundhir, AC	IC-60757 Om Prakash, Inf
IC-60715 Ajay Bir Singh, Sigs	IC-60758 Ashish Agarwal, Inf
IC-60716 Rakshak Gupta, Engrs	IC-60759 Ruchir Gupta, Engrs
IC-60717 Avishkar Sharma, ASC	IC-60760 Abhishek Ahlawat, AOC
IC-60718 Ashish Chopra, Inf	IC-60761 Vikas Atri, Inf
IC-60719 Shajil V P, Engrs	IC-60762 Ghorpade Prasad Babusaheb, Inf
IC-60720 Pankaj Kumar Sahni, Arty	IC-60763 Partho Raj Deb, Arty
IC-60721 Manish Mohan Thind, Arty	IC-60765 K Nishant Nair, Inf
IC-60722 Pankaj Joshi, Engrs	IC-60766 Alex Paul Thomas, Engrs
IC-60723 Rajesh Kumar Sinha, AOC	IC-60767 Jithin Nath R, Arty
IC-60724 Balvinder Chauhan, EME	IC-60768 Girish Chandra, ASC
IC-60725 Vikram Singh, Mech. Inf	IC-60769 Ravi Kant Rai, Sigs
IC-60726 Shivesh Gautam, AD Arty	IC-60770 Ashish Gupta, EME
IC-60728 Vikram Sataprao Nalawade, Inf	IC-60771 Thopte Vijay Sinh Sarje Rao, Inf
IC-60729 Praveen Kumar M Chaudhari, EME	IC-60772 Rohit Gaira, AC
IC-60730 Khandekar Baburao Shamrao, Inf	IC-60773 Praful Nangia, Arty
IC-60731 I Vishal Anand, Arty	IC-60774 Praveen Kumar Agrawal, Arty
IC-60732 Kavi Kratu, Inf	IC-60775 Satish Kumar Sinha, Inf
IC-60733 Abhishek Sharma, AC	IC-60776 Partha Pratim Mahato, Engrs
IC-60734 Harmohit Singh, Inf	IC-60777 Deepak Bhan, AD Arty
IC-60736 Anang Kukrety, Inf	IC-60778 Manish Gairola, EME
IC-60738 Ashish T, Inf	IC-60779 Khare Rocky Surendra, Int
IC-60739 Rajesh Kumar, Inf	IC-60780 Tarun Sharma, Mech/Inf
IC-60740 Ram Sagar Mishra, Inf	IC-60781 Kamaljeet Budhwar, Arty
IC-60741 Sudeep Dutta, Arty	IC-60782 Akhilesh Kumar, Inf
IC-60742 Ankur Kumar, AC	IC-60783 Amarjeet Sharma, Int
IC-60743 Shashi Kant Sharma, Arty	IC-60784 Ajay Chawdhary, Arty
IC-60745 Ghanishyam Suryakant Hawal, Engrs	IC-60785 Kunal Sharma, Inf

IC-60786 Udit Jain, Sigs	IC-60828 Sarthak Biswas, Engrs
IC-60787 Ankush Markan, Inf	IC-60829 Rachit Mathur, Sings
IC-60788 Parag Kabat, Arty	IC-60830 Ajay Singh Parmar, Arty
IC-60789 Balendu Kumar Pandey, ASC	IC-60831 Arun Kumar Tiwari, Arty
IC-60790 Vijay Ratna Gurung, ASC	IC-60832 Nitin Mangain, Inf
IC-60791 Saurabh Priya Singh, AOC	IC-60833 Pranay Singh, Inf
IC-60793 Siddharth, Inf	IC-60834 Hemant Sahni, Inf
IC-60794 Yogesh Pal Singh, EME	IC-60835 Manish Kukreti, AC
IC-60795 Anshul Ashesh, Engrs	IC-60836 Vinson Joy, Int
IC-60796 Kush, Sigs	IC-60837 J Satish Bharadwaja, Engrs
IC-60797 Mandeep Singh Sandhu, Inf	IC-60838 Naorem Ranjan Singh, Inf
IC-60798 Adwait Shrikant Gadre, Inf	IC-60839 Parul Anand, EME
IC-60799 Akhil Krishan Khanna, Arty	IC-60840 Jitender Kumar, Inf
IC-60800 Neeraj Pandey, Inf	IC-60841 Ankit Kohli, AD Arty
IC-60801 Gurjeet Pal Singh Gill, Inf	IC-60842 Ramu Ranganathan, Arty
IC-60802 Rahul, EME	IC-60844 Netra Bahadur Rokaha, Mech/Inf
IC-60804 Avinash Kumar, AD Arty	IC-60845 Vinay Dubey, Inf
IC-60805 Ashok Kumar, Arty	IC-60846 Sidharth Bhangotra, Arty
IC-60806 Santosh Nainwal, Engrs	IC-60847 Neelam Dattatray Patil, Arty
IC-60807 Manoj Prakash Pathak, Mech/Inf	IC-60848 Rajendra Kumar Andola, Sigs
IC-60808 Pramod Kumar Ray, Engrs	IC-60849 Bhupinder Singh, Inf
IC-60809 Akshay Chakravarty, Engrs	IC-60850 Rajneesh Gupta, Engrs
IC-60810 Abhishek Singh, Sigs	IC-60851 Subhor Bahuguna, Inf
IC-60811 Diwakar Bhardwaj, EME	IC-60852 Debashish Chatterjee, Inf
IC-60812 Ritu Raj, ASC	IC-60853 Anshuman Bhadauria, Inf
IC-60813 Brid Sachin Sadanand, Engrs	IC-60854 Potnis Bhushan Rajanikant, AD Arty
IC-60814 Ravneet Singh Bedi, Sigs	IC-60855 Samir Mathur, Arty
IC-60815 Vijay Singh Tomar, Mech/Inf	IC-60856 Manish Mahendra, Inf
IC-60816 Razzaque Adil Khan, Inf	IC-60857 Sudeshwar Sharma, AC
IC-60817 A Chandra Shekhar Rao, AD Arty	IC-60858 Arun Murthy, AC
IC-60818 Shailendra Kumar Singh, EME	IC-60859 Lawand Dipak Prabhakar, EME
IC-60819 Rohitash Kumar, ASC	IC-60860 Sujoy Sen, Mech/Inf
IC-60820 Azmi Iqbal Siddiqui, Inf	IC-60861 Gaurav Dogra, Inf
IC-60821 Vineet Raman Sharda, Arty	IC-60862 Suvranshu Sinha Roy, Inf
IC-60822 Dhiresb Narain, EME	IC-60864 Faiz Siddiqui, ASC
IC-60823 Gaurav Singh, Engrs	IC-60865 S Sareesh, Sigs
IC-60824 TS Lokesh, Inf	IC-60866 Amit Saxena, Int.
IC-60825 Harsh Mishra, Inf	IC-60867 Vijay Prakash Negi, AOC
IC-60827 Sanjeev Kumar Punia, Inf	IC-60868 Roopesh Srivastava, Sigs

IC-60869 Hement Kumar, Engrs	IC-60911 Anoop Kumar Nair, Inf
IC-60870 Chindit Hanglem, Inf	IC-60912 Satbir Singh, Inf
IC-60871 Bindu Someshwar VijayKumar, Arty	IC-60913 Pushpinder Pal Singh Mann, Inf
IC-60872 S Shiv Sankar, Inf	IC-60914 Deepak Routaray, Inf
IC-60873 Digvijay Singh, Engrs	IC-60915 Ghanta Jithender Reddy, AOC
IC-60874 Siddharth Ujjwal, ASC	IC-60916 Manoj Kumar Rana, Arty
IC-60875 Aiyappa Pemmaiah, Engrs	IC-60917 Vikram Sarin, AC
IC-60876 Kapil Malik, Arty	IC-60918 Rahul Shrivastava, Engrs
IC-60877 Kavia Ravindra Singh Shankar Singh, Arty	IC-60919 Sunil Kumar, Inf
IC-60878 Vishal Vikram Singh, EME	IC-60920 B Kesava Krishna, Arty
IC-60879 Sunil Dagar, Arty	IC-60921 Hemender Singh Sirohi, ASC
IC-60880 Deepak MR, EME	IC-60922 Deependra Sirohi, ASC
IC-60881 Kapil Shresth, ASC	IC-60923 Rupesh Gupta, EME
IC-60882 Chandra Prakash Singh, Inf	IC-60924 Vishal Sharma, AOC
IC-60884 Yarlagadda Bhanu Prasad Nayudu, Sigs	IC-60925 Kadam Anil Ambaji, Mech. Inf
IC-60885 Anil Kumar Mehra, Inf	IC-60927 Rajinder Mohan Raizada, AD Arty
IC-60886 Atul Dang, AD Arty	IC-60928 Tarun Kumar Bharadwaj, Inf
IC-60888 Vijay Singh, Inf	IC-60930 Binaya Kumar Bisoi, Arty
IC-60889 Vivek Behl, Engrs	IC-60931 Rohit Dalal, Inf
IC-60890 Surinder Singh, Inf	IC-60932 Vijaya Kumar Thannate, Inf
IC-60891 Isaac VL Sailo, Inf	IC-60933 Ajit Kumar, Inf
IC-60893 Ashutosh Misra, Inf	IC-60934 Priyank Kushwaha, Engrs
IC-60894 Arindam Chatterjee, EME	IC-60935 Pradeep Kumar, Sigs
IC-60895 Sumit Duseja, Arty	IC-60936 Gaurav Chib, Engrs
IC-60896 Lalu Kumar MV, AD Arty	IC-60937 Dinesh Dangwal, Int
IC-60897 Deep Chander Kala, Inf	IC-60938 Naresh Kundu, EME
IC-60898 Bhargave Anand Arvind, Arty	IC-60939 Gaurav Mehra, Arty
IC-60899 Adarsh Kumar Dagar, Arty	IC-60940 Sumukh Sadanand SHEVDE, Arty
IC-60900 Ravindra Kumar, Inf	IC-60941 Dhruva Verma, Arty
IC-60901 Krishna Mohan Mohaty, ASC	IC-60942 Manik Chopra, Arty
IC-60902 Kamal Kishore Phulera, Arty	IC-60944 Rahul Chaturvedi, Engrs
IC-60903 Subhajeet Naha, Sigs	IC-60945 Mathew PA, Inf
IC-60904 Gaurav Ghai, Arty	IC-60946 Abhishek Das, Inf
IC-60905 Nikhil Sankaran, Engrs	IC-60947 Vikrant Vivek Deshpande, Sigs
IC-60906 Yogendra Singh, Sigs	IC-60948 Girish Chandra Godiyal, Inf
IC-60907 Mukul Gupta, Int	IC-60949 Vikas Sahgal, Sigs
IC-60908 Jagdish Singh Dhapola, EME	IC-60950 Devinder Kumar Budhraj, AC
IC-60909 SSS Sriram Somanchi, Engrs	IC-60951 Navjot Singh, Inf
IC-60910 Rajesh Kumar Singh, Mech. Inf	IC-60952 Pratap Singh Sekhon, AD Arty

IC-60954 Bikram Singh Kanwar, Sigs	IC-60995 Vijay Singh Tanwar, Inf
IC-60955 Ajay Singh, Sigs	IC-60996 Vikas Kakkar, ASC
IC-60956 Vikas Bhandari, Mech. Inf	IC-60997 N Navalesh, Inf
IC-60957 Sachin Tiwari, Arty	IC-60998 Pankaj Narayan, AC
IC-60958 Devendra Mishra, Engrs	IC-60999 Anurag Mishra, Sigs
IC-60960 Amit Kumar, Engrs	IC-61000 Taposh Munjal, EME
IC-60961 Gobinda Rao, AD Arty	IC-61001 Reddy Himanshu, Engrs
IC-60962 Avinash Shekhar Saraf, Engrs	IC-61002 Harsh, AD Arty
IC-60963 Ravindra Kumar Gurang, Arty	IC-61003 Gaurav Singh Gosain, Engrs
IC-60964 Sanjay Kumar, Engrs	IC-61004 Vinay Kumar, ASC
IC-60965 Vivek Bhardwaj, Int	IC-61005 Deepak Kumar, AOC
IC-60966 Chinmoy Zananc, Inf	IC-61006 Vivek Kumar Bali, Arty
IC-60967 Sambhav Giri, AC	IC-61007 Mitesh Kumar Sinha, Inf
IC-60968 Prashant Mishra, Inf	IC-61008 Kapil Awasthi, EME
IC-60969 Pratap Kumar Mishra, Inf	IC-61009 Prashant Paul, Inf
IC-60970 V Suresh Kumar, Inf	IC-61010 Tushar Kaushik, Sigs
IC-60971 Manish Mehrotra, Inf	IC-61011 Rajesh Koundal, Inf
IC-60972 Pankaj Kumar Singh, EME	IC-61012 Vineet Saurabh, AC
IC-60974 Gaurav Bajpai, AOC	IC-61013 Ravinder Singh Jamwal, Inf
IC-60975 Kailash Jha, Inf	IC-61014 Sumit Kohli, Arty
IC-60976 Sarangthem Hritesh Singh, EME	IC-61016 Atul Katoch, Sigs
IC-60977 Tarun Misra, Inf	IC-61017 Anand Shanker, Arty
IC-60978 Vivek Sheel, Arty	IC-61018 Anurag Mahajan, Inf
IC-60979 Prashant Tyagi, EME	IC-61019 Atul Kumar Sharma, Inf
IC-60980 Armit Bajpai, Sigs	IC-61020 MP Bahekar, EME
IC-60981 Vivek Kumar, Arty	IC-61021 Yash Vardhan Patel, Inf
IC-60982 Kausik Ghoshal, Arty	IC-61022 Alok Yadav, Sigs
IC-60983 Armit Sharma, AC	IC-61023 Alexander Prasanna Kumar, Engrs
IC-60984 Navdeep Harnal, Mech. Inf	IC-61024 Timothy Krehe, Inf
IC-60985 Rajesh Kumar Jha, Arty	IC-61025 Amit Gaur, EME
IC-60986 Amit Negi, Engrs	IC-61026 Maneesh Malviya, AD Arty
IC-60987 Harish Sharma, AD Arty	IC-61027 Jagdish Singh Dhull, Mech/Inf
IC-60988 Soumash Kumar Mukherjee, Arty	IC-61028 Pankaj Banyal, Engrs
IC-60989 Gurinder Singh, Arty	IC-61029 Vivek Gupta, INT
IC-60990 Amit Kumar Kaushik, Mech. Inf	IC-61030 Biswajit Kumar Kar, EME
IC-60991 Kaushal Rai, Arty	IC-61031 Varun, Arty
IC-60992 Sudeep Kumar Manav, Engrs	IC-61032 Deeptansh Mohan, Arty
IC-60993 Saurabh Subhash Sheti, Inf	IC-61033 Neeraj Rana, AC
IC-60994 Trilok Chand Sharma, Inf	IC-61034 Vikram, AOC

IC-61035 Dharm Pratap Saxena, Sigs	IC-61082 Rahul Joshi, Inf
IC-61036 Prabhat Kumar, Arty	IC-61084 Arjun Kaistha, AC
IC-61038 Harmeet Singh Samra, Inf	IC-61085 Vikas Sharma, Inf
IC-61040 Parmendra Singh Yadav, Engrs	IC-61086 Abhijeet Sathaye, Inf
IC-61041 Niraj Mishra, Arty	IC-61087 Palash Datta, Engrs
IC-61042 Deepak Joshi, Inf	IC-61089 Resham Singh, Inf
IC-61043 Anand Kumar Shukla, Inf	IC-61091 Madhavan Panicker, Arty
IC-61044 Jitender Singh, Inf	IC-61092 Rahul Singh, Inf
IC-61045 Kunal Krishna, Engrs	IC-61093 Nitin Sharma, Arty
IC-61046 A Raghuram, Sigs	IC-61094 Jitender Singh Panwar, Arty
IC-61047 Raman Tyagi, Engrs	IC-61095 Irvinder Singh, EME
IC-61048 Raman Kumar Samnohra, ASC	IC-61096 Saurabh Saharan, AC
IC-61049 Mohammad Imran Khan, Arty	IC-61097 Vikrant Verma, INT
IC-61050 Sanjeev Kumar Jaswal, EME	IC-61098 Vishnu Prasad Nair, EME
IC-61051 Deep Marwah, Inf	IC-61099 Vijay Pal Singh, Engrs
IC-61052 Aishwary Pandey, Inf	IC-61100 Pradeep Krishnan Menon, EME
IC-61053 Alok Thakur, Inf	IC-61101 Jayasankar K, Inf
IC-61054 Abhinav Singh, AC	IC-61102 Santosh Kumar, AOC
IC-61056 Ranjit Singh, AD Arty	IC-61103 Vikramjeet Singh, Inf
IC-61057 Manash Bhaduri, Arty	IC-61104 Partha Samai, Arty
IC-61058 S Saleesh, EME	IC-61105 Gaurav Pathak, AC
IC-61060 Prem Singh Mehta, Sigs	IC-61106 Sudeep Dey, Sigs
IC-61061 Vipin Virbhan, Engrs	IC-61107 Bendang Sunep, Inf
IC-61062 Puneet Saxena, ASC	IC-61109 Bokil Mandar Madhukar, Engrs
IC-61064 Pushkar Negi, Inf	IC-61110 Ajay Sahrawat, Inf
IC-61065 Gautam Patnaik, Engrs	IC-61111 Munish Kumar Sharma, Inf
IC-61066 Amit Saini, AOC	IC-61112 Shakti Kanta Panda, Sigs
IC-61067 B Ravinder Reddy, EME	IC-61113 Ashutosh Nagpal, Inf
IC-61068 Ranjith Kumar, AD Arty	IC-61114 Gurpreet Singh, Inf
IC-61069 Mushtaq Ahmad Khan, Inf	IC-61115 Prakran Verma, Inf
IC-61070 Bejoy R, Mech. Inf	IC-61116 Anish Roy, Arty
IC-61071 Sandeep Saxena, Engrs	IC-61118 Mohammed Irfan Naeem, Engrs
IC-61072 Vivek Saxena, Arty	IC-61119 Arvind Kumar Joshi, ASC
IC-61074 Samit Kumar Das, Sigs	IC-61121 Madhu KC Alais Somanna, Inf
IC-61075 Ambrish Kumar, Arty	IC-61122 Bibhuti Prasad Panda, Arty
IC-61076 Dessai Subhash Pandurang, Sigs	IC-61123 Ashish Jauhari, AD Arty
IC-61078 Manvendra Siwach, Inf	IC-61125 Pravin Kumar Singh, Inf
IC-61079 Jasdeep Singh, Inf	IC-61126 Umang Kumar Chaudhary, Inf
IC-61081 Raja, AC	IC-61127 Mohd Samweel Nasree, ASC

IC-61128 Bikramjeet Singh, Inf	IC-63289 Abhishek Goel, Engrs
IC-61129 Abhishek Sharma, EME	IC-63290 Atul Singh, Sigs
IC-61130 Harish Kaushal, Inf	IC-63292 Krishnedu Raha, Sigs
IC-61131 Gobind Singh Dhillon, AC	IC-63293 Gagandeep Singh, EME
IC-61132 Arokia Rajan Packianathan, Arty	IC-63294 Amit Thakur, EME
IC-61133 Vikram Singh Rawat, Inf	IC-63295 Joydeep Majumdar, EME
IC-61134 Saurabh Jain Chopra, AD Arty	IC-63296 Abhishek Singh, Sigs
IC-61135 Ramanjeet Singh Chatha, AD Arty	IC-63297 Siju Chacko, Engrs
IC-61136 Sanjeev Kumar Dutta, Inf	IC-63298 Niraj Kalra, Sigs
IC-61137 Ajay Singh, Mech Inf	IC-63299 Ajay Vijayan Nair, Engrs
IC-61140 Suresh M, Inf	IC-63300 Bitupan Saikia, Engrs
IC-61141 Ajay Menon, AOC	IC-63301 Bharat Bhalla, Engrs
IC-61142 SK Nishka Sekhar, Arty	IC-63302 Deepak Rathore, EME
IC-61143 Arvind Madan, EME	IC-63303 Bheeshma Bhardwaj, Sigs
IC-61144 Praveen Padmanabhan, Engrs	IC-63304 Santosh Kumar Bhola, EME
IC-61145 Amitava Dasgupta, Arty	IC-63305 Nitin Sharma, Engrs
IC-61146 Sameer Andotra, Arty	IC-63306 Satyajit Nayak, Engrs
IC-61147 Sudhanshu Thapliyal, Inf	IC-63307 Hemant Singh, EME
IC-61148 Vishnu Sharma, AC	IC-63308 Ashwin Yadav, EME
IC-61150 Tapas Naithani, Inf	IC-63309 Dangare Sushant Jayavantrao, Sigs
IC-61151 Arindam Ghosh, Inf	IC-63310 Tarun Singhal, EME
IC-61153 George C Daniel, Arty	IC-63311 Mohit Kuntal, Engrs
IC-61154 Randeep Singh Gill, AC	IC-63313 CS Pawan Kumar, Engrs
IC-61155 Kulbhushan Kakkar, ASC	IC-63314 Gagandeep Malhotra, Sigs
IC-61156 Nikhil Madhukar Kamtikar, Sigs	IC-63315 Mayank Sharma, EME
IC-61158 Ajatsatru Nayak, Inf	IC-63316 Sher Jung Dhillon, Engrs
IC-61160 Amit Srivastava, Arty	IC-63317 Gitesh Deep Singh Sandhu, Engrs
IC-61161 Anjan Baruah, Arty	IC-63318 Jayan Jose, Engrs
IC-63277 Rajinder Singh, Engrs	IC-63319 Omesh Yadav, EME
IC-63278 Supreet Grewal, Engrs	IC-63320 Sawant Samrat Vilas, Engrs
IC-63279 Praveen M Khanzode, Arty	IC-63321 Harpreet Singh, EME
IC-63280 Anurag, EME	IC-63322 Ravinder Singh, Engrs
IC-63281 Davinder Singh, Sigs	IC-63323 Vikrant Sharma, Sigs
IC-63282 Abhishek Pathania, EME	IC-63324 Gaurav Khare, Engrs
IC-63283 Mangesh Gahininathi Nimgaonkar, Engrs	IC-63325 Ashutosh Kanwar, EME
IC-63284 Sunil S Fatehpur, Engrs	IC-63327 PA Vednarayanan, EME
IC-63285 Vivek S Panwar, EME	IC-63328 Vishal Kumar Srivastava, Engrs
IC-63286 Sandeep Sharma, Sigs	IC-63329 Sachin Sadasivan Pillai, EME
IC-63288 AV Prajeet, Engrs	IC-63330 Dipankar Chowdhury, EME

IC-63331 Nene Vivek Suhas, Engrs	IC-61333 Abhinandan Sarapure, Arty
IC-63332 Uday Thakur, Engrs	IC-61334 G H Hassan Nath, AD Arty
IC-63333 Ajay Yadav, EME	IC-61335 Akshay Kumar Ohri, Arty
IC-63334 Vikas Lamba, Sigs	IC-61336 Tushar Jacob Asirvadam, Arty
IC-63335 Desikan S, Sigs	IC-61337 Siddarth Singh, AC
IC-63336 Karajgi Zaheer Abbas Shabbir Ahmed, Engrs	IC-61338 Prashant Kukrety, ASC
IC-63337 Vikram Nehra, Engrs	IC-61339 Rohit Mukherjee, Mech Inf
IC-63339 Rakesh Ramachandran Pillai, Sigs	IC-61340 Shashi Bhushan Mishra, AOC
IC-63340 Harmeet Singh Wazir, Engrs	IC-61341 Shiv Neel Ganguly, Arty
IC-63341 Ajit Kumar, EME	IC-61342 Sanjay Singh Karki, Inf
IC-63342 Rajesh Pillai, Sigs	IC-61343 Ajay Singh, Sigs
IC-63343 Anirudh Singh Bais, EME	IC-61344 Shantanu Kumar, EME
IC-63344 Balram V Gopal, Engrs	IC-61345 Varun Dikshit, Engrs
IC-63345 Amit Das, Engrs	IC-61346 Nishant Parmar, Inf
IC-63346 Sandeep Bhat, Sigs	IC-61347 Mohit Singh, Inf
IC-63347 Gurpratap Singh Tur, Sigs	IC-61348 Pradumna Singh Chand, Engrs
IC-63348 Jaspinder Singh Sekhon, EME	IC-61349 Vikas Pandey, ASC
IC-63349 Ashutosh Kumar Sugandhi, Sigs	IC-61350 Animesh Jha, Arty
IC-63350 Rahul Mishra, Engrs	IC-61351 Aditya Pratap Singh, Arty
IC-63351 Rohit Bhandari, Sigs	IC-61352 Santosh Kumar Singh, Mech Inf
IC-63352 Jaimandeep Singh, Sigs	IC-61353 Ashish Koijam, AC
IC-63353 Pinaki Chakrabarti, Engrs	IC-61354 Milan Patnaik, Sigs
IC-63354 Badhe Dilip Mahadev, EME	IC-61355 Gaurav Pandey, EME
IC-63355 Himanshu Mathur, EME	IC-61356 Varinder Singh, Arty
IC-63356 Arvind Kondal, EME	IC-61357 Nectar Sanjenbam, Inf
IC-63357 Deepak Tyagi, Engrs	IC-61358 Siddarmesh M Rampur, Inf
IC-63358 Pradan Shyamnarayan Krishna, Sigs	IC-61359 Dharmendra Singh Negi, Inf
IC-63359 Dhan Singh, Engrs	IC-61360 Navin Rajan, Inf
IC-63360 Deependra Mishra, Engrs	IC-61361 Ajay Pandita, Inf
IC-63361 Jivtesh Singh Kahlon, Arty	IC-61362 Parvinder Singh, Arty
IC-63362 Manish Kumar Rana, Sigs	IC-61363 Sandeep Prakash Rao, Arty
IC-63364 Bharat Udai Seth, EME	IC-61364 Ajay Raghav, Inf
IC-63365 Harjinder Singh, EME	IC-61365 Jasjeet Singh, Engrs
IC-63366 Mathew Thomas, EME	IC-61366 Pradeep Kumar Gill, Inf
	IC-61367 Saurabh Saxena, Sigs
IC-61329 Pawan Nehra, AC	IC-61368 Subhasis Ghosh, Arty
IC-61330 Napoleon Nayak, AD Arty	IC-61369 Anoop Singh Khutel, Sigs
IC-61331 Mukund Bhardwaj, AD Arty	IC-61370 D Navin Benjit, Inf
IC-61332 Amoljit Singh Gill, AC	IC-61371 Rajesh Sharma, Engrs

—16 Dec 2004—

IC-61372 Hitender Parti, AOC	IC-61413 Kashyap Thakker, Inf
IC-61373 Rupender Malhotra, EME	IC-61415 Ajay Kumar, Inf
IC-61374 Mohit Sah, Inf	IC-61416 Sukhjinder Paul Singh, Inf
IC-61375 Nainak Deb, Arty	IC-61418 M Sanjeev, Inf
IC-61376 Mohit Mishra, Inf	IC-61419 Ashish Kumar, AOC
IC-61377 Yogesh Singh, Inf	IC-61420 Ranjeet Singh Hundal, AC
IC-61378 Baljeet Singh, Mech Inf	IC-61421 Roshan Singh Butola, Inf
IC-61379 Deepak Tewari, EME	IC-61422 Satya Kirti, Inf
IC-61380 C Vidyadharan, AC	IC-61423 Vinod Kumar Adhikari, Inf
IC-61382 Ashish Lal, AC	IC-61424 Himanshu Bijalwan, AOC
IC-61383 Nipun Krishnan, Inf	IC-61425 Virender Singh Phogat, Engrs
IC-61384 Vineet Taluja, Arty	IC-61426 Karavadi Srikanth, Sigs
IC-61385 Sumeet Katti, Inf	IC-61427 Tathagata Dutta, AC
IC-61386 Shekhar Attri, Inf	IC-61428 Prashant Bhardwaj, Inf
IC-61388 Neeraj Naithani, EME	IC-61429 Kuldeep Singh Rathee, EME
IC-61389 Kedar Madhukar Aradhya, Inf	IC-61430 Ummaneedi Venkateswara Rao, Arty
IC-61390 Suresh Suri, Inf	IC-61431 Rakesh Kumar Singh, Inf
IC-61391 Pradeep Singh Manhas, Sigs	IC-61432 Gurpreet Singh Bali, EME
IC-61392 V Srihari, Engrs	IC-61433 Suhel Y Soudagar, Mech. Inf
IC-61393 Ankur Vikas Vaidya, AD Arty	IC-61435 Ranjit R Nair, AD Arty
IC-61394 Vikram Nehra, ASC	IC-61436 Yog Krishan Pathak, Inf
IC-61395 Gagandeep Singh Nanda, Inf	IC-61437 Amit Kotnala, Inf
IC-61396 Vinod Kumar, Inf	IC-61438 Ram Pal Dahiya, AC
IC-61397 Rexson Robertson, Inf	IC-61439 Dhyan Chand Heisnam, ASC
IC-61398 Vishal Kumar Singh, Inf	IC-61440 Pushpaj Kashyap, Arty
IC-61399 Anil Mehta, Arty	IC-61441 Satya Sundar Mishra, Inf
IC-61400 Sandbhor Prateek Gangadhar, Mech Inf	IC-61442 Pradeep Kumar Dikshit, Inf
IC-61401 Sanju Mathew, Inf	IC-61443 Vipin Chauhan, AOC
IC-61402 Samarjit Ray, Inf	IC-61444 Devanand M Mathpati, Inf
IC-61403 Apratim Sharma, AD Arty	IC-61445 Sham Dev, AOC
IC-61404 Jatinder Singh Randhawa, Sigs	IC-61446 Sourav Narayan Dey, Inf
IC-61405 Amit Kumar, ASC	IC-61447 Shikhar Chaturvedi, Inf
IC-61406 Pritam Rawool, Engrs	IC-61448 Anish Babu, Arty
IC-61407 Harim Rakesh Thakur, Engrs	IC-61449 Mayank Sharma, AD Arty
IC-61408 Abhishek Chawla, Arty	IC-61450 Sangram Singh, Engrs
IC-61409 Shailesh Kumar Roy, Inf	IC-61451 Sunil Kumar, Inf
IC-61410 Abhishek Patwardhan, Mech Inf	IC-61452 M P Appaiya, Inf
IC-61411 Sutirtho Roy, Arty	IC-61453 Ankur Tiwari, Arty
IC-61412 R Vishnu Shankar, Arty	IC-61454 Alok Mohanty, Engrs

IC-61455 Rajneesh Parmar, AC	IC-61495 Aman Abrol, Arty
IC-61456 Anoop Singh, Arty	IC-61496 Sunil Kumar Dogra, ASC
IC-61457 Suryajeet Ahlawat, EME	IC-61497 Harshad H Dandekar, Arty
IC-61458 Vishal Sharma, Arty	IC-61498 Sambit Parija, Arty
IC-61459 Abhishek Bisht, Arty	IC-61500 Amit Khanna, AOC
IC-61460 Satyajit Shinde Ajit Singh, Inf	IC-61501 Sarabjeet Singh, Arty
IC-61461 Sidharth Shukla, Sigs	IC-61502 K S Kevin, AD Arty
IC-61462 Durgesh Kumar Bansal, Inf	IC-61503 Ankit Sarin, Arty
IC-61463 Suchet Kathuria, Engrs	IC-61504 Rahul Bahanrao Bannore, Arty
IC-61464 Akshat Anand, Arty	IC-61505 Amrik Badial, Sigs
IC-61465 Deependra Jasrotia, Inf	IC-61506 Naseer Faisal Zia, Inf
IC-61466 Amit Kadian, Inf	IC-61507 B Praveen, EME
IC-61467 Sachin Karnik Sham, Inf	IC-61508 Vijender Kumar Sangwan, ASC
IC-61468 Anjeet Ohri, Inf	IC-61509 Brijendra Singh, Inf
IC-61469 Manddeep Singh Ghumman, Arty	IC-61510 Shehjar Dhar, Sigs
IC-61470 Rajat Pokhriyal, AC	IC-61511 Yashokirti Gaur, Inf
IC-61471 Thoudam Anand Singh, Inf	IC-61512 Asheesh Sharma, Arty
IC-61472 Santosh Rawat, Inf	IC-61513 Puneet Pratap Singh Tomar, Inf
IC-61473 Rajan Vyas, Arty	IC-61514 Harpreet Singh Kohli, Inf
IC-61474 D Souza Nestor Derrick, Inf	IC-61515 Inder Pal Singh, Inf
IC-61475 Sameer Arora, Arty	IC-61516 Amit Kumar, ASC
IC-61476 Ritesh Singh, Inf	IC-61517 Kamal Venu Nair, Inf
IC-61477 Amit Gupta, Inf	IC-61518 Rahul, AC
IC-61478 Amit Mathew, Inf	IC-61519 Jaiveer Singh Negi, Inf
IC-61479 Namit Rai, Arty	IC-61520 Jojo Jacob, Inf
IC-61480 Kartikeya Kukrety, Inf	IC-61521 Akshay Garg, Inf
IC-61481 Sunil Kumar Mor, Inf	IC-61522 Vimal Kumar Khandka, Inf
IC-61482 Rajat Sahni, ASC	IC-61523 Rajesh Kumar Singh, Inf
IC-61483 Rohit Sharma, Sigs	IC-61524 Santosh Kumar, Inf
IC-61484 Manoj Kumar, Inf	IC-61525 Anshu Gupta, EME
IC-61485 Rahul Slathia, Inf	IC-61526 Anurag Bakshi, AC
IC-61486 Pravinder Singh Negi, Engrs	IC-61527 Gopal Singh, Sigs
IC-61487 Sukhdeep Singh, EME	IC-61528 Vijay Singh Dhillon, AOC
IC-61488 Gaurav Jain, Engrs	IC-61529 Ghanshyam, Mech. Inf
IC-61490 Prashant S Appaji, Sigs	IC-61530 Manas Khadanga, AD Arty
IC-61491 Abhishek Mohan, AD Arty	IC-61531 Vikas Sharma, Inf
IC-61492 Rahul Sanga, AC	IC-61532 Jitendra Singh, Engrs
IC-61493 Sachin Bhatia, Engrs	IC-61533 Parthasarathy Roy, Inf
IC-61494 Paramveer Singh Bisht, EME	IC-61534 Sanjay Jadon, EME

IC-61535 Vinay Khandelwal, Engrs	IC-61577 Amit Kumar Sharma, Engrs
IC-61536 Brahm Dev Malik, AOC	IC-61578 Chetan Tiwari, Engrs
IC-61537 Prashant Kacker, Inf	IC-61579 Ram Mohan Purohit, Mech. Inf
IC-61538 Deepak Joshi, Sigs	IC-61580 Pavel Roy, Inf
IC-61540 Sachin Rastogi, Inf	IC-61581 Rahul Arvind Pawar, Engrs
IC-61541 Vimal G Nair, Inf	IC-61582 Naresh Chandra Gairola, Inf
IC-61542 Pankaj Sharma, Inf	IC-61583 Pawan Singh, ASC
IC-61544 A Vijaya Kumar, Engrs	IC-61584 Vivek Kumar Dwivedi, Arty
IC-61545 P Madhusudhana Rao, Inf	IC-61585 Ajay Bhat, Sigs
IC-61546 Yatendra Kumar Magraiya, Inf	IC-61586 Sagar Prakash Chaudhary, Arty
IC-61547 Parmod Singh, EME	IC-61587 Tejender Singh, Inf
IC-61548 Anjul Bahuguna, Inf	IC-61588 Naveen Kumar C Hiremath, EME
IC-61549 Vimal Kumar Ray, Arty	IC-61589 Gaurav Singh Manhas, Inf
IC-61550 Baby Pattanayak, Arty	IC-61590 Amit Shukla, Inf
IC-61551 Earth Kukrety, AC	IC-61591 Chandra Shekhar Singh, Arty
IC-61552 Ramesh Prakash, Mech. Inf	IC-61592 Rajesh Pathania, ASC
IC-61553 Pankaj Singh, Inf	IC-61593 Amit Kumar Mishra, Sigs
IC-61554 Ramendra Kumar Singh, Inf	IC-61594 Siddharth Dilip Deshmukh, Inf
IC-61555 Sunil Kumar, Sigs	IC-61595 Amit Thakur, AD Arty
IC-61556 Snehal Rathore, Inf	IC-61596 Ashutosh Srivastava, AOC
IC-61557 Ajay Kumar Sharma, Engrs	IC-61597 Arun Pushkar, Sigs
IC-61558 Vikas Kumar Budhiraja, ASC	IC-61598 Munish Goel, Mech. Inf
IC-61559 Vikramjit Singh Sahi, Arty	IC-61599 Alok Kumar, Engrs
IC-61560 Sunil Sharma, AD Arty	IC-61600 Sudeep Dutta, Inf
IC-61562 Vishal Bhandral, Inf	IC-61601 S Praveen, Inf
IC-61563 Niteshkumar Vasant Sutar, AOC	IC-61602 Devashis Nayak, Inf
IC-61564 Rakesh Chander, Inf	IC-61603 Ceejo Antony, Engrs
IC-61565 Gurbir Singh Kahlon, Inf	IC-61604 Gaurav Thappa, Arty
IC-61566 Rajat Pallav, Inf	IC-61605 K V Vimal, Arty
IC-61567 Udai Bhanu, EME	IC-61606 Priyatosh Ganguli, Arty
IC-61568 Abhishek Saxena, AC	IC-61607 Bharat Singh, ASC
IC-61569 Manoj Kumar, Arty	IC-61608 Milind Shinde, Inf
IC-61570 Maharana Pramod Lingraj, Arty	IC-61609 Amanbir Singh Gill, AD Arty
IC-61571 Sunit Paliwal, Inf	IC-61610 Manish Joshi, Inf
IC-61572 Kanwar Jeet Singh, Arty	IC-61611 Rajnikant Upadhyay, AC
IC-61573 Asish Edwin Moses, EME	IC-61612 Surya Prakash Pandey, Sigs
IC-61574 Suprit Kumar Basu, AC	IC-61613 Preetinder Singh Chohan, Inf
IC-61575 Uday Mohan Tiwari, Inf	IC-61614 Abhishek Thakur, Inf
IC-61576 Anand Kumar, Int	IC-61615 T S Narayan, EME

IC-61616 Sarang Yashvant Kelapure, ASC	IC-61656 Vinod Sharma, Arty
IC-61617 Ranjeet Srivastava, Inf	IC-61657 Padam Gouru Naidu, EME
IC-61618 Vineet Tomar, Inf	IC-61658 Amit Chandra, Arty
IC-61619 Mishbahuddin Khan, Engrs	IC-61659 Sabyasachi Bakundi, Arty
IC-61620 Achlesh Kumar Dahiya, Inf	IC-61660 Reuben Varghese Philip, Int
IC-61621 Himanshu Mishra, Inf	IC-61661 Sumant B Kadam, EME
IC-61622 Harsh Vardhan Sharma, Arty	IC-61662 Ankur Dhillon, Inf
IC-61623 Sudheer Sharma, Inf	IC-61663 Yatinder Kumar, Mech. Inf
IC-61624 Pankaj Prakash Jain, ASC	IC-61664 Shailendra Yadav, Arty
IC-61625 Shamim Mian Ansari, AOC	IC-61665 Bhupendra Rawat, AD Arty
IC-61626 Subhrakant Mohanty, Arty	IC-61666 Deepak Bhatt, EME
IC-61627 K Arun Prasad, Inf	IC-61667 Parihal Laisram, Engrs
IC-61628 Paramananda Das, AD Arty	IC-61668 Vikram Singh Bhati, AC
IC-61629 Anurag Gupta, Inf	IC-61669 Neeraj Tiwari, Inf
IC-61630 Atul Sharma, Inf	IC-61670 Gunendra Kumar Samad, AOC
IC-61631 Amardeep Singh Rawat, Sigs	IC-61671 Rajnish Singh Sakarwar, Arty
IC-61632 Mitesh Khati, Arty	IC-61672 Pushpak Mishra, Arty
IC-61633 Mayank Rastogi, Engrs	IC-61673 Harsha Vardhan Pandey, Inf
IC-61634 Amrish Moghe, AC	IC-61674 Laxman Singh Deopa, Inf
IC-61635 Prashant Kumar Singh, Mech. Inf	IC-61675 P Kaliappan, Sigs
IC-61636 Bhupendra Singh Chhikara, Inf	IC-61676 Siddhartha, ASC
IC-61637 Ajay Kumar Pandey, Arty	IC-61677 Anoop Kumar Tripathy, Inf
IC-61638 Neeraj Kohli, EME	IC-61678 Amit, Inf
IC-61639 Yogesh Chhetri, Inf	IC-61679 Ravi Dubey, AC
IC-61640 Vivek Sharma, Arty	IC-61680 M Selva Kumar, Inf
IC-61641 Vikas Suhag, AC	IC-61681 Bhagat Preet Singh Bedi, AOC
IC-61642 Neeraj Chaudhary, Sigs	IC-61682 Mainak Sengupta, Arty
IC-61643 Ravi Kumar, ASC	IC-61683 Sambhav Khugshal, Arty
IC-61644 Nikhil Thackar, Inf	IC-61684 Pramod Singh, Inf
IC-61645 Pranay Sindhu, Inf	IC-61685 Suchit R, Engrs
IC-61646 Rajesh Kumar Jha, EME	IC-61686 Sreekesh S, ASC
IC-61647 Manoj Dhapola, Inf	IC-61687 Deepak Pandey, Inf
IC-61648 Manish Survase, Engrs	IC-61688 Sandeep Kaushik, Inf
IC-61649 Pankaj Sharma, Inf	IC-61689 Anil Kumar Kashyap, Arty
IC-61650 Subhash Pradhan, Inf	IC-61690 Nanda Kumar Kaimal, Sigs
IC-61651 Apurv Bhatnagar, Inf	IC-61691 Ajay Kandpal, EME
IC-61653 Anoop A P, EME	IC-61692 Sanjeev Kumar Sumbria, Sigs
IC-61654 Amol Shantaram Awate, Mech. Inf	IC-61693 Vimal Mohan Naithani, Inf
IC-61655 Manoj Gurung, Inf	IC-61694 Pradeep Kumar Dwivedi, Arty

IC-61695 Dilawar Singh Dhaka, Inf	IC-61734 Amit Kumar, Sigs
IC-61696 Virjendra Singh Chauhan, Sigs	IC-61735 Pankaj Kumar Upadhya, Engrs
IC-61697 Sushant Kumar Mohapatra, Inf	IC-61736 Surender Singh, Engrs
IC-61698 Naveen Kumar Sah, Engrs	IC-61737 Ankush Pathania, Inf
IC-61699 Rakesh Kumar Singh, AD Arty	IC-61738 Tashjeet Singh Duggal, AC
IC-61700 Sanjay Kumar Narwal, Engrs	IC-61739 Vikrant Rangrao More, Inf
IC-61701 Sandeep Rana, Sigs	IC-61740 A Richard Devadoss, Inf
IC-61702 Arvind Kumar Tiwari, Inf	IC-61741 Harpreet Singh Manchandra, ASC
IC-61703 Jadhav Milind Pandurang, EME	IC-61742 Vineet Kumar, Inf
IC-61704 Ramesh Singh, Arty	IC-61743 Nirbhay Gautam, AC
IC-61705 Ritesh Kumar Pandey, EME	IC-61744 Anil Jhinjheria, Inf
IC-61706 Sanjeev Kumar Nain, AOC	IC-61745 Ishan Kapoor, Inf
IC-61707 Piyush Kumar Shukla, Engrs	IC-61746 Amit Kumar Mahadev Aswale, Engrs
IC-61708 Abhinay Gupta, Inf	IC-61747 Anurag Prakash, AC
IC-61709 Abhay Singh Rathor, AC	IC-61748 Dharmendra Singh, AD Arty
IC-61710 James Samuval A, Inf	IC-61749 Sameer Madhwal, Inf
IC-61711 Viraj Gurung, Arty	IC-61750 Sanjib Kumar Roy, Inf
IC-61712 Vipin Kumar Srivastva, ASC	IC-61751 Ankur Mehra, Arty
IC-61713 Sanjeev Thakur, Inf	IC-61752 Bidesh Ranjan Dasgupta, Inf
IC-61714 Rahul Singh, Inf	IC-61754 Gagan Deep Gogia, Arty
IC-61715 Himanshu Sabharwal, Inf	IC-61755 Sudhir Kumar Singh, Inf
IC-61716 Jai Vijay Singh Rawat, Inf	IC-61756 Ashish Bajpai, Inf
IC-61717 Kshitij Bhatia, AC	IC-61757 Arun Belwal, Inf
IC-61718 Vaibhav Joshi, Inf	IC-61759 AVRA Joti Bhattacharjee, EME
IC-61719 Aaron Kandpal, Inf	IC-61760 Kuldeep Singh, Arty
IC-61720 Anil Kumar Sharma, Inf	IC-61761 Abhishek Singh Gautam, Arty
IC-61721 Rajiv Bhatia, AOC	IC-61762 Rishi Mahajan, EME
IC-61722 Ajay Pal Kaushal, Arty	IC-61763 Deepak Baskandi, Engrs
IC-61723 Yogesh Jha, ASC	IC-61765 Atin Tandon, Arty
IC-61724 Shailendra Singh, Arty	IC-61766 Sarwan Kumar, Inf
IC-61725 Vijay Singh Balhara, Mech. Inf	IC-61767 S Praveen Babu, EME
IC-61726 Arun Kumar Singh Raghaw, EME	IC-61768 Midhun Muraleedharan, AC
IC-61727 Gurjeet Singh, EME	IC-61769 Udit Consul, AD Arty
IC-61728 Rahul Gagneja, Arty	IC-61770 Hari Ram Ojha, Inf
IC-61729 MVSNA Bhagwan, AD Arty	IC-61771 Manoj Pathania, Inf
IC-61730 Tanik Sood, Arty	IC-61772 Harsh Kumar Jha, Inf
IC-61731 Prashant Singh, Arty	IC-61773 Yashwant Singh Ranawat, AC
IC-61732 Raman Yadav, Mech. Inf	IC-61774 Rohitash Kumar Sheoran, Inf
IC-61733 Ratanpal Singh Arya, AOC	IC-61775 Maneesh Punetha, ASC

IC-61776 Lewis Rohan Josheph Robert, Engrs	IC-61815 Narender Pal, ASC
IC-61777 Samir Singh Kushwah, Inf	IC-61816 Surya Prakash Singh Rawat, EME
IC-61778 Pankaj Sirohi, AOC	IC-61817 Nitin Khajuria, Inf
IC-61779 Dheeraj Kumar, Sigs	IC-61818 Kulwinder Singh Multani, AOC
IC-61780 Ajay Bhardwaj, Inf	IC-61819 Piyush Sharma, Inf
IC-61781 Vivek Pal Singh, Arty	IC-61820 Vivek Kandwal, EME
IC-61782 Vineet Kamal Gupta, Sigs	IC-61821 Rahul Modgil, Sigs
IC-61783 Dewesh Wahi, Inf	IC-61822 Ashish Kashyap, Arty
IC-61784 Dheeraj Kumar Tyagi, AOC	IC-61823 Kaustub Dasgupta, Mech. Inf
IC-61785 Shinde Sachin Babaji, Engrs	IC-61824 KK Premdeep, Engrs
IC-61786 Ravindra Singh, Arty	IC-61825 Saurabh Tiwari, Arty
IC-61787 Naveen Masih, Mech Inf	IC-61826 Rohit Prakash Rai, Sigs
IC-61788 Kumar Shivam Dubey, Sigs	IC-61827 Maneesh Chhetri, ASC
IC-61789 Nongmaithem Pritikumar Singh, Inf	IC-61828 Vishal Sharan, Engrs
IC-61790 Sameer Lamba, Inf	IC-61829 Sumit Pant, Inf
IC-61791 Amlan Chaturvedi, Arty	IC-61830 Nishit Murat Singh Thakur, Inf
IC-61792 Ritesh Kohli, EME	IC-61831 Ravinder Singh Negi, Inf
IC-61793 Manav Sharma, Inf	IC-61832 Bejender Singh, Inf
IC-61794 Sandeep Kumar, Arty	IC-61833 Bhavdeep Kumar Mago, EME
IC-61795 Amit Tripathi, Inf	IC-61834 Vikrant Mehta, AC
IC-61796 Mukesh Kumar Verma, Inf	IC-61835 Pravin Janardan Haridas, Sigs
IC-61797 Ananjay Saldanha, AC	IC-61836 Gaurav Kapila, Arty
IC-61798 Sabyasachi Dash, Arty	IC-61837 Praveen Kumar, EME
IC-61799 Bhupender, Inf	IC-61838 Garga Das, Arty
IC-61800 Gaurav Singh, Inf	IC-61839 Rupinder Jeet Singh, Inf
IC-61801 Abhinav Vashista, AC	IC-61840 Rajesh Choudhary, Inf
IC-61802 Vijay Rawat, Inf	IC-61841 Rishi Bhanot, Engrs
IC-61803 Vishal Sharma, Engrs	IC-61842 Rohit Jha, AD Arty
IC-61804 Piyush Yadav, Int	IC-61843 Amanpreet Singh Gill, Arty
IC-61805 Vijay Rana, Inf	IC-61844 Ravi Vaish, Inf
IC-61806 KSH Maheshwor Singh, AD Arty	IC-61845 Langoljam Sunindro Singh, Arty
IC-61807 Sawant Sangram Anil, Inf	IC-61846 Paritosh Mithal, Inf
IC-61808 Chap Singh Gehlawat, Inf	IC-61847 Satish Kumar, Engrs
IC-61809 Peeyush Bist, ASC	IC-61848 Surendra Kumar Kauntae, Inf
IC-61810 Sanjeev Kumar, Sigs	IC-61849 Kunwar Shailendera Singh, AOC
IC-61811 Satyendra Singh Bhoj, Engrs	IC-61850 Vivek Sharma, Inf
IC-61812 Prashant Velayudhan, Arty	IC-61851 Sumeet Sharma, Inf
IC-61813 Abhishek Khanna, Engrs	IC-61852 R Jagath Narayan, Inf
IC-61814 Naveen Chandra Joshi, Mech Inf	IC-61853 Harsh Wardhan Pande, AC

IC-61854 Maneesh Bist, Arty	IC-61894 Mahesh Suryanarayanan, Arty
IC-61855 Sandeep Datta, Mech Inf	IC-61895 Sunil Kumar Saroj, Inf
IC-61856 Sombir Singh Lamba, Inf	IC-61896 Nishant Singh, Sigs
IC-61857 Manu Shukla, Arty	IC-61898 Kiram Kumar S Morbale, ASC
IC-61858 Vipin Pradhan, Inf	IC-61899 Sailendra Kumar Dhir, Arty
IC-61859 Anurag Tiwari, AD Arty	IC-61900 Mridul Kanti Sinha, EME
IC-61860 Amit Teotia, Inf	IC-61901 Sumit Kumar Munshi, Inf
IC-61861 Vikram Bisht, Arty	IC-61902 Sree Kumar, EME
IC-61862 Rajendra Singh, Inf	IC-61903 Shashank Tripathi, Engrs
IC-61863 Mukesh Sharma, Sigs	IC-61904 Vijay Singh Rawat, ASC
IC-61864 Gagan Sharma, Inf	IC-61905 Arshad Z Siddiqui, Arty
IC-61865 Pankaj Saini, Int	IC-61906 Sampat Kumar, AOC
IC-61866 Manoj Kumar Pandit, EME	IC-61907 Kapil Sharma, ASC
IC-61867 Mukesh Kumar, Engrs	IC-61908 Vikramaditya Singh Pal, Inf
IC-61868 Prahlad Rana, Arty	IC-61909 Sachin Sharma, Inf
IC-61869 Ujjwal Panchal, Sigs	IC-61910 Manish Tiwari, Inf
IC-61870 Rudolf Jacob, Inf	IC-61911 Soami Saran Bhatnagar, Sigs
IC-61871 Kunal Mukerjea, AC	IC-61912 S Anand Singh, Inf
IC-61872 Sameer Gunthey, Inf	IC-61913 Mayank Goel, AD Arty
IC-61873 Taranjit Singh, ASC	IC-61914 GV Ramesh Kumar, Arty
IC-61874 Prasun Pallaw, AD Arty	IC-61915 Nagesh Dhoundiyal, AC
IC-61875 Shashi Gopal Upadhyay, AD Arty	IC-61916 Munish Sharma, Inf
IC-61876 Shailendra Kumar Singh, Inf	IC-61917 Prakash Chandra Sirswal, Inf
IC-61877 Sivakumar S, Inf	IC-61918 Tarun Singh, Inf
IC-61878 Viram Pal, Mech Inf	IC-61919 Suresh Chand Ramola, Engrs
IC-61879 Sandeep Bana, Int	IC-61920 DVN Ramakant, Arty
IC-61880 Jacob Philip, Inf	IC-61921 Dileep Nandan Agnihotri, Mech Inf
IC-61881 Bhuwan Kukreti, Inf	IC-61922 Neeraj Gupta, AC
IC-61882 Vikas Badhani, Engrs	IC-61923 Siddharth Upadhyaya, Sigs
IC-61883 Rohit Menon, Arty	IC-61924 Ruchir Pande, Inf
IC-61884 Desvinder Singh Ahluwalia, Inf	IC-61925 Jeeth Raju, AOC
IC-61885 Agyat Manu, Inf	IC-61926 Kapil Khullar, EME
IC-61886 Rachit Sahni, Inf	IC-61927 Shalabh Pulastya, Arty
IC-61887 Manish Kumar Singh, Arty	IC-61928 Ravindra Kumar Patro, Arty
IC-61888 Himmat Singh Braich, AC	IC-61929 Rajesh Kumar, ASC
IC-61889 Himanshu Arora, AOC	IC-61930 Mahidhar Dharani, Int
IC-61891 Raj Kumar Singh Sengar, Inf	IC-61931 Rajul Srivastava, Engrs
IC-61892 Deepak Kumar, Engrs	IC-61932 Vimal Chand Baudh, EME
IC-61893 Inder Kumar Goswami, Arty	IC-61933 PVVS Sudheer Kumar, Sigs

IC-61934 Bhupendra Pal Singh, ASC
 IC-61936 Raj Praveen Singh, AD Arty
 IC-61937 Diwakar Kapoor, Arty
 IC-61938 Pupinder Singh, Inf
 IC-61939 Sourav Banerjee, AOC
 IC-61940 Shaurya Vardhan, Inf
 IC-61941 Atul Srivastava, Inf
 IC-61942 Har Agam Pal Singh, Arty
 IC-61943 Maulin B Marthak, Inf
 IC-61944 Brijesh Sharma, Inf
 IC-61945 Bijumoni Konwar, Inf
 IC-61946 Nitin Tewari, Mech Inf
 IC-61947 Jitender Kumar Saini, Sigs
 IC-61948 Pradeep Singh, AC
 IC-61949 Pramod Kandiyal, Inf
 IC-61950 Rahul Saxena, Inf
 IC-61952 Anupam Roy, Inf
 IC-61953 Akhilesh Kumar Pal, Engrs,
 IC-61955 Saurav Kumar Bhattacharya, Int
 IC-61956 Reet Ray, Arty
 IC-61957 Sahil Kochhar, AC
 IC-61958 Mohit Puri, Arty
 IC-61959 Anant Saurav, Arty
 IC-61960 Bhupendra Singh Rawat, Inf
 IC-63724 Anurag Sharma, Sigs
 IC-63725 Umashankar, Engrs
 IC-63726 Kanwarjeet Singh, Sigs
 IC-63727 Ashish Shoran, AD Arty
 IC-63729 Harinder Singh Suhag, Arty
 IC-63730 Vikas Singh Rana, EME
 IC-63731 Jasdeep Singh, EME
 IC-63732 Sanjay Kumar Pandey, AD Arty
 IC-63733 Abhishek Kumar Shrivastava, AD Arty
 IC-63734 R Sameer, Arty
 IC-63735 Ravi Kiran Tomar, Engrs
 IC-63737 C Senthil Kumaran, Sigs
 IC-63738 Vijay Dhankhar, Engrs
 IC-63739 Kudale Amit Shrikant, EME
 IC-63740 Raghvendra Agrawal, Int

IC-63741 Maneesh, Engrs
 IC-63742 Deven Datta, AD Arty
 IC-63743 Sunil Kumar, Arty
 IC-63744 KVVPS Nirban, Engrs
 IC-63746 Mayank Soni, EME
 IC-63747 Sunil Gahlaut, Engrs
 IC-63748 Anup V Pillai, AD Arty
 IC-63749 Harish Kumar Spolia, AC
 IC-63750 Daliparti Sreekanth, Engrs
 IC-63751 Ajay Kumar, Int
 IC-63752 P Radweap RV, Sigs
 IC-63753 Abhishek Kumar, AD Arty
 IC-63754 Chintaluri Hanumantha Rao, Engrs
 IC-63755 Angshuman Chakrabarti, Sigs
 IC-63756 Suresh Narayan Tripathi, AD Arty
 IC-63757 Saurabh Modi, AC
 IC-63758 Siddhartha Acharya, Arty
 IC-63760 Basav Raj, EME

—16 Dec 2004—

CHANDER PARKASH
 Dy. Dir
 MS-8C

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
 ORGANISATION

No. 517, dated 3rd October 2005—The President is pleased to make the following promotions :—

The undermentioned Scientist(s) 'B' to be Scientist 'C' in the Defence Research & Development Service with effect from the date shown against their names in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- :—

Sl. No.	Name	Estt/Lab	Date
1	2	3	4
1.	Shri Virender Kumar Mahala	TBRL, Chandigarh	11.07.2005
2.	Shri Rajwant Rai	Do.	01.07.2005
3.	Shri Raj Kumar Bhardwaj	Do.	Do.
4.	Shri Inderpal Singh Sandhu	Do.	Do.

1	2	3	4
5.	Smt. Shallu Gupta	TBRL, Chandigarh	01.07.2005
6.	Dr. Vandana Pathania	Do.	Do.
7.	Ms. Ritu Bedi	Do.	Do.
8.	Ms. Rekha Chandra	LASTEC, Delhi	Do.
9.	Shri Narendra Kumar Gupta	Do.	Do.
10.	Ms. Neena Satti	Do.	Do.
11.	Shri Sudhabrata Majumdar	Do	01.07.2005
12.	Shri Bhawani Singh Solanki	Do.	Do.
13.	Shri Sanjeev Kumar	Do.	Do.
14.	Shri Apporv Dhawan	Do.	Do.
15.	Shri Manish Bansal	Do.	Do.
16.	Dr. Amit Pratap	Do.	Do.
17.	Shri Harishchandra Bhagwant Thigale	VRDE, Ahmednagar	Do.
18.	Shri Bhinnami Singh	Do.	Do.
19.	Shri Pinjeri Vannur Valli	Do.	Do.
20.	Shri Suryanarayana Challa	Do.	Do.
21.	Shri Vinod Kumar	INMAS, Delhi	Do.
22.	Dr. Rashmi Aggarwal	Do.	Do.
23.	Shri Rakesh Kumar Sahu	RAC, Delhi	Do.
24.	Shri Gurjit Singh	SAG, Delhi	Do.
25.	Shri Anand Sharma	Do.	Do.
26.	Shri Ram Ashish Chouksey	SSPL, Delhi	Do.
27.	Shri Fahim	Do.	04.07.2005
28.	Shri Poomendu Chaturvedi	Do.	01.07.2005
29.	Shri Shankar Dutta	Do.	Do.
30.	Ms. Vanya Srivastav	Do.	Do.
31.	Dr. (Mrs.) Pratishtha T Pandey	Do.	Do.
32.	Shri Neeraj Kumar	DRDO HQ/ DNRD	Do.
33.	Shri Gopal Meena	DRDO HQ/ DECS	Do.
34.	Dr. N. Mohan	CFES, Delhi	Do.
35.	Shri Jag Pravesh	Do.	Do.

JK KHADWAL
Joint Director (Pers-8)

AIR FORCE

No. 517, dated 4th October 2005—The President is pleased to make the following Substantive Promotion :—

INDIAN AIR FORCE
F(P) (M) BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

NK Krishnan (15258), R S Sachdev (15801), C S Narayanamurthy (14631), S M Kulkarni (15483), D Magon (14188), wef 16 December 2004.

AE(L) BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

S S K Murthy (14134), J S Minhas (14162), M Bose (16150), N P Sewatkar (14331), V S Gupta (15291), B J S Bhatti (13467), R Pandit (14167), N S Chahal (14587), A P Thakur (14791), C M Seth (14181), Satya Prakash (15112), T S Randhawa (14179), T S Venkataramana (15096), wef 16 December 2004.

ADM BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

S M Hable (13523), S K Ghosh (13668), G S Pathak (13883), K K Sinha (13663), G Pandey (15246), P K Barara (13662), R K Rastogi (13654), S Chakraborty (14033), N P Verma (13642), S P Sinha (14044), K Krishnamurthy (13687), U K De (13239), M R N Rao (13869), S Basu (14039), V C Cyriac (13669), A Chatterjee (13868), P P Sharma (14042), V Jaiswal (14037), N Singh (13238), P Singh (13644), wef 16 December 2004.

LGS BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

G S Dalal (13431), P K Goswami (14059), D Dutt (13435), J S Jalsi (13416), wef 16 December 2004.

ACCTS BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

D C Rao (14072), A Pal (13693), S K Shinde (14067), M C Singhal (13682), R P G Naidu (13692), wef 16 December 2004.

MET BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

A Kumar (13012), A C Sharma (13014), O P Gupta (13017), Anoop Jerath (12565), wef 16 December 2004.

F(N) BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

P J Singh (15580), wef 16 December 2004.

AE(M) BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

G S Chaddha (15475), wef 16 December 2004.

AE(L) BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

J V Baporikar (15651), B R Dash (15974), P V Singh (15621), N S Prasad (15814), wef 16 December 2004.

ADM BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

R S Apte (14372), D V Verma (14502), D Verma (14571), K S P Upadhyaya (14932), S P Sinha (15235), wef 16 December 2004.

LGS BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

R Kapoor (14050), D K Nagar (14520), wef 16 December 2004.

AE(M) BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

Bib Singh (BC-18942), wef 16 December 2004.

AE(L) BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

R E Kushwaha (BC-19302), B M Kesarwani (BC-20545), D C Jalodia (BC-21062), N Singh (BC-19281), S S Chatrath (BC-19288), S N Jha (BC-19783), D Singh (BC-19760), B S Nair (BC-19765), G Ram (BC-19287), N Chand (BC-19297), R D Sharma (BC-19790), B Singh (BC-20537), H S Dogra (BC-21061), B Narain (BC-19766), M Iqbal (BC-19761), M M N Krishnan (BC-19764), P K Chakravarty (BC-19294), B Singh (BC-19296), S N Pandey (BC-21054), B S Chahar (BC-19758), GR Chaumbar (BC-20535), T G Basi (BC-19286), Ram Lal (BC-19781), wef 16 December 2004.

S G Mohuddin (BC-21679), wef 02 February 2005.

ADM BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

J Singh (BC-19595), K S Palia (BC-21301), K Kumar (BC-20409), Tarachand (BC-20412), J Tiwari (BC-20405), wef 16 December 2004.

S Sharma (BC-21698), G R Dadewal (BC-21704), D S Atri (BC-21705), S L Kotra (BC-21692), wef 01 Feb 2005.

LGS BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

G Baruah (16853), wef 16 December 2004.

ACCTS BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

K D Sharma (BC-21068), wef 16 December 2004.

EDN BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

S S Banik (BC-18994), Daulat Ram (18993), S Chaturvedi (19622), D N Roy (19624), S I Muthu (20433), B S Walia

(BC-20430), K Singh (BC-17397), P P S Krishnamurthy (BC-20431), B D Guha (20436), P B Akkalkot (BC-21074), R D Ram (BC-21070), wef 16 December 2004.

MET BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

A Singh (BC-21715), wef 01 February 2005.

F(P) BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

A Viz (24173), wef 16 December 2004.

AE(L) BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

N R Dash (24861), wef 16 December 2004.

AE(L) BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

N Narayanan (24133), wef 16 December 2004.

ADM BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

V Venkatadri (23612), wef 16 December 2004.

ADM BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

V K Sharma (BC-22304), wef 16 December 2004.

F(P) BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

R K Bhatia (17179), Bhag Chand (18286), N D Kalra (20148), U Kundu (21010), wef 16 December 2004.

ADM BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

T P Hariprasad (17036), S S Joshi (17382), I S S Raju (17389), A Chandla (17393), S S Bisht (17490), M Narayanan (17502), M C Pandey (17772), S N Kedharinath (17881), M S Saunriyal (18601), wef 16 December 2004.

LGS BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

TP S Arora (16973), P K Dudeja (16991), A Bhattacharya (17775), wef 16 December 2004.

ACCTS BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

S Duggal (17918), wef 16 December 2004.

S SRIVASTAV

Wg Cdr

JDPO-3(D)

ARMY BRANCH

No. 519, dated 4th October 2005—The President is pleased to release the undermentioned officers from Army Service w.e.f. the dates shown against their names.

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
SHORT SERVICE COMMISSION
RELEASE

DS-11855H Maj (Mrs) Chetna Mohan, 25 December 2004 (FN)

DS-11854A Maj (Mrs) K S Roy, 21 January.2005 (FN)

DS-12005L Maj Rishi Kumar Singhal, 28 February 2005 (AN)

DS-12007W Maj (Ms) Ritu Kaushal, 07 March 2005 (AN)

DS-12008Y Maj Janardhana Prathap R, 09 March 2005 (AN)

DS-12009F Maj (Ms) Sonali Sahai, 10 March 2005 (AN)

DS-12013K Maj Vikrant Walia, 17 April 2005 (FN)

DS-12016X Maj Abhinav Misuriya, 14th May 2005 (AN)

DS-11862 Maj (Ms) Shashi Katoch, 29th May 2005 (AN)

PARAMJIT SINGH
Maj Gen
Addl DGDS

ARMY BRANCH
CORRIGENDUM

No. 520, dated 28th September 2005—In Ministry of Defence Notification No. 231 dated 04 Apr 2005, published in Gazette of India No. 19 dated 07 May 2005 (Part I Section 4), under the heading 'Regular Army' sub heading 'Defence Security Corps' below 'To be Substantive Subedar Major (GD)' :—

For — Nb Sub Bhaskaran Nambiar Kuzhukunnon Othayoth (JC-141605L), 01 Aug 2004.

Read — Sub Bhaskaran Nambiar Kuzhukunnon Othayoth (JC-141605L), 01 Aug 2004.

T. K. M. PILLAI
Under Secy.